

बीतराग पथ के
राही को
हमारा शतः शतः
प्रणाम !



बी. एस. चन्द्रा एण्ड कम्पनी

३५, डिप्टी गज, सदर बाजार

दिल्ली-११०००६

इस भाष . [51567d
519700

तार . विपुल
टेन्कस . CIPL-ND-3306

पूज्य गुरुदेव
श्री कानजी स्वामी
को
हमारी विनम्र
अभिनन्दनांजलि !



मुकंद लाल गुलशन राय जैन

खंडसारी निर्माता तथा कमीशन एजेन्ट्स

४५-बी, नई मण्डी,

मुजफ्फर नगर (उ. प्र.)

उद्योग :

अमृत शुगर फैक्टरी

शेर नगर, मुजफ्फर नगर (उ. प्र.)

गुलशन खंडसारी उद्योग

दधेडू, मुजफ्फर नगर (उ. प्र.)

दूरभाष :

कार्यालय : १०५

शेर नगर : ३०४

दधेडू : ३९

निवास : १०५, ९९२, ८७६

शुभकामनाओं सहित

सिद्धोमल एण्ड संज
चावड़ी बाजार
दिल्ली-६

टेलीफोन : २६६२५६
: २६४६३२
टेलीग्रा : ३२८५

तार का पता : टिबू, दिल्ली

‘सच्चे मुनि का स्वरूप जो जानते नहीं और कुलिंग को भी मुनि के रूप में जो मानता है, वह वास्तव में मुनि को मानता ही नहीं, और न वह मुनि भक्त है।’

अहो ! गुरुदेव, हम आपके अत्यन्त आभारी हैं । आपने धर्म को ठीक-ठीक समझने की अलौकिक दृष्टि प्रदान की है ।



शुभकामनाओं सहित

सुरेन्द्र कुमार जैन

एस० के० अग्रवाल एण्ड सन्स

सेनीटरी इंजीनियर्स एवम् लायसेन्सड प्लम्बर्स

१२, न्यू कालोनी, माडल बस्ती, दिल्ली-११०००६

दूरभाष : ५ १ ५ २ ५ ३

परम उपकारक
पूज्य गुरुदेव
श्री कानजी स्वामी
को
विनम्र विनयाञ्जलि



शकुन प्रकाशन
३६२५, नेताजी सुभाष मार्ग,
दिल्ली-११०००६
दूरभाष : २७१८१८

भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में प्रकाशित

आगमपथ

नैतिक विचार मासिक

पूज्य गुरुदेव श्री कालजी स्वामी विशेषांक



परामर्शक
श्री भगत राम जैन
●
सम्पादक
बिनोद कुमार जैन
●
कलापक्ष
सुधीर

वर्ष : २ अंक : ६

मई १९७६

वार्षिक शुल्क : १० रुपये
एक प्रति : १ रुपया
प्रस्तुत अंक : ३ रुपये

समर्पण !
वीतराग पथ
के
वीर पथिकों
को ! ! !

* अनुक्रम *

★ मेरी कलम से	—सम्पादकीय	१०
★ शुभ सन्देश		११
★ अभियान (गुरुदेव के प्रति कविता)	—'युगल' जी, एम. ए.	३७
★ आत्मार्थी श्री कानजी स्वामी (संक्षिप्त लेखाजालि)	जीवन झांकी)	४०
★ कानजी स्वामी : एक युगसन्त	—पण्डित बाबू भाई महेता	४४
★ श्री कानजी स्वामी : एक विभूति	—पं० जगमोहनलाल जी शास्त्री	४७
★ मोक्ष मार्ग दर्शक हैं, कानजी स्वामी का सन्देश	—कल्याण कुमार जैन 'शशि'	५५
★ अन्तर्वाह्य व्यक्तित्व के धनी : कानजी स्वामी	—डा. हुकम चन्द 'भारिल्ल'	५६-
★ आध्यात्मिकता के हस्ताक्षर	—शेखर जैन	६१
★ यशस्वी आध्यात्मिक सन्त	—पं० परमेष्ठी दास जैन, न्यायतीर्थ	६२
★ ज्ञान-यज्ञ के यशस्वी प्रणेता	—डा. भागचन्द्र 'जैन' 'भास्कर'	६४
★ आध्यात्मिक सन्त विवेक वत, दृढ़ श्रद्धानी सादर प्रणाम	—अनूप चन्द्र, न्यायतीर्थ	६६
★ महान क्रान्तिकारी सन्त	—प्रकाश हितैषी शास्त्री	६८
★ समय सार युग प्रणेता : पूज्य श्री कानजी स्वामी	—उत्तम चन्द जैन	७०
★ पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन	—युगल जी, एम. ए.	७५
★ युग पुरुष कानजी स्वामी का शत-शत अभिनन्दन	—हजारी लाल 'काका'	८८
★ अध्यात्म रसिक स्वप्ति श्री कानजी स्वामी का सद्भावपूर्ण स्वागतार्ह प्रशस्त विकल्प	—डॉ. माणिक चन्द्र चंभरे	८९
★ शत-शत वन्दन	—डा. कस्तूर चन्द्र कासलीवाल	९१
★ गुरु कहान	—राजेन्द्र कुमार जैन	९२
★ आध्यात्मिक क्रान्ति के सूत्रधार : श्री कानजी स्वामी	—पं० रतन चन्द 'भारिल्ल'	९३
★ श्री कानजी स्वामी एक अद्भुत व्यक्तित्व	—विमल भाई	१०४

★ हे ! स्वर्ण पुरी के सरल सन्त	—मांगी लाल अग्रवाल 'अगर'	१०६
★ शान्त मूर्ति	—नन्द लाल सरावगी	१०७
★ आत्म धर्म मर्मज्ञ	—पद्म चन्द जैन सर्राफ	१०९
★ ग्रन्थराज समयसार और श्री कानजी स्वामी	—डॉ. हेम चन्द्र जैन 'हेम'	१११
★ आत्म-विश्वास	—कूल चन्द पुष्पेन्दु	११३
★ गुरुदेव या गुरादेव : एक विनम्र आदरार्जलि	—सुरेश सरल	११४
★ आध्यात्मिक गगन के बमकते नक्षत्र-पूज्य कानजी स्वामी	—पं. श्री 'स्वतन्त्र' जी जैन	११५
★ एक दृढ़ व्यक्तित्व : श्री कानजी स्वामी	—हेम चन्द जैन 'चेतन'	१२०
★ श्री गुरु देव पधार	—लाल चन्द्र जैन 'राकेश'	१२५
★ जैन जगत के अद्वितीय सूर्य	—उग्रसैन बण्डी	१२६
★ श्री कानजी स्वामी—एक आध्यात्मिक पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी	—दशरथ लाल जैन	१२९
★ उदासीन ब्रह्मचारी	—डा. राजेन्द्र कुमार बंसल	१३४
★ समयसार एवं कहान गुरुदेव	—मधु भाई जैन	१३७
★ दिव्य प्रकाश रश्मि	—डा. राजेन्द्र कुमार बंसल	१४२
★ मोक्षपथ के राही	—पं. ज्ञान चन्द्र जैन	१४७
★ महान् मन्त श्री कानजी स्वामी	—बसन्त लाल नरसिंहपुरा	१४९
★ महान तत्त्ववेत्ता	—वसन्त मल जैन	१५२
★ इतने वर्ष जिम्मे जितने हैं अम्बर में तारे !	—शर्मन लाल 'सरस'	१५२
★ अध्यात्म उपदेष्टा पूज्य श्री कानजी स्वामी	—शान्ति कुमार जैन	१५३
★ समयसार के विमोचक	—परमात्म प्रकाश 'भारिल्ल'	१५९
★ सौराष्ट्र का सन्त बिशिष्ट लेख	—अश्लिल बंसल	१६०
★ मुक्ति पथ	—डॉ. कुमारी 'कौशल' जी	१६३
★ वीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर	—डा. हुकम चन्द 'भारिल्ल'	१६५
★ आत्म भूत्यांकन करना सीखें	—श्रीमती रूपवती 'किरण'	१७२
★ श्री कानजी स्वामी चित्रों में		१७९



आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर के गौतम गराधर के बाद तृतीय स्थान प्राप्त अनेक जैन शास्त्रों के रचनाकार आचार्य कुन्द कुन्द देव हुए। आपने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रथसार आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना की एवं विश्व के समक्ष भगवान् महावीर की वाणी को बेजोड़ साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्रारम्भ से पूर्व मंगलाचरण में गराधर देव की तरह आपको स्मरण किया जाता है जबकि कुन्द कुन्द न महावीर ही थे और न गराधर ही। ऐसा इसलिए कि जो कार्य गराधरों ने किया, वही कुन्दकुन्दाचार्य ने किया। अतः उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ तक कहा जाता है।

वर्तमान युग में पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने वही क्रान्ति उत्पन्न की है जो कुन्दकुन्दाचार्य ने की थी।

गुरुदेव के विषय में मैं यहाँ कुछ भी कहना उचित नहीं समझता क्योंकि समस्त जैन आपसे परिचित ही है।

चिर प्रतीक्षित विशेषांक आपके कर-कमलों में है। इस विशेषांक के मुख्य भाग का सम्पादन प्रसिद्ध तत्ववेत्ता डा० हुकम चन्द जी 'भारिल्ल', जयपुर ने किया है। मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय इस विशेषांक के लिए मुझे प्रदान किया।

विशेषांक आपको कैसा लगा? इस विषय पर आपके मत-अभिमत, आलोचना-समालोचनाओं का सादर आमन्त्रण है। इस विशेषांक में जो भी त्रुटि रही है, वह केवल मेरी अपनी है, अन्य किसी की नहीं। कृपया ध्यान रखें।

मैं यहाँ अपने ममेरे भ्राता श्री अनिल कुमार जैन, रिसर्च स्कालर का आभार माने हुए नहीं रह सकता। सम्भवतः उसके सहयोग के बिना मैं समय पर प्रकाशित न कर पाता।

—विनोद कुमार जैन



श्रद्धा सुमन



शुभ संदेश



ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर के भी
हे जीव ! यदि तूमे तेरे स्वज्ञेय को न
जाना और स्वाश्रय से मोक्षमार्ग को न
साधा तो तेरा जीवन व्यर्थ है । यह
अवसर चला जायेगा तब तू पछुतायेगा ।
इसीलिये जाग !...और स्वहित में
तरुपर बन !

—गुरुदेव के बोल





मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आगमपथ भगवान महावीर की 25 वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में परम पूज्य, गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जी के जीवन पर एक विशेषांक प्रकाशित कर रहा है।

स्वामी जी ने बीतराग धर्म का प्रचार-प्रसार करके जैन धर्म व समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है। वास्तव में सम्यक्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य धर्म की पुनर्स्थापना में उनका बहुमूल्य स्थान रहा है जिसका जैन समाज सदैव ऋणी रहेगा।

पूज्य गुरुदेव चिरायु हों व युगों-युगों तक हमें अपने वचनामृत से उपकृत करते रहें, यही मेरी उनके पावन चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि है।

विशेषांक की सफलता की कामना करता हूँ।

—साहू शान्ति प्रसाद जैन



आगमपथ के विशेषांक—आध्यात्मिक संत कानजी स्वामी—का जो उपक्रम आपने प्रस्तुत किया है इसके लिए आपको धन्यवाद। संत श्री कानजी स्वामी जी ने जैन समाज में नई जागृति और नव चैतन्य का निर्माण किया है। समाज में फैली हुई अनुचित रूढ़ियों और अन्य प्रकार विशेषतः मिथ्या तत्त्वज्ञान के बारे में आपका प्रचार बहुत ही प्रभावित हो रहा है। स्वामी जी जो समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके उसके लिए उनका अभिनन्दन। आशा है समाज को बहुत दिनों तक उनका नेतृत्व मिलेगा।



—सेठ लालचन्द हीराचन्द



आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान् कृन्दकृन्दाचार्य ने जिस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया व मुक्ति मार्ग का मर्म समझाया उस मार्ग को वर्तमान युग में स्वधर्मी भूले हुए थे व अन्धकार में भटक रहे थे। अब दो हजार वर्ष पश्चात् पूज्य स्वामी जी ने उसी मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर हमें मुक्ति का मार्ग दर्शाया है जिसके लिए समस्त दिगम्बर जैन समाज ऐसे महान् सन्त का सदैव ऋणी रहेगा।

पहले जहां सौराष्ट्र में दिगम्बर जैन मंदिर तो दूर दिगम्बर जैन धर्म पालक भी दृष्टिगोचर नहीं होता था अब वहां लाखों दिगम्बर जैन बसते हैं तथा सैकड़ों मन्दिरों व जिन विम्बों का निर्माण आपकी प्रेरणा से हुआ है। जो शास्त्र आज से 50-60 वर्ष पूर्व तक विद्वानों व पंडितों के पठन व वाचन के योग्य समझे जाते थे उन शास्त्रों को आज लाखों गृहस्थी अत्यंत अट्टा से पढ़ते हैं। यह सब स्वामी जी की प्रेरणा व उपदेशों का फल है।

पूज्य स्वामी जी शिरायु हों व युगों तक उनके उपदेशों से लाभान्वित होते रहें यही कामना है।

—साहू श्रवण प्रसाद जैन

गत त्रिवली में स्वकुल क्रमागत परम्परा को छोड़कर वीतराग दिगम्बर धर्म में समागत श्री कानजी स्वामी जी की सम्यदर्शन प्रधान प्रवचन प्रणाली वर्तमान भोग प्रधान भौतिक युग में संतप्त प्राणियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी है, यह प्रसंसनीय विषय है।

आप स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतिस्व पर आममपथ का विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं। विशेषांक की सफलता के लिये मेरी शुभ कामनायें हैं।

—सर सेठ भगवन्ध सोनी
जजमेर

यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि सौराष्ट्र में दिगम्बर जैन मन्दिर आदि के निर्माण और सङ्घों की संख्या में दिगम्बर जैन धर्माभ्यासियों की वृद्धि तथा

सौराष्ट्र के बाहर देश में जगह-जगह आपुनिक वातावरण में श्री आध्यात्मिक ग्रन्थों के स्वाध्याय के प्रति विशेष रुचि की वृद्धि का अर्थ श्री कानजी स्वामी जी और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को है।

सं० 2001, 2002 और 2003 में मेरे पूज्य पिताजी सर सेठ हुकमचन्द जी विद्वत्समंडली एवं कुटुम्ब सहित सोनगढ़ गये थे और वहां के वातावरण से प्रभावित होकर 7101 रुपए जैन स्वाध्याय मन्दिर एवं श्री कुम्बकुन्द प्रवचन मंडप के निर्माण में अर्पित किये थे। उन दिनों इस ओर की समाज का परिचय व आकाशवाणी नहीं हुआ था अब तो सौराष्ट्र का सम्बन्ध सब ओर हो चुका है और ग्रन्थ प्रकाशन, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, परीक्षालय इत्यादि से वहां के साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्वामी जी भी यात्रा, प्रतिष्ठा व प्रवचन के उद्देश्य से अन्य प्रान्तों में भ्रमण कर चुके हैं। इस 86 वर्ष की बुढ़ापे में भी सोत्साह आपका भ्रमण और प्रवचन हो रहे हैं।

आगम पथ मासिक पत्र द्वारा भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के पुनीत अवसर पर स्वामी जी के जीवन दर्शन सम्बन्धी प्रस्तुत विशेषांक योजना की सराहना करते हुए मेरी हाविक भावना है कि समाज में मनोमालिन्य और पृथक्त्व की भावना दूर होकर परस्पर वात्सल्य और सौहार्द की वृद्धि हो ताकि समाज में ऐक्य कायम रहे और जैन शासन एवं बीतरागवाणी की उत्तरोत्तर प्रभावना हो।

—सेठ राजकुमार सिंह कासलीवाल
इन्दौर



मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव के सदर्भ में आपने तीर्थंकर महावीर एवं बीतराग वाणी के समर्थ उद्घोषक व प्रबल प्रसारक आध्यात्मिक संत श्री कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर, आगमपथ का विशेषांक प्रकाशित करने का विचार किया है।

श्री पूज्य कानजी स्वामी जी वर्तमान

जगत के समर्थ आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं। उनकी वाणी में ओज है ! प्रवचनों में जैन तत्त्वों की निश्चयात्मक दृष्टि से विशेषतायें अंतर्निहित होती हैं। यह उन्हीं की देन है कि महर्षि कुन्द कुन्द के आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय समाज में बहुतायत से होने लगा है एवं लोगों में आध्यात्मिक जागृति एवं रुचि उत्पन्न हुई है।

मैं विशेषांक की हादिक सफलता चाहता हूँ।

—रायबहादुर हरक बाब पांड्या,
रांची

भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने समयसार जी की पांचवीं गाथा में अपने निज वैभव के द्वारा एकत्व-विभक्त आत्मा को दिखलाया है, उस निज वैभव की प्राप्ति के माधनों में एक साधन जिनागम का सेवन भी कहा जाता है। प्रवचनसार की गाथा 42 में प्रतिपादन किया है कि बहिर्मोहदृष्टि आगम कौशल्य और आत्म-ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है। पचास्तिकाय की गाथा 172 में लिखा है कि शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है। आगम का ऐसा माहात्म्य जिनेन्द्र कथित शास्त्रों में अनेक जगह बतलाया है।

आगम पथ आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी का विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं, जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है। वह आगमपथ जीवों को एकत्व-विभक्त आत्मा का दर्शन करावें, बहिर्मोहदृष्टि नष्ट करने का उपाय ज्ञात करावें तथा शास्त्र तात्पर्यरूप वीतरागता प्राप्त कराने लिए पथ पददर्शन करें तभी उसके प्रकाशन की सफलता यथार्थ मानी जायेगी।

आगमपथ पूज्य स्वामी जी का भवतापशात्मक उपदेशामृत का प्रचार और प्रसार सतत करें और जो जगपथ है उससे जीवों को विमुक्त कर मोक्षपथ पर चलने की प्रबल प्रेरणा देते रहें, ऐसी हमारी शुभ कामना है।

—नवनीत लाल सी० कबेरी,
प्रमुक्त, श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनघड़



यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि आगम पथ कानजी स्वामी विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उसमें पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर सर्वांगीण विवेचन होगा। इस पावन कार्य में मेरी शुभ कामनायें आपके साथ हैं।

— शैठ पूरनचन्द गोबीका
अध्यक्ष, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि नैतिक भासिक आगमपथ सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन पर एक बृहद विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है।

पूज्य श्री कानजी स्वामी ने वीतरागता प्राप्त करने का दिगम्बर जैन समाज को जो मार्ग दिया वह सैकड़ों वर्षों से ओझल हो रहा था। क्रियाकाण्ड में ही वीतरागता प्राप्त को मुख्य रूप से धर्म का मार्ग माना जाने लगा था ऐसे समय में इस मन्त्र ने धर्म का मन्वा मार्ग दिखाकर एक अद्भुत क्रान्ति पैदा कर दी। सौराष्ट्र में आपकी प्रेरणा में सैकड़ों दिगम्बर मंदिरों व जिन विम्बों का निर्माण हुआ है व लाखों दिगम्बर जैन वसते हैं।

जो शास्त्र आज से 50-60 वर्ष पूर्व तक विद्वानों व पण्डितों के पठन व वाचन के योग्य समझे जाते थे उन शास्त्रों को आज लाखों लोग अत्यंत सरसता व श्रद्धा से पढ़ते हैं यह सब पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा व उपदेशों का फल है।

पूज्य स्वामी जी चिरायु हों व युगों तक उनके उपदेशों से लाभान्वित होते रहें यही कामना है।

— श्रीमती लेखवती जैन
उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़



मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आगम पथ का 'संत कानजी स्वामी' पर विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक संतों के जीवन पर विशेषांक प्रकाशित करना वास्तव में समाज की बड़ी भारी सेवा है। आशा है उनके त्यागमय जीवन की समाज को भरपूर जानकारी मिलेगी। गुरुदेव ने वीतराग धर्म का शुद्ध स्वरूप बना कर समाज का बड़ा उपकार किया है। समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा।

आपके प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

—अक्षय कुमार जैन

सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली।

यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप 'आगम पथ' का एक "सद्गुरुदेव कानजी स्वामी" विशेषांक निकाल रहे हैं। कलियुग में परमागम के रहस्योद्घाटक एवं परम भक्त कानजी स्वामी के जीवन और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाला विशेषांक निकाल कर 'आगम पथ' अपने नाम को सार्थक सिद्ध कर रहा है। आगम का रहस्य जाने बिना उसके पथ पर कैसे चला जा सकता है? आगम पथ पर चलने के पूर्व उसका रहस्य जानना आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव पर परमागम का परम उपकार है जिसका रहस्य पाकर उन्मार्ग छोड़ वे सन्मार्ग पर आये हैं और स्वामी जी का हम सब पर परम उपकार है क्योंकि आगम पथ का रहस्य खोल कर हमें सन्मार्ग दिखाया है।

आपके इस महान् कार्य की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ और चाहता हूँ कि आगम पथ इस विशेषांक में ही नहीं गदा-मदा आगम का मर्म उद्घाटित करता रहे।

—नेमीचन्द्र पाटनी

मंत्री, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि नैतिक मासिक आगम पथ सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन पर एक बृहत् विशेषांक प्रकाशित कर रहा है।


आध्यात्मिक मन्त श्री कानजी स्वामी ने वीतरागता प्राप्त करने के हेतु दिगम्बर जैन समाज को जो मार्ग दिशा वह स्तुत्य है। इस सन्त ने दिगम्बर समाज में एक अद्भुत क्रान्ति पैदा कर दी है। जिस वीतराग मार्ग को लोग भूले हुए थे उन्हें सच्चा मार्ग बता कर एक नयी दिशा प्रदान की है।

सैकड़ों जिन मंदिरों का निर्माण व सौराष्ट्र में जहाँ दिगम्बर जैन पालक देखने को भी नहीं मिलते थे अब वहाँ लाखों दिगम्बर जैन रहते हैं यह सब भी आपकी प्रेरणा व प्रभाव का फल है। अब लगभग प्रत्येक साधारण घर में भी वे दिगम्बर जैन शास्त्र आपको मिल जायेंगे, जो पहले पंडित लोग ही पढ़ते थे। क्या यह समाज में क्रान्ति नहीं है ?

पूज्य स्वामी जी चिरायु हों व आपका प्रयास सफल हो यही कामना है।

—सेठ बेवकुमार सिंह

कार्याध्यक्ष, भगवान महावीर दिगम्बर निर्वाण
महोत्सव सोसायटी, मध्य प्रदेश



मुझे यह जान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करने का निर्णय आगम पथ ने लिया है।

वर्तमान समय में जब आध्यात्मिकता की ज्योति लोप हो गयी थी और क्रिया-काण्ड, बाहरी दिखावा एवं लौकिक व्यवहार में ही धर्म माना जाने लगा था। शास्त्रों को गूढ़ समझ साधारण जन अध्ययन नहीं करते थे और वे केवल विद्वानों तक ही सीमित थे ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव ने सच्चे वीतराग धर्म का प्रचार कर हमारा ध्यान वास्तविक धर्म की ओर आकर्षित किया और


बताया कि — जिन धर्म तो यह है। जब तक पालन न करोगे मुक्ति न मिलेगी। हमने पाया कि वास्तविक अमृत तो यही है अभी तक केवल अंधेरे में ही भटक रहे थे।

पूज्य स्वामी जी भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य की वाणी को फिर से उजागर किया है। सुप्त जैन समाज नयी चेतना का आह्वान किया है। समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा।

मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ व आशा करता हूँ कि आगम पथ उनके विचारों के अनुरूप ही विशेषांक प्रकाशित करेगा ।

—महावीर प्रसाद जैन, एडवोकेट

अध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर जैन परिषद्, हिसार



पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आप एक विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं जानकर मन हर्षित हुआ ।


मैंने पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को कई बार सुना है और उनके अनेकों प्रवचनों पर मनन भी किया है । मैंने पाया कि मूल जैन धर्म तो वही है जिसका वाचन गुरुदेव अपने प्रवचनों में करते हैं, चाहे हम उसे बाहरी क्रिया-कलापों अथवा स्थूल त्याग में ढूँँ अथवा मूढ़ आस्था में । मैं उनकी शान्त प्रवृत्ति, अद्भुत प्रवचन शैली एवं निज

आनन्दमयी मुद्रा से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ ।

मैं कामना करता हूँ कि गुरुदेव चिरायु हों व युगों युगों तक वीतराग मार्ग को बताते रहें यही मेरी बिनम्र श्रद्धांजलि है ।

—सुकुमार चन्द्र जैन

महामंत्री—आ० इ० दिगम्बर भगवान महावीर
निर्वाण महोत्सव समिति (केन्द्रीय)



देवं गुरुं श्रुतं वन्दे, धर्मं शुद्धं च-विन्दते ।

ति अर्थं अर्थं लोकच-स्नानं च शुद्धं जलं ॥

“आतम ही है देव निरंजन,

आतम ही सद्गुरु भाई ।

आतम शास्त्र धर्म आतम ही,

तीर्थ आतम ही सुखदाई ॥

आतम मनन ही है रत्नत्रय,

पुरित अबगाहन सुखधाम ।

ऐसे देव, शास्त्र, सद्गुरुवर,

धर्म तीर्थ सतत प्रणाम ॥”

तीर्थंकर महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत 'आगमपथ' द्वारा तीर्थंकर महावीर एवं वीतराग वाणी के समर्थ उद्बोधक, महान् धर्म प्रचारक धर्मशास्त्र वेत्ता, तत्व चिन्तक, मंगल ज्ञानमूर्ति, सत प्रवर, परम पूज्य सद्गुरुदेव अष्टम श्री कानजी स्वामी जी के जीवन एवं दर्शन पर विशेषांक का प्रकाशन समाज के लिये महान गौरव की बात है।

“संतों का समग्र जीवन ही उनका दर्शन हुआ करता है और उनके कार्य जनहितकारी हुआ करते हैं।” ऐसे आत्म तत्वदर्शी स्व और पर के कल्याणकर्ता तारुण्यरत्न को हमारा शत शत अभिनन्दन.....इन अमर आशाओं के साथ वह चिरायु हों और युग युग तक अविरल ज्ञान की धारा प्रवाहित करते रहे।

—सेठ भगवान दास शोमालाल जैन
सागर (म० प्र०)

तीर्थंकर महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आत्मार्थी पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर आगमपथ विशेषांक प्रकाशित कर रहा है यह अत्यन्त प्रमत्नता एवं गौरव का विषय है।

पूज्य श्री कानजी स्वामी जी ने दिगम्बर जैन धर्म को नवजीवन प्रदान किया और अपनी मृदु प्रेरणा से धर्म के समस्त संस्कारों को निहित करने में समाज को एक नयी दिशा प्रदान की।

मैं भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी की ओर से विशेषांक की सफलता एवं शुभ कामनायें चाहता हूँ।

—जयंती लाल लल्लुभाई परिस
महामंत्री—भा० दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, बम्बई





बाध्यात्मिक सन्त श्री कानजी स्वामी जी के द्वारा वीतरागता प्राप्त करने हेतु दिगम्बर जैन समाज को वर्तमान समय में जाँ मार्ग दर्शन मिला वह सैकड़ों वर्षों से ओझल हो रहा था। केवल क्रिया काण्ड में ही वीतरागता प्राप्ति को मुख्य रूप में धर्म का मार्ग माना जाने लगा। ऐसे समय इस सन्त ने एक अद्भुत क्रान्ति का जन्म दिया और समाज की आँखों से भ्रम का पर्दा हटाया।

आज लाखों लोग अत्यन्त श्रद्धा से उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जो किसी समय में विद्वानों के योग्य ही समझे जाते थे। सौराष्ट्र में सैकड़ों दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ एवं हजारों दिगम्बर जैन धर्म में अंगीकृत हुए यह सब स्वामी जी की प्रेरणा व उपदेशों का फल है।

पूज्य स्वामी जी चिरायु हों व युगों तक हम वीतराग वाणी से लाभान्वित होते रहें यही कामना है।

—पं० पद्म श्री सुमति बाई शाह

अध्यक्ष, महिला विद्यापीठ, सोलापुर

पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी ने जैन धर्मावलम्बियों में स्वाध्याय की रुचि जागृत की यह उनका इतना बड़ा उपकार है जिसे शताब्दियों तक नहीं भुलाया जा सकता। पूज्य कानजी स्वामी जी के मोनगढ़ ट्रस्ट द्वारा अनेकों ग्रन्थों का प्रकाशन तथा मस्ते मूल्य में उनका वितरण, प्रत्येक कार्य में समय की मर्यादा, उच्च अध्ययन, स्व एवं पर का विवेक, व्यवहार एवं निश्चय नय का अभ्यास, शुद्ध, शुभ एवं अशुभ भावों की सूक्ष्म चर्चा द्वारा समाज में ज्ञान पिपासा को जागृत कर जिन वाणी को शास्त्र भण्डारों से निकाल कर जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है।

मैं स्वामी जी के मंगलमय जीवन की अभिवृद्धि हेतु अपनी समस्त शुभ कामनायें प्रस्तुत करता हूँ।

—बाबूलाल पाटीवी

भू० पू० सदस्य—मध्य प्रदेश विधान सभा, इन्दौर

आगमपथ पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जी का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है, यह महान स्तुत्य प्रयास है। ऐसे महापुरुष के पावन चरित्र का प्रकाशन आपके पत्र का गौरव ही नहीं बढ़ायेगा वरन् लोक-मांगल्य की प्रतिष्ठा भी करेगा।

चरित्र रचना आज के लोक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज उपदेशकों की आवश्यकता नहीं, आदर्शों की जरूरत है। आपका विशेषांक एक महामानव के चरित्र का आदर्श जन-जीवन को प्रदान कर निश्चित ही राष्ट्र के चरित्र का उन्नयन करेगा। इस वर्ष में आप राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।

श्री कानजी स्वामी इस युग में एक शुद्ध आध्यात्मिक क्रान्ति के जन्मदाता महापुरुष हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी क्रान्ति पहले शताब्दियों में नहीं हुई। वे वीतराग भ्रमणों के जिस आध्यात्म का प्रतिपादन कर रहे हैं वह आज के बिह्वल लोक-जीवन के लिए स्थायी शांति का एक मात्र समाधान है।

गत वर्ष भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाणोत्सव के पावन उपलक्ष में कोटा की औद्योगिक नगरी में दि० 24 मई से 8 जून तक जो 16 दिवसीय विशाल जैन दर्शन-शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर समारोह सम्पन्न हुआ उस अवसर पर जैन दर्शन तल स्पर्शी विद्वानों के साथ हमारे किसी महाभाग्य से पूज्य श्री कानजी स्वामी जी ने भी 1 जून से 8 जून तक कोटा में भंगल प्रवास करने का अनुग्रह किया। कोटा का वायु मण्डल अध्यात्म की ध्वनियों से मुस्कारित हो उठा। बाठ दिवस तक बहुत नजदीक से मुझे पूज्य गुरुदेव की सेवा का स्वर्ण अवसर उपलब्ध हुआ। मैं धन्य हुआ और मैंने पाया कि गुरुदेव जैसे अन्दर से उज्ज्वल हैं, भीतर से भी वैसे ही पवित्र हैं। भ्रंतर्वाहिव जीवन की यह एकरूपता आज लक्ष-कोटि लोगों को दिशा-बोध दे रही है। पूज्य गुरुदेव का यह अष्ट दिवसीय समागम मेरे जीवन का चिर-स्मरणीय प्रसंग बन गया है।

मैं अपनी शत-सहस्र भ्रष्टांजलियां उन महामानव के चरणों में समर्पित करता हूँ।

—अनूप कुमार बस, कोटा (राज०)

पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन एवं दर्शन पर एक विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लेने के लिए कृपया मेरी कुछ कामनाएँ स्वीकारें।

एक लम्बे अरसे से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी और यह जरूरी भी था कि जो मार्गदर्शन एवं कार्य पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा किया गया उसे

समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये। समस्त समाज को जैन दर्शन एवं उसकी उपयोगिता का ज्ञान हो। पूज्य स्वामी जी को भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य के उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार करने का सब से अधिक श्रेय जाता है।

भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य द्वारा रचित शास्त्रों का जन जन में प्रचारित करने का प्रमुखतम श्रेय स्वामी जी को ही है। यह जैन समाज का कर्तव्य है कि जो महान् कार्य स्वामी जी द्वारा हो रहा है उसको अपने जीवन में उतारें। मैं आपको ऐसे महान् कार्य की सफलता की शुभ कामनायें भेजता हूँ।

—जयचन्द्र डी. लोहाड़े, हैदराबाद

हमने बाल्यकाल से पुराणों की कथाएँ सुन एवं मन्दिर जी में अथवा स्थानीय विद्वानों से ग्रहण कर रटी हुई पूजा करके धर्म करने के समस्त उत्तरदायित्व को पूरा समझ, अपने को बहुत भाग्यशाली मान स्वर्ग प्राप्ति का अभिलाषा लिये अनेकों कार्य किये एवं समाज में भी सभी को अधिकतर ऐसा ही करते देखा तथा दशकक्षण पर्व के समय शास्त्र प्रवचनों में एवं अन्य गतिविधियों द्वारा भी इन्हीं क्रियाओं का प्रचार होने देखा। कभी भी जीव, पुद्गल के सम्बन्धों की जानकारी समझायी नहीं जाती थी। उस विषय को या तो छोड़ दिया जाता था या केवल पढ़ दिया जाता था। आचार्य कुन्द कुन्द भगवान् आदि के ग्रन्थ गृहस्थों के पढ़ने के लिए नहीं हैं, यहां तक भी कहते हुए सुना गया।



पिछले 35 वर्षों में दिगम्बर जैन समाज में धर्म के नाम के समझने की चेतना जागृत हुई देखने में आ रही है तथा क्रिया काण्ड में ही धर्म है ऐसी घोर मिथ्यात्व की भावना में अन्तर आया है, वह गुजरात के प्रख्यात सन्त पूज्य श्री कानजी स्वामी जी की अद्भुत देन है। आपने दिगम्बर जैन धर्म का जो उपकार किया है उससे जैन समाज कभी भी उन्मत्त नहीं हो सकता।

आपके श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर अर्पित हैं। —भगतराम जैन

मंत्री, आल इन्डिया दिगम्बर भगवान् महावीर
2500 वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी, नई दिल्ली

विगत 50 वर्षों में कानजी स्वामी जी ने दिगम्बर जैन धर्म में जो आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया है और और भगवान् कुन्द कुन्द द्वारा वर्णित वीतराग विज्ञान की अपूर्व ज्योति द्वारा मध्य जीवों के हृदयों को आलोकित किया है, उससे जैन समाज में एक नई चेतना एवं वीतरागता की लहर आई है। जन मानस के हृदयों में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान पिपासा तृप्त करने की भावना जागृत हुई है।

आपके सद्प्रयासों द्वारा अनेकों वीतराग दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण, प्रभावना युक्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठायों का होना एवं लाखों व्यक्तियों द्वारा वीतराग वाणी ग्रहण कर सच्चा दिगम्बर मार्ग अपनाना, आपका ही आलोकिक प्रताप है।

सौराष्ट्र प्रदेश में जहाँ दिगम्बर मार्गी दृष्टिगोचर भी नहीं होता था, वहाँ गगनचुम्बी जैन मन्दिर व अद्भुत शान्ति प्रदायक वीतराग जिन विम्ब नजर आते हैं और उस मार्गपर लाखों जीव चल कर आत्मिक शान्ति का सुखास्वादन कर रहे हैं। आप श्री मोक्ष मार्ग के साधक वीतराग धर्म के प्रवक्ता हैं। आधुनिक युग में जहाँ चारों ओर पापाचार, अनाचार भा बोलवाला है, अर्थयुग की प्रमुखता है वहाँ आपके माग्निध्य मे शान्ति प्रिय सन्तोषी जैन भाई स्वाध्यायशील नजर आ रहे हैं, यह सब आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति का चमत्कार है।

मैं श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके द्वारा भगवान् अरहत प्रणीत सच्चे वीतराग मार्ग का जन मानस हितार्थ प्रचार एवं प्रसार निरन्तर होता रहे।

आगम पथ का यह प्रयास सराहनीय है।

—सा० प्रेमचन्द जैन,

कोषाध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर भ० महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी

करुणा सागर, ज्ञानबन, साक्षात् चैतन्य चमत्कार स्वरूप स्वामी जी की आगम वाणी दसों दिशाओं में गुन्जायमान हो रही है जिस ध्वनि तरंग मे डूब कर असंख्य लोग आत्म रस का रसास्वादन कर रहे हैं ऐसे महान सन्त को मेरा शतः शतः नमन। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह विशेषांक आगम के अमूल्य ग्रन्थों में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर स्वामी जी द्वारा प्रज्वलित ज्ञान ज्योति का एक अपूर्व आदर्श होगा।

—कलाश चन्द चौबरी

महामंत्री, मध्य प्रदेशीय दिगम्बर महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी

समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये। समस्त समाज को जैन दर्शन एवं उसकी उपयोगिता का ज्ञान हो। पूज्य स्वामी जी को भगवान कुन्द कुन्दाचार्य के उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार करने का सब से अधिक श्रेय जाता है।

भगवान कुन्द कुन्दाचार्य द्वारा रचित शास्त्रों का जन जन में प्रचारित करने का प्रमुखतम श्रेय स्वामी जी को ही है। यह जैन समाज का कर्तव्य है कि जो महान कार्य स्वामी जी द्वारा हो रहा है उसको अपने जीवन में उतारें। मैं आपको ऐसे महान् कार्य की सफलता की शुभ कामनायें भेजता हूँ।

—जयचन्द डी. लोहाड़े, हैदराबाद

हमने बाल्यकाल से पुराणों की कथाये सुन एवं मन्दिर जी में अथवा स्थानीय विद्वानों से ग्रहण कर रटी हुई पूजा करके धर्म करने के ममस्त उत्तरदायित्व को पूरा समझ, अपने को बहुत भाग्यशाली मान स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा लिये अनेकों कार्य किये एवं समाज में भी सभी को अधिकतर ऐसा ही करते देखा तथा दशलक्षण पदों के समय शास्त्र प्रवचनों में एवं अन्य गतिविधियों द्वारा भी इन्हीं क्रियाओं का प्रचार होने देखा। कभी भी जीव, पुद्गल के सम्बन्धों की जानकारी समझायी नहीं जाती थी। उस विषय को या तो छोड़ दिया जाता था या केवल पढ़ दिया जाता था। आचार्य कुन्द कुन्द भगवान आदि के ग्रन्थ गृहस्थों के पढ़ने के लिए नहीं हैं, यहां तक भी कहते हुए सुना गया।



पिछले 35 वर्षों से दिगम्बर जैन समाज में धर्म के नाम के समझने की चेतना जागृत हुई देखने में आ रही है तथा क्रिया काण्ड में ही धर्म है ऐसी धोर मिथ्यात्व की भावना में अन्तर आया है, वह गुजरात के प्रख्यात सन्त पूज्य श्री कानजी स्वामी जी की अद्भुत देन है। आपने दिगम्बर जैन धर्म का जो उपकार किया है उससे जैन समाज कभी भी उन्कार नहीं हो सकता।

आपके श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर अर्पित हैं। —भगतराज जैन

मंत्री, आल इन्डिया दिगम्बर भगवान महावीर
2500 वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी, नई दिल्ली

विगत 50 वर्षों में कानजी स्वामी जी ने दिगम्बर जैन धर्म में जो आध्यात्मिक शान्ति का प्रादुर्भाव किया है और और भगवान् कुन्द कुन्द द्वारा वरिष्ठ वीतराग विज्ञान की अपूर्व ज्योति द्वारा भव्य जीवों के हृदयों को आलोकित किया है, उससे जैन समाज में एक नई चेतना एवं वीतरागता की लहर आई है। जन मानस के हृदयों में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान पिपासा तुप्त करने की भावना जागृत हुई है।

आपके सद्प्रयासों द्वारा अनेकों वीतराग दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण, प्रभावना युक्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठायों का होना एवं लाखों व्यक्तियों द्वारा वीतराग वाणी ग्रहण कर सच्चा दिगम्बर मार्ग अपनाना, आपका ही अलौकिक प्रताप है।

सौराष्ट्र प्रदेश में जहाँ दिगम्बर मार्गी दृष्टिगोचर भी नहीं होता था, वहाँ गगनचुम्बी जैन मन्दिर व अद्भुत शान्ति प्रदायक वीतराग जिन विम्ब नजर आते हैं और उस मार्गपर लाखों जीव चल कर आत्मिक शान्ति का सुखास्वादन कर रहे हैं। आप श्री मोक्ष मार्ग के साधक वीतराग धर्म के प्रवक्ता है। आधुनिक युग में जहाँ चारों ओर पापाचार, अनाचार भा बोलवाला है, अर्थयुग की प्रमुखता है वहाँ आपके मानिन्ध्य मे शान्ति प्रिय सन्तोषी जैन भाई स्वाध्यायशील नजर आ रहे हैं, यह सब आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति का चमत्कार है।

मैं श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके द्वारा भगवान् अरहत प्रणीत सच्चे वीतराग मार्ग का जन मानस हिताथं प्रचार एवं प्रसार निरन्तर होता रहे।

आगम पथ का यह प्रयास सराहनीय है।

—ला० प्रेमचन्द जैन,

कोषाध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर भ० महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी

कस्मिन् सागर, ज्ञानघन, साक्षात् चैतन्य चमत्कार स्वरूप स्वामी जी की आगम वाणी दसों दिशाओं में गुन्जायमान हो रही है जिस ध्वनि तरंग में डूब कर असंख्य लोग आत्म रस का रसास्वादन कर रहे हैं ऐसे महान सन्त को मेरा शतः शतः नमन। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह विशेषांक आगम के अमूल्य ग्रन्थों में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर स्वामी जी द्वारा प्रज्वलित ज्ञान ज्योति का एक अपूर्व आदर्श होगा।

—कलाश चन्द चौधरी

महामंत्री, मध्य प्रदेशीय दिगम्बर महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी

आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का जैन समाज पर महान् उपकार है। स्वामी जी ने बिनवाणी के सत्त् अध्ययन की जो महान् प्रेरणा सर्व-साधारण को दी है, उससे भ्रातियों का निवारण व ज्ञानार्जन तो होता ही है, साथ ही वह इस भौतिक युग में अध्ययनशील व्यक्तियों की सुख और शान्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

जीव की दुःखित अवस्था का कारण एकमात्र इसी का अज्ञानभाव है। अपने द्रव्य गुण पर्याय से अनभिज्ञ यह जीव पर पदार्थों को निमित्त बनाकर स्वयं अपने में सुख दुःख को उत्पन्न करता है। वह चाहे तो स्वयं ही अपने स्वानुभव के आश्रय से अज्ञानजनित विभाव भावों का विनाश कर अक्षय अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने वाले एवं स्वानुभूतिजन्य ज्ञानकिरणों से शाश्वत सुख के पथ को आलोकित करने वाले इस महान् सत्पुरुष के पावन चरणों में, मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कामना करता हूँ कि पूज्य श्री युग-युग तक इस भारत भूमि पर विद्यमान रहें एवं मुमुक्षुओं के हितार्थ मोक्षपथ को सदा आलोकित करने रहें।

—कम्यालाल म० गाँधी
संकेट्टी. घांगघ्रा केमिकल वर्क्स लि०, बम्बई

पूज्य कानजी स्वामी जी ने वीतरागता सिद्धि के मोपान दिगम्बर जैन आचार्य पूज्य कुन्द कुन्द—पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी तथा पूज्य अमृतचन्द्राचार्य आदि के ग्रन्थों का न केवल सूक्ष्म अध्ययन तथा मनन किया है वरन् उनको समा-जोपयोगी प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व संस्थान स्थापित कर तत्त्व चिन्तन के सही रूप का पथ सरल किया है। क्रिया काण्ड द्वारा ही वीतरागता प्राप्ति के भ्रम को दूर करने में इन्होंने समाज में अभूतपूर्व क्रान्ति पैदा कर दी है और जाति भेद से परे मनुष्यमात्र को आरमोत्थान का पथ प्रशस्त किया है।

पूज्य स्वामी जी दीर्घायु हों और आपके श्री मुख से वीतराग शासन की प्रभावना निरन्तर बढ़ती रहे यही कामना है।

—नेमीचन्द्र जैन
सचिव, साहू जैन ट्रस्ट, नई दिल्ली

जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप आगमपथ का विशेषांक आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी पर प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है आपका प्रयत्न सार्थक होगा।

— लक्ष्मीचन्द्र जैन

अंधी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली

आगम पथ का 'आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी' विशेषांक प्रकाशित हो रहा है। यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

पूज्य श्री कानजी स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रेरणा एवं विचारधारायें बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं जैन धर्म के सिद्धान्तों को प्रगतिशील बनाने में पूर्ण सज्जन हैं तथा भविष्य में भी बराबर आपकी प्रेरणा मार्ग दिग्दर्शित करती रहेगी। ऐसे पूज्य संत के प्रति मैं अट्टा व्यक्त करते हुए आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ।

— नचमल सेठी

उपसभापति, केन्द्रीय दिगम्बर महावीर निर्वाण सोसायटी

पिछले 50 वर्षों में स्वामी जी द्वारा एक आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके समस्त दिगम्बर जैन समाज में एक नई चेतना की लहर आयी है, उनके प्रभाववश दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण हुआ, लाखों व्यक्तियों ने जैन धर्म अंगीकार किया, जहाँ सौराष्ट्र में दिगम्बर जैन नाम मात्र थे। अब लाखों दिगम्बर जैन बहाँ रहते हैं।

पूज्य कानजी स्वामी जी मोक्षमार्ग के साधक हैं। वीतराग धर्म के प्रवक्ता हैं। ऐसे युग में जब कि हम अपने परम्परागत मूल्यों को भुला बैठे थे उन्होंने आध्यात्मिकता का गहन प्रकाश किया। महावीर भगवान के 2500 वें निर्वाण महोत्सव को आपका बड़ा योगदान रहा है।

मैं स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र अट्टांजलि अर्पित करता हूँ।

— रमेशचन्द्र जैन

जनरल मैनेजर, टाइम्स आफ इन्डिया, नई दिल्ली





मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आगम-पथ जैन जगत के महान् आध्यात्मिक सन्त परम पूज्य कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है। बीतराग भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में जिनवाणी एवं उनके सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।

यह विशेषांक स्वामी जी के विचारानुरूप जैनागम की व्याख्या प्रस्तुत करके जन जीवन का पथ प्रदर्शन करेगा, ऐसा विश्वास है।

विशेषांक की सफलता के लिये मेरी हार्दिक शुभ कामनायें।

— धन्नामल जैन

कार्याध्यक्ष, भ० महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति
हरियाणा प्रदेश



मुझे प्रसन्नता हुई कि आप परम पूज्य कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर एक बृहद् विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे हैं।

स्वामी जी ने दिगम्बर जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में जो योगदान दिया है वह बीतराग धर्मपालकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपका सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र पर विवेचन एवं समयसार का गहनतम अध्ययन सभी जीवों के लिए द्वितीकारि है।

विशेषांक की सफलता के लिये मंगल कामनायें।

इयाचन्व जैन

अध्यक्ष, आ० इ० दिगम्बर भ० महावीर
2500 वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी, पंजाब

श्री कानजी स्वामी जी ने दिगम्बर समाज में तत्त्वज्ञान की दिशा में निश्चय ही जागरण किया है। जैन धर्म मूलतः आध्यात्म प्रधान धर्म है और आध्यात्म का विवेचन दिगम्बरारचार्य कुन्दकुन्द महाराज ने समयसार में किया है। समयसार एक ऐसा ग्रन्थरत्न है, जिसकी ओर आत्मगवेषी मुमुक्षु का ध्यान जाना स्वाभाविक है।

स्वामी जी इस समयसार से प्रभावित होकर दिगम्बर परम्परा में जाये और उन्होंने समयसार के अध्ययन, मनन, चिन्तन और सतत् स्वाध्याय पर बल दिया। ऐसे तत्त्व जिज्ञासु और मुमुक्षु श्री स्वामी जी के सम्बन्ध में आगमपथ का विशेषांक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम उसका स्वागत करते हैं।

— डा० बरबारी लाल कोठिया
अध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्

श्री कानजी स्वामी सोनगढ़ (सौराष्ट्र) के एक आध्यात्म रसिक 'दिगम्बर जैन विद्वान' हैं। करीब 3० वर्ष से वे दिगम्बर जैन धर्म के आध्यात्म पक्ष से प्रभावित हुए हैं। लाखों व्यक्तियों को सधर्म का दर्शन कराया व अज्ञानी बनाया है। सौराष्ट्र में जहां एक भी दिगम्बर जैन मन्दिर न था, वीसों मन्दिर बनवाये, पचासों प्रतिष्ठायें कराईं—तीर्थ वन्दना संघ निकाले और सर्वत्र विहार कर धर्म की प्रभावना में श्री वृद्धि की है। मैं उनके इन समस्त कार्यों अद्भुत हूँ और उनके दीर्घ जीवन की भावना करता हूँ।

—पं० जगन्मोहन लाल शास्त्री, कटनी

आध्यात्मिकता के प्रेरणा स्रोत !

आज भौतिकवाद का बोलबाला है तब विशुद्ध आत्मतत्त्व के चेतन ग्रन्थ समयसार का चिन्तवन, मनन, अनुशीलन एवं स्वाध्याय का वातावरण पैदा करके आध्यात्मिकता का जो अमृत पान पूज्य कानजी स्वामी जी ने करवाया है वह इस युग में अनुपम है और यही उनकी अनुपम देन है।

—शान्तीलाल बनमाली सेठ
भू० पू० सम्पादक—जैनप्रकाश, नई दिल्ली



आप श्री कानजी स्वामी जी के नाम पर आगमपथ का विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं, यह बहुत ही समयोचित सत्कार्य है। श्री कानजी स्वामी जी ने भूले भटकने वालों के लिये उस सम्यग्दर्शन की दिव्य ज्योति की ओर संकेत किया है, जिसके बिना निखिल विश्व के सर्वजीव आज तक भव-भ्रमण कर रहे हैं और उसके पाये बिना पता नहीं कब तक परिभ्रमण करते रहेंगे। उन्होंने आज के भौतिक युग में निमग्न लोगों को आध्या-

त्मिक सन्देश देकर सन्मार्ग की ओर आकृष्ट किया है, इसके लिये वे प्रत्येक धर्म-प्रोमी सन्मार्गी व्यक्ति के द्वारा प्रशंसनीय एवं समादरणीय है।

मैं आपके प्रयास की सफलता के लिये मंगल कामना करता हूँ और भावना करता हूँ कि वे शतायुष्क होने तक बराबर सन्मार्ग प्रचार एवं प्रसार में अग्रसर बने रहें।

—पं० हीरालाल शास्त्री, व्याखर

मैंने अन्य अनुयोग ग्रन्थों के साथ-साथ श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का अनेक बार मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, किन्तु मुझे तो श्री कानजी स्वामी जी के प्रवचनों में रंचमात्र भी ग्रन्तर नहीं दिखा। उन्होंने कुन्दकुन्दाचार्य एवं टीकाकारों के हृदयों को खोला है जोकि जैन सिद्धान्त का मर्म है। अन्य अनुयोगों में व्यवहार नय की मुख्यता है किन्तु मोक्षमार्ग निश्चय नय के आश्रय है। समयसार गाथा 272 फलितार्थ यह हुआ कि व्यवहार नय के आश्रय बन्ध मार्ग है। निचली भूमिका में (सविकल्प अवस्था में) व्यवहार नय आता अवश्य है किन्तु आश्रयणीय अर्थात् लक्ष्य बनाने योग्य नहीं—निश्चय नय का वाच्य परम पार-णामिक शुद्ध जीवत्व (कारण परमात्मा) भाव ही के लक्ष्य से धर्म रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि एवं शुद्धि और पूर्णता होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनादि काल से अज्ञानी जीव को व्यवहार का एकान्त से पक्ष हो गया, त्रिकाली निरावरण ध्रुव स्वभाव को न जाना, न माना और न अनुभव किया इसीलिये संसार बनता चला आ रहा है—यह जानने के लिए दोनों नय का स्वरूप प्रयोजनीय है अन्यथा एकान्ती बन

भावना । इसलिये श्रद्धा में मुमुक्षु के सदा ही प्रबुध परम ज्ञायक भाव की ही मुख्यता रहती है । कथन करने में कभी निश्चय को मुख्य किया जाता है कभी व्यवहार को । स्वामी जी ने जैन सिद्धान्त का निस्वारा हुआ मर्म जो कि मूलमूल है प्रदर्शित किया है मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ ।

—ब्र० छोटेनाल उद्यानीन आधम, इन्दौर

सन्त श्री कानजी स्वामी जी का स्वाध्याय के क्षेत्र में बहुमूल्य प्रवेद्य है । उन्होंने लाखों-लाख लोगों को जो जैन दर्शन का “क,ख,ग” भी नहीं जानते थे पंडित बनाया है । उन्होंने सिर्फ किताबी ही नहीं बरन् जीवन्त मोक्षमार्गी बनाने में उनका बहुत बड़ा योग है । जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनका ध्यान निर्मल चिन्तन पर है । कई श्वेताम्बर बन्धुओं को भी उनकी प्रशंसा करते हुए मैंने सुना है । मेरे हृदय में उनके ज्ञान के प्रति अपरम्पार श्रद्धा है । एक ज्ञानमूर्ति की तरह वे अत्यन्त पूज्य हैं । ऐसे समय जब लोग ज्ञान, आस्था और चारित्र्य सभी से विचलित और स्खलित हैं, सन्त श्री कानजी स्वामी जी के प्रेरक—पवित्र जीवन पर विशेषांक प्रकाशित कर एक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं ।

मेरी राशि-राशि शुभाकांक्षायें स्वीकार कीजिये ।

—डॉ० नेमीचन्द्र जैन
सम्पादक—तीर्थकर

कई-कई बार किसी धर्म के विषय में ऐसी परिस्थितियों का सृजन हो जाता है जब ऐसा महसूस होने लगता है कि योग्य-धर्म प्रणाली व विचार सरणि के ज्ञाताओं के अभाव में कहीं वह समाप्त तो नहीं हो जायेगी...? जैन धर्म में दिगम्बर आम्नाय के लोगों की संख्या अल्प है, उसमें भी योग्य ज्ञाताओं, विचारकों, दार्शनिकों एवं समर्थकों की दिन-ब-दिन कमी होते जाने के कारण उस संस्था में भी हास होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी थी । गुजरात में बैसे देखा जाये तो जैन बहुत अधिक तादाद में बसे हुए हैं किन्तु उनमें दिगम्बरों की संख्या बहुत ही कम है । जैन धर्म के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं । दोनों के ही मूल तत्त्वों का ज्ञान एक है किन्तु पूज्य श्री कानजी स्वामी ने समयसार एवं उसके समकक्ष अन्य आगमों का दिगम्बर आम्नायातीत तत्त्वों की विशुद्धता को परख कर

प्रचार, बीचन, निर्वाचन एवं विवेचन करना प्रारम्भ किया। उनका कथन लोगों को भी जंच गया इसीलिये वे हजारों की संख्या में उनका स्वाध्याय, प्रवचन एवं मनन करने लगे हैं। कानजी स्वामी जी ने उन लोगों में मात्र स्वाध्याय की रीति ही उत्पन्न नहीं की बल्कि हजारों की संख्या में प्रचारकों का निर्माण किया। दिग्म्बर आम्नाय सर्वद्वय उनकी श्रेणी रहेगी। उन्हें सततः प्रणाम...।

— कुसुम बहन शाह, बम्बई
(सुप्रसिद्ध समाज नेत्री)

अनवरतः स्याद्वाचः

सन् 1940 में श्री कानजी स्वामी जी के साथ गिरनार की तलहटी में, तब प्रथम साक्षात्कार हुआ था, जब स्वामी जी ने अन्तरात्मा के संकेत पर “जिने-धर न तो मतं पटकवस्त्र पात्र गुह्यं, विमृश्य सुख कारणं स्वमशक्तकैः कल्पितः” की सदृष्टि पाकर ‘स्वाधिर कल्प’ की सुलक्षणी चर्या को सत्य मानना छोड़ दिया था। और जिनकल्प की नग्नता को ही मोक्ष मार्ग समझ कर जिनधर्म (दिग्म्बर) के साहित्य का पर्यालोडन अपना लिया था। एक व्यक्ति की सदृष्टि कैसे सहस्रों व्यक्तियों की सम्यक् दृष्टि को खोलने में निमित्त होती है; स्वामी जी की जीवनी इसका उबलन्त निदर्शन है। निग्नन्धं धर्म की चर्चा मात्र करके मानव कितनी शान्ति, श्रयति और पूजा का लाभ पाता है यही जिनकल्प की यथार्थता और क्षमता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जन्मना-प्राप्त मान्यता और संस्कारों से निर्मान्त होकर अधिगमज मान्यता और संस्कारों के मार्ग पर अग्रसर होते समय कुछ हट-ग्राह स्वभाविक है। क्योंकि ऐसी एक परकचर्चा और चर्या बनाये बिना, फिर धिरन्तन संस्कारों में लुप्त जाने की आशंका रहती है। निश्चित ही स्वामी जी और उनके निमित्त से बने जिनकल्पी साधर्मि हमारे द्वारा अभिनन्दनीय हैं, क्योंकि उनका ‘निज धर जाना’ इस घाती की अद्भुत एवं महत्वपूर्ण घटना है। वह दिन दूर नहीं जब स्वामी जी और उनके अनुयायी ‘तन जिन वसन, असन बिन वन में नासा दृष्टि धरी’ को चरित्रार्थ करेंगे। नमोऽस्तु समयसाराय।

— प्रो० सुशालचन्द्र गौरावाला
काशी विद्यापीठ, बाराणसी



वर्तमान आध्यात्मिक सन्तों में श्री कानजी स्वामी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। सोनगढ़ के इस सन्त ने जैन धर्म की प्रभावना में अमूल्य योगदान दिया है। गुजरात में दिगम्बर जैन धर्म की आज जो स्थिति है वह आपके ही उपदेशों का फल है।

तप, त्याग और आराधना के तेज से प्रखर क्रांति-कारी श्री कानजी स्वामी का सम्पूर्ण जीवन ही धर्मानुराग की एक गौरवमय गाथा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आगमपथ इस महान सन्त के जीवन पर एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है। विशेषांक की सफलता की कामना करता हूँ।

—पारसबाबू जैन,

सह सम्पादक—नवभारत टाइम्स

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे हैं।

गत 50 वर्षों में दिगम्बर जैन धर्म में जो आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ है उसका श्रेय पूज्य श्री कानजी स्वामी को जाता है। आपने वीतराग धर्म की पुनर्स्थापना की जिससे समाज में एक नई चेतना की लहर प्रवाहित हुई। अनेकों दिगम्बर जैन स्वधर्मियों को निज धर्म पर बृहद श्रद्धान हुआ।

पूज्य स्वामी जी का जैन धर्म पर अत्यन्त उपकार है। उन्होंने समाज को एक नयी रोशनी की है। समयसार ग्रन्थ को प्रकाश में लाकर आपने हजारों लोगों के जीवन की दृष्टि ही बदल दी है।

मैं स्वामी जी के प्रति अपनी बिनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

—धीरन्ध जैन, नई दिल्ली



पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जी के व्यक्तित्व पर विशेषांक प्रकाशित करने का विचार अत्यन्त सराहनीय है।

श्री कानजी स्वामी जी के प्रभाव से गुजरात व अन्य राज्यों में बीतराग दिगम्बर धर्म का महान प्रचार हुआ। आपने मूल जैन धर्म की व्याख्या की एवं दिगम्बराचार्य भगवान् कुन्दकुन्द उपदेशित मार्ग के मर्म को समझाया। फलस्वरूप एक आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ एवं सारे देश में लाखों बन्धुओं के जीवन मूल्य बदल गये। जो व्यवहार को धर्म ही समझते रहे, उन्हें एक नयी राह मिली। सारा समाज आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहेगा।

गुरुदेव मोक्षमार्ग के साधक है, आध्यात्मिकता के पुंज हैं। लाखों व्यक्तियों ने आपके प्रभाव से दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है।

गुरुदेव दीर्घायु हों। मंगल कामनायें।

—रंगुलाल जैन
दिल्ली



तीर्थंकर महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी पर आप श्री कानजी स्वामी पर एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे हैं यह अत्यन्त समयोचित एवं सराहनीय कार्य है।

पूज्य स्वामीजी गत ५० वर्षों से सारे भारत में दिगम्बर बीतराग धर्म की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। आपके सद्बोध से लाखों बन्धु मुमुक्षु बने हैं। उनके जीवन को नये आयाम प्राप्त हुये हैं।

श्री कानजी स्वामी युगों युगों तक जियें एवं समाज को उनके उपदेशों का लाभ मिलता रहे, यही शुभकामना है।

— सुभाषचन्द्र जैन
शकुन प्रकाशन, दिल्ली

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी जी बीतराग वाणी का जो व्यापक सन्देश दे रहे हैं; वह ही मूल सिद्धान्त हैं, जिससे प्रत्येक आत्मा सम्यकदर्शन प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने अनेकों विशाल दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण करा कर ब लाखों की संख्या में अनेकों ग्रन्थों का प्रकाशन करा कर जन जन तक बीतराग वाणी का प्रचार किया है, इसके लिए समस्त दिगम्बर समाज आपका ऋणी रहेगा।



विशेषांक की सफलता की कामना करता हूँ।

—रमेश जैन, प्रचार सचिव,

अ० भा० दिगम्बर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी

महान् विभूति !


सन्त कानजी स्वामी हमारे देश की महान् विभूतियों में से हैं। उन्होंने जैन धर्म, जैन संस्कृति और जैन दर्शन की जो सेवा की है वह सर्वविदित है। कानजी स्वामी की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने समाज के सुख-दुख के साथ तादात्म्य स्थापित किया है और वे अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा समाज को ऊँचा उठाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं।

कानजी स्वामी जी का हृदय अत्यन्त निर्मल स्पन्दनशील है। अतः उनकी अर्हानिश् कामना रहती है कि हमारा समाज सुखी हो, उसका मंगल हो, कल्याण हो। इसी कामना को लेकर उन्होंने समाज को सुखी बनाने के लिए बहुत कुछ किया है।

मेरी आंतरिक कामना है कि श्रेष्ठ कानजी स्वामी शतजीवी हों, स्वस्थ रहें और उनका मार्ग दर्शन समाज को चिरकाल तक प्राप्त होता रहे। —यज्ञपाल जैन सम्पादक—जीवन साहित्य

सत्पुरुष कानजी स्वामी वर्तमान युग के आध्यात्मिक जगत में एक क्रांतिकारी महापुरुष हैं। उनके द्वारा दिगम्बर जैन समाज का बहुत बड़ा उपकार हुआ है और आध्यात्मिक साहित्य के पठन-पाठन का प्रचार और प्रसार हुआ है—आप उनके नाम पर ब जीवन दर्शन पर आगम पथ का विशेषांक निकाल कर साहित्य जगत को नई भेंट दे रहे हैं इसके लिए आपका ब आपके पत्र का साधर अभिनन्दन है।

—सत्यंवर कुमार सेठी, उज्जैन



लो रोको.....तूफान चला रे !

अभियान.....

लो रोको तूफान चला रे,
पाखंडों के महल ढहाता
लो रोको तूफान चला रे

सह न सका जो मिथ्या-तम की
सीमा का जीवन में बंधन
रह न सका अबरुद्ध वहां जो
बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन,
एक दिवस अन्तर रवि जागा
पुण्य जागरण बेला आई,
जिसकी ज्ञान-चेतना ने रे
चिरनिद्रा से ली अंगड़ाई,
जिसकी करबट से संशय का
चिर-सिंहासन डोल चला रे
पाखंडों के०

निखिल विश्व पथ पाये—
हिय में करुणा का संसार समेटे
अपनी एक श्वास में रे जो
संशय-तम का मरण लपेटे
जिसकी प्रजा के प्रताप से
कर्त्तृवाद को थी हैरानी
अरे ! मृतक को मिली चेतना
सुन जिसकी कल्याणी बाणी

अरे ! युक्ति के सुन्दर पत्रों को
 करता जो अय-बोध बना दे
 पाखंडों के०

बोबी बुनिया "अरे अरे रे !
 मात पिता का धर्म न छोड़ो
 जिसमें तुमने जन्म लिया है
 उस पथसे अब मुंह मत मोड़ो
 हरी भरी सी कीर्ति-लता है
 दिग् दिग्गंत में व्याप्त तुम्हारी
 यह लो यह लो सिंहासन लो
 लेकिन रखो लाज हमारी
 अरे तुम्हारे इस निश्चय से
 भूतल पर भूचाल मचा दे
 पाखंडों के०

उत्तर मिला, "धर्म-शिशु जननी
 के अंचल में नहीं पलता है
 और पिता की परम्परा से
 बंध कर धर्म नहीं चलता है
 अरे जोक की सीमाओं को
 छोड़ धर्म का स्पंदन चलता
 ज्ञान-चेतना के अंचल में
 प्यारा धर्म निरंतर पलता
 सिंहासन क्या, धर्म देह की
 ममता तक तो छोड़ चला रे"

पाखंडों के०

प्राणों का भीषण संकट भी
 उसका पथ नहीं मोड़ सका रे
 कोटि-कोटि आंसू का वर्षण
 उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे

रे उत्सुं व हिमाचल—सां
 बेरोक बड़ा बह अपने पथ पर
 जिसने उसके पथ को रोका-
 भुका उसी का अस्तक भू पर
 पर्वत ने भी उसे राह दी
 खंड-खंड हो बज्ज गिरा रे
 पाखंडों के०


जिसको राह मिली, उसको
 अब चाह रही क्या शेष बताओ
 जिसको पाह मिली उसको
 पचाह रही क्या शेष बताओ
 उसने युग की धारा पलटी,
 वह अध्यात्म—क्रांति का सुष्टा
 एक दिव्य संदेश विष्व का
 चेतन केवल ज्ञाता - दृष्टा
 रे अणु-अणु की आजादी का
 शंख नाद वह फूंक चला रे
 पाखंडों के०

अरे वीर के जन्म दिवस पर
 भूतल का अभिज्ञाप भिट गया
 अरे वीर के जन्म दिवस से
 एक नया इतिहास जुड़ गया
 अंधकार में युव सोता था
 घुटती थी जीवन की श्वासें
 पानी में भी पड़े हुए थे
 अरे मीन युग-युव के व्यासे
 तेरा पावन पुनर्जन्म यह
 बसुंधा का वरदान बना रे
 पाखंडों के०



आत्मार्थी श्री कानजी स्वामी

संक्षिप्त जीवन-परिचय



परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री कानजी स्वामी जी का जन्म रविवार, वैशाख सुदी दूज, संवत् 1946 को कांठियावाड़ के उमराला ग्राम में श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय में हुआ। आपकी माता का नाम भजमदे और पिता श्री मोतीचन्द शाह थे।

एक समय था जब गुजरात में दिगम्बर धर्म का नाम भी कोई नहीं जानता था। सारे प्रान्त में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की ही प्रसिद्धि थी, और दिगम्बर जैन अनुयायी दृष्टिगोचर ही नहीं होता था।

मात्र 24 वर्ष की बय में आपने श्वेताम्बर जैन साधु की दीक्षा ले ली। आपका मन वैराग्य में ही रमता था और विवाहादि सांसारिक कार्यों के विचार आप से बहुत दूर रहते थे। आपने श्वेताम्बर सम्प्रदाय में रह कर गहन अध्ययन व मनन किया। 'श्वेताम्बर धर्म' का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भगवती सूत्र' तो आपने 17 बार पढ़ा। आपकी विलक्षण बुद्धि व स्मरण शक्ति से बड़े बड़े आचार्य आचर्य में डूब डूब गये। इससे आपको प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठाजनक स्थान प्राप्त हुआ।

फिर भी मन में कहीं न कहीं कसक थी, पीड़ा थी...जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आपकी आत्मा तड़प रही थी, वह आपको न मिल पायी। आपने श्री पुरुषार्थ का दामन न छोड़ा...सिंह पुरुषों की भाँति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्तर्मर्षन करते ही रहे।

आखिर वह कुम्भ षड़ी आ पहुँची। सं० 1978 में किसी चन्द पक्ष में दिगम्बरचार्य कुन्द कुन्द देव का समयसार परमागम आपके हाथों में आया। उसका सूक्ष्म अभ्यास और मनन करते ही आपके आत्मिक संस्कार एकदम झनझना उठे और इन्हें प्रतीत हुआ कि जिसकी खोज बचपन से थी, वह निधि आज मिल गयी। जितनी सूक्ष्मता से वे समयसार का अध्ययन करते गये, उतना ही वे आत्मा के रहस्य को मग्न करते गये। अब आपका रोम रोम पुलकित हो उठा। आपको जैसे नयी रोशनी मिल गयी।

पंथ मोह छूटा

यद्यपि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आप सर्वोत्कृष्ट प्रवचन-प्रवक्षता माने जाते थे एवं आपका स्थान बहुत ऊँचा था तथापि आपको भगवान कुन्द कुन्दाचार्य एवं सीमंघर भगवान प्रणीत दिगम्बर वीतराग धर्म आ गया था। आपके चित्त में एक केवल समयसार की बाणी उद्घाटित हो रही थी। आपके मन में विचारों का तूफान सा मचा हुआ था। जन्मना श्वेताम्बर लेकिन मन में दिगम्बर आखिर किधर जायें।

आखिर एक दिन सोनगढ़ में सम्बत् 1991 की चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, महाबीर जयन्ती के शुभ दिन दिगम्बर परम्परा को अंगीकार कर लिया।

आपके इस परिवर्तन से सौराष्ट्र की श्वेताम्बर समाज में हाहाकार मच गया। विरोधियों ने हर प्रकार से अपना विरोध किया लेकिन आप अडिग एवं अचल रहे। आपने विरोध की ओर ध्यान भी न दिया और शांत भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। और अन्त में विजय सत्य की ही हुई। दिगम्बर धर्म प्रसिद्ध करके सोनगढ़ को धर्म प्रचार का मुख्य केन्द्र बनाया। अब तो सोनगढ़ सारे भारत क्या सभी आध्यात्मिक प्रेमियों के लिए तीर्थ धाम बन गया है।

गहन अध्ययन

आप भगवान कुन्द कुन्दाचार्य रचित समयसार का अध्ययन करते ही गये। जितनी बार पढ़ते उतना ही आत्मिक आनन्द प्राप्त होता। जंगलों एवं गुफाओं में जाकर इस महान ग्रन्थराज के प्रत्येक भाव को अपने मन में उतारा।

वीतराग धर्म की प्रभावना

कानजी स्वामी जी के चित्त में सीमंघर भगवान एवं कुन्द कुन्दाचार्य का दिगम्बर जैन धर्म बस गया। आपने वास्तविक धर्म का पक्ष उजागर किया। जिसके फलस्वरूप आप श्री के उपदेशों का रहस्य समझ हथारों जिज्ञानु आपके भक्त बने एवं दिगम्बर जैन धर्म में वीक्षित हुए।

आपके प्रभाव से सौराष्ट्र में जगह जगह पर दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ। जिन विम्बों की स्थापना हुई एवं पंच कल्याणक ग्रहोत्सव सम्पन्न हुए। समस्त भारत में स्वाध्याय मंडलों एवं दिगम्बर जैन संघों की स्थापना हुई। जहां सौराष्ट्र में पहले एक भी दिगम्बर जैन मन्दिर नहीं था अब वहां 50 से भी अधिक मनोहारी दिगम्बर जैन मन्दिर विद्यमान हैं एवं लाखों दिगम्बर जैन वसते हैं।

तीर्थधाम सोनागढ़

पूज्य स्वामी जी मुख्यतः सोनागढ़ में ही रहते हैं। भक्तजनों ने सोनागढ़ में 'श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट' की स्थापना की है। इसके अन्तर्गत 'श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर' की स्थापना हुई एवं सोनागढ़ की समस्त व्यवस्था इस संस्था द्वारा ही होती है। आपका प्रवचन इसी मन्दिर में होता है। बाद में 'श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, श्री समवधरण मन्दिर, श्री कुन्द कुन्द प्रवचन मंडप आदि और अभी 20 लाख रुपये की लागत से विशाल परमागम मन्दिर की स्थापना हुई है। जो कि विश्व में अपने ही प्रकार का एक है।

तीर्थों की यात्रा

कानजी महाराज ने धर्म प्रचार की दृष्टि से भारत के सभी प्रमुख शहरों का भ्रमण एवं तीर्थों का वन्दन किया। आपने श्री सम्मेद शिखर, श्री गिरनार जी बाहुवली जी की यात्रा की। मद्रास का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पोन्नूर हिल भी आपके प्रयास से प्रकाश में आया।

साहित्य प्रकाशन

सोनागढ़ से पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों आदि पर पुस्तकाकार रूप में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। सं० 2000 से 'आत्मधर्म' मासिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। लाखों की संख्या में समयसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, प्रवचन-सार, आत्मसार आदि दिगम्बर जैन मिद्धान्त ग्रन्थों का प्रकाशन हो रहा है। बच्चों में धार्मिक रुचि जागृत हो इसके लिये एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है। जगह-जगह रात्रि पाठशालाएँ चालू की गई हैं। सोनागढ़ में प्रतिवर्ष गर्मियों में एक माह का शिक्षण-शिबिर चलता है। इसमें संकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं।

उपकारी सन्त !

दिगम्बर जैन समाज स्वामी जी का अत्यन्त श्रेणी है। वर्तमान युग में व्यवहार को ही धर्म की संज्ञा दी जाने लगी थी। केवल कृत्यादि कार्यों में ही धर्म का स्वर्ण्य संकुचित हो गया था। ऐसे समय में स्वामी जी ने निश्चय नय से धर्म व्याख्या की ओर कहा कि धर्म तो यह है, व्यवहार आदि तो गौण हैं। अब आपके प्रभाव से सारे दिगम्बर समाज में चेतना जागृत हुई है एवं लोगों की दृष्टि बदली है।



श्रद्धा सुमन



लेखाजंलि



संस्मरण

आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान बाहर से नहीं आता, आत्मा से ही होता है। आत्मा ज्ञान ही करता है, ज्ञान से अतिरिक्त किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। जो आत्मा को परब्रह्म का कर्ता मानता है, वह मूढ़ जीवों का महान् अज्ञान है।

—समृतचन्द्राचार्य

कानजी स्वामी : एक युग सन्त

□ पं० बालू भाई धुन्नीलाल सहेता,
कलेपुर जोडा (बुज०)

वीन धर्म एक वीतराग रूप है। वह निज धर्म है—आत्मधर्म है। प्राणी मात्र भी सत्समागम से सच्ची समझ द्वारा उसे कारण कर संसार दुखों का अभाव कर सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है अतः विश्व धर्म है। शाश्वत धर्म है—अनादि निघन है। इस मार्ग को भगवान् आदिनाथ ने भी नहीं बनाया था लेकिन बताया था। उसी प्रकार महावीर की आत्मा ने भी यही मार्ग ग्रहण किया और वे भगवान् महावीर बने। आज से २५३१ वर्ष पूर्व राजगृही नगर—विभुसाबल पर्वत के ऊपर समवशरण में आषाढ कृष्ण १ को प्रथम दिव्य ध्वनि-दिव्य देशना द्वारा उन्होंने महावीर-धर्म-चक्र प्रवर्तन किया और ३० वर्ष तक लगातार चला। और आज भी यही वीतराग मार्ग रूप धर्म चक्र चला आ रहा है। पिछले करीब ४० वर्ष से भगवान् महावीर के मार्ग को अपना कर अपना आत्महित साधन साधने आध्यात्म युग प्रवर्तक वीतराग मार्गोपदेशक मंत पूज्य श्री कानजी स्वामी ने सारे भारतवर्ष में निरन्तर सतन चैनन धर्म चक्र का प्रवर्तन किया विश्व में महावीर वाणी को गुंजाया, लहराया उनका जीवन दर्शन और तत्त्वज्ञान सभी भेद ज्ञान मूलक धर्मोपदेश से प्रभावित होकर सारे देश में तूफान आया और आध्यात्मिक क्रान्ति होकर लाखों जीवों ने साम्प्रदायिकता छोड़कर भगवान् महावीर के सच्चे अनुयायी भाव दिगम्बर बने और वीतरागी प्रवृत्त मार्ग पर चलने लगे। आज भी कई लोग मार्ग में लग रहे हैं और उनका महावीर धर्म चक्र प्रवर्तन उनके द्वारा चालू रहने से—होने से आगे भी लगेगे। महावीर तत्त्वज्ञान वीतराग विद्वान् स्वरूप तत्त्वज्ञान होने से उनका धर्मोपदेश के माध्यम से अनेक भव्य जीवों ने तो अतीन्द्रिय अनुभव रस पिपा अनेक यह रस पीने के लिए लालायित हैं। विशेषतः अनेक जगह अनेक नूतन दिगम्बर जिन मन्दिरों का तब-निर्माण स्वाध्याय मन्दिरों पाठशालाओं का तब-निर्माण हुआ। शिक्षण-वर्ग-प्रशिक्षण-वर्ग लगने लगे और स्वाध्याय पठन, पाठन, मनन-विचार अध्ययन और निज शुद्धात्मानुभव का युग चालू हुआ और पोपडम एवं पाखंड मिटने लगा। शिबिलाचारियों का मूल्य गिरने लगा। सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि

कम मूल्य और जन भाषा में प्राकृतिक शैली से कई भाषाओं की संख्या में ग्रन्थों का, मूल ग्रन्थों का प्रबन्धनों, अनुवाहों, सतसाहित्यों का प्रकाशन हुआ और जनता के घर-घर में यह साहित्य बसा। बासकों का धार्मिक साहित्य नीति और सदाचरण पूर्वक साहित्य निकलने से यह बासकों के हृदय का स्थान बना एवं इस वर्तमान युग में विक्रम बहुत हुआ।

उनके धर्मोपदेश का मुख्य केन्द्र विन्दु भगवान् अर्थात् है। मोक्षार्थ जीव का एक मात्र आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता ही प्रथम कर्तव्य है। निज शुद्ध आत्मा के आश्रय से भव का अन्त आता है। भव का अन्त हो यही पुत्र्यार्थ है। उनकी वाणी में भव के अन्त की बात आती है। जो भाव से भव हो—बंध हो—बह धर्म है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है स्वयं सिद्ध है। अनादि निघन है गुण पर्याय वत है। जड़ और चेतन पदार्थ का परिणमन स्वभाव के या विभाव रूप हो वह अपने में अपने से स्वतः स्वकाल में ही स्वयं परिणमन होता है पर से नहीं क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप स्वभानुरूप से अस्ति है सत है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है, असत है। ऐसा ही अस्ति नास्ति अनेकांत स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य के कार्य में उचित निमित्त की बहिरंग सन्धि होती है लेकिन सब निमित्तगतेः धर्मास्तिकायपन्ः समसना।

सर्वज्ञता धर्म का मूल है। सर्वज्ञता की प्रतीति करने पर सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की प्रतीति होती है और आत्मा की प्रतीति होने पर स्वात्मानुभूति होती है।

जैन धर्म एक वीतराग भावमय है। मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप यह धर्म नहीं है और रागादिक से धर्म होगा भी नहीं। धर्म तो सम्यकदर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ही है। यदि धर्म अथवा सुख प्राप्त करना हो तो सच्चे देव, गुरु, धर्म की पहचान कर उनके बताये मार्ग पर चलें, निज शुद्धात्मा को ध्येय बनाकर धुन लगाएँ।

भगवान् आत्मा शाश्वत जीवन्त चेतन चक्र है और उसके ही आश्रय से आश्रव-बंध पुण्य-पाप रूप कषाय चक्र, संसार चक्र मिटता है अथवा दुख कर्म चक्र का अभाव हो कर संकट निर्जरा मोक्ष दशा रूप पर्याय में वीतराग भाव रूप धर्म चक्र प्रगटता है।

प्रत्येक आत्मा भगवान् स्वरूप है, भगवान् बनने की क्षमिता और सज्ज करे तो पर्याय में भी भगवान् बन सकता है।

वर्तमान समय में इस युग की महान् विभूति, वीतराग मार्ग रहस्योद्घाटक भगवान् महावीर के लघुनन्दन, धाचार्य कुन्द-कुन्द के केदायन महावीर कुन्द-कुन्द

बाणी के प्रबल प्रसारक प्रचारक प्रभावक पूज्य श्री कानची स्वामी विशेषांक भाष्य श्री इस म० महावीर २५०० के निर्वाण महोत्सव वर्ष में प्रकाशित कर रहे हैं यह भागमपथ ने अच्छा साहसपूर्ण और कर्तव्यतापूर्वक काम किया है, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। क्योंकि जो भगवान् महावीर ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया है—जो कुन्द-कुन्दादि अनेक आचार्य और बनारसीदास से लेकर आचार्यकल्प पं० टोडरमल जी, जयचन्द जी, दीलतराम जी ने प्रवर्तन किया। वही प्रशस्त मार्ग को वे प्रवर्तन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अतः वे श्रेष्ठ हैं—अभिनन्दनीय हैं।

यह विशेषांक हजारों जीवों को महावीर का प्रशस्त मार्ग समझने में कार्यकारी हो और प्रत्येक प्राणी शुद्धात्मा का अनुभवशीली हो, यह मंगल कामना।



रे जीव ! तीन लोक में सबसे उत्तम महिमावांश अपना आत्मा है, उसको तू उपारिण जान। वही महासुन्दर व सुख रूप है। जगत में सर्वोत्कृष्ट ऐसे आत्मा को तू स्वानुभवगम्य कर। तेरा आत्मा ही तुझे आनन्दरूप है, अन्य कोई वस्तु तुझे आनन्द रूप नहीं है। आत्मा के आनन्द का अनुभव जिसने किया है ऐसे धर्मात्मा का चित्त अन्य कहीं भी नहीं लगता, बार-बार आत्मा की ओर ही झुकता है। आत्मा का अस्तित्व जिसमें नहीं, आत्मा का जीवन जिसमें नहीं ऐसे पर द्रव्यों में धर्मों का चित्त कैसे लगे ? आनन्द का समुद्र जहाँ देखा है वहाँ ही उनका चित्त लगा है।



अहो ! आत्मा आनन्द-स्वभाव से भरा हुआ है। ऐसे आत्मा के समक्ष देखें तो दुःख है ही कहाँ ? आत्मा के आश्रय में धर्मात्मा निःशंक सुखी हैं। वेह का भले ही चाहे जो हो, अथवा सारे ब्रह्मांड में कलबली मच जावे, तो भी उससे मुझे दुःख नहीं, मेरी शान्ति—मेरा आनन्द मेरे आत्मा के ही आश्रय से है, जहाँ मैं अपने आनन्द-समुद्र में डुबकी लगा कर लीन हुआ, वहाँ मेरी शान्ति में विचन करने वाला जगत में कोई नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा आत्मा के आश्रय से सुखी है।

(समयसार शास्त्र के सुखशान्ति के प्रवचन में से)

श्री कानजी स्वामी : एक विभूति

□ बं० जगज्योतिषाल शास्त्री

मोनगढ़ (सौराष्ट्र) स्थित श्री कानजी स्वामी इस युग में चर्चा का विषय हो चुके हैं। उनके पक्ष तथा प्रतिपक्ष में दिगम्बर जैन समाज का बहुभाग विभक्त है।

विक्रम संवत् २००५ में अखिल भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् का वहाँ अधिवेशन था। मुझे भी संभवतः सभी विद्वानों को (२-३ छोड़कर) उनका प्रथम साक्षात्कार उसी समय हुआ। उनकी कीर्तिगाथा कुछ समय पूर्व से सुन रही थी—यही आकर्षण था विद्वत्परिषद् को मोनगढ़ अधिवेशन करने का।

वहाँ जाकर देखा तो आश्चर्य चकित हो जाना पड़ा जिन मंदिर—मध्य दो-दो स्वाध्यायभवन—यात्रियों के ठहरने व भोजन का प्रबंध—सब कुछ सहजभाव से था। अब तो मानस्तंभ समवशरण मंदिर परमागम मंदिर तथा बीसों कोठियाँ बन चुकी हैं। एक खासा आध्यात्मिक नगर बस गया है।

अध्यात्म का विषय तद्विषयक रसिकों के लिए सरस हो सकता है। पर सर्व साधारण के लिए वह अत्यन्त सूक्ष्म विषय है। हम लोगों की शास्त्र प्रवचन हेतु तथा अनेक उत्सवों में धार्मिक भाषणों के हेतु समाज में यत्र-तत्र- सर्वत्र जाना पड़ता है। पर व्याख्यान में रोचकता लाने हेतु अनेक कल्पित कथा कहानियों का दृष्टान्त का आश्रय करना पड़ता है। यदि शास्त्रीय विषयों में से करणानुयोग और द्रव्यानुयोग का आश्रय लेकर भाषण करना प्रारम्भ करें तो श्रोता या तो ऊँघने लगते हैं—या सभा छोड़कर उठ जाते हैं।

मोनगढ़ की यह विशेषता है कि वहाँ अध्यात्म जैसे सूक्ष्म विषय की ही केवल चर्चा रहती है—प्रवचन और भाषण केवल उस एक विषय पर ही होते हैं पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उसे सुनते हैं। समय से १० मिनट पूर्व सभा भवन में होड़ सी लगाकर आते हैं और पूरे समय तक मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। स्वामी जी की प्रवचन शैली उनकी निमग्नता उसे सरस बना देती है।

स्वामीजी प्रभावक हैं—दैवीप्यमान हैं—उनकी वाणी शोचपूर्ण है—चरित्र उज्ज्वल है इन सब बातों का भी जनता पर प्रभाव अंकित होता है।

आव्यात्म ग्रंथ समय सार उनका मुख्य आराध्य ग्रंथ है, जिसका ये बार २ पारयण करते हैं। वे अभुतचद्वाचार्य की भाषा में ही बोलते हैं। निश्चयनय परक कथनी उनकी जिज्ञा पर सदानृत्य करनी है। निश्चयतः आत्म शुद्धि का मार्ग है श्रेष्ठमार्ग है। स्वामीजी का प्रतिपादन उक्त आधार पर होता है, यद्यपि निश्चय का एकान्त वे स्वीकार नहीं करते, अनेकान्तवादी हैं—पर प्रमुखता निश्चयनय की ही मथा रखते हैं—व्यवहार गौण है सदा कथनी में रहता है।

निश्चय तो व्यवहार का प्रतिषेधक है ऐसा पत्रचाध्यायी कार भी लिखते हैं। तथापि सर्व माधारण की पहुँच निश्चय के आश्रम लेने योग्य नहीं बन पाती अतः उन्हें निश्चय मार्ग पर आरूढ कराने के लिए व्यवहार धर्म का प्रतिपादन भी आचार्यों ने किया है।

स्वामीजी—जिन मंदिर निर्माण—जिन पूजा—तीर्थ यात्रा—पञ्चकल्याणक—जिन विम्ब प्रतिष्ठा आदि सभी व्यवहार धर्मों (पुण्य रूप धर्मों) का प्रतिपादन करते हैं—उपदेश करने हैं—प्रेरणा भी देते हैं आचार्य इसे मोक्षमार्ग नहीं मानते। यह मोक्षमार्ग है भी नहीं; इसे पुण्यबंध का मार्ग ही जैनाचार्यों ने लिखा है। पुण्य भी पाप की भूमिका में उठाने के लिए करणीय है अतः आचार्यों ने उसे उपदेशित किया है तथा उसे परम्परा में मोक्ष का कारण भी बनाया है।

परम्परा का अर्थ ही यह होता है कि साक्षात् मोक्ष का कारण वह नहीं—कोई और ही है। जो साक्षात् मोक्ष कारण है वह हैं निश्चय सम्यग्दर्शन—निश्चय सम्यग्ज्ञान और निश्चय सम्यक्चारित्र अतः व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान—चारित्र पुण्यबंध के कारण होते हुए भी निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान—चारित्र की प्राप्ति के साधन बन सकते हैं अतः उपादेय हैं जैन आचार्यों ने ग्रन्थाकारों ने व्यवहार की प्रधानता से उपदेश दिया है पर निश्चय पथ पर पहुँचाने का ध्यान रखा है उससे बिरत नहीं हुए।

मतभेद के कारणों पर विचार

(१) जैनाचार्य व्यवहार धर्म को पुण्यबंध का कारण तथा परम्परा मोक्ष का भी कारण लिखते हैं। स्वामीजी उसे (पुण्यबंध का कारण अवश्य प्रतिपादन करते हैं पर उसे परम्परा से भी मोक्ष कारणत्व कथन करने में उदासीन हैं। यह एक हेतु है जो परस्पर मतभेद का कारण बन रहा है।

(२) दूसरा पक्ष व्यवहार पक्ष की मुख्यता से ही उपदेश करता है निश्चय पक्ष को मानते हुए भी उसे अस्यन्त गौण और उपेक्षणीय कर देता है।

यद्यपि दोनों पक्ष स्याद्वादी अनेकान्ती हैं, अनेकान्त रूप तत्त्व के जानकार हैं—तथापि अपने २ नय से कथन को उपयोगी और अन्य नय के कथन को अनुपयोगी सा मानकर पक्ष लँचते हैं यह लींवातानी ही विषमता के विषय बन रही है।

(३) प्राण्य में अन्त-तत्त्व प्रतिपादित निश्चय प्रदान कथन को तथा व्यवहार प्रदान कथन को निराकृत न करते हुए भी दोनों पक्ष एक दूसरे को विध्यादृष्टि मानते हैं और अपने को सम्यग्दृष्टि मानते हैं ऐसी मान्यता भी मतभेद का ही नहीं पारस्परिक विषमता का कारण बनी है।

(४) समाज में जहाँ २ उक्त दोनों पक्षों के कट्टर अनुयायी हैं वे अपने गुरुजनों से चार कदम आगे हैं और उनकी परस्पर कषायविष्ट चर्चाएँ मंदिरों व संस्थाओं के तथा पंचायती संगठन के विभाजन का कारण बन रही है।

(५) एक पक्ष द्वारा अপর पक्ष की कट्टरता पूर्ण आलोचना भी इसमें भूताहुति का काम करती है।

आज अनेक दिगम्बर जैन साधु तथा प्रतिभाधारी श्रावकों में पाई जाने वाली आगम विरुद्ध चारित्रिक क्षिणिलता निश्चय पक्ष वालों को कट्टर आलोचना का अवसर प्रदान करती है। दूसरी ओर व्रत दान पूजा आदि पुण्य कार्यों को निश्चय धर्म स्वरूप न होकर शुभराग रूप होने व पुण्यबंध के कारण (संसार कारण होने से) "अधर्म" शब्द द्वारा व्यवहृत करना तथा स्वयं व्रत स्वीकार न कर अन्नती जीवन बिताना व्यवहार पक्ष वालों को कट्टर आलोचना का अवसर प्रदान करती है।

उक्त कारणों से व्यवहार पक्ष वाले इन निश्चय पक्ष वालों को "दिगम्बर" भी नहीं मानना चाहते, जबकि सोनगढ़ पक्ष वाले अपनी कट्टर दिगम्बरता का उद्घोष चौड़े मैदान करते हैं और जन्मजात दिगम्बरों का दिगम्बर जैनत्व पर एकाधिकार बानने को बिलकुल तैयार नहीं हैं।

इस उत्पन्न परिस्थिति का सम्यक्प्रकारेण पर्यालोचन अत्यन्त आवश्यक है उसे मैं अपनी समझ के अनुसार करता हूँ।

यह परम प्रसन्नता की बात है। सोनगढ़ पक्ष ने अपनी पूर्ण अवस्था में प्राप्त श्रद्धा का परित्याग कर दिगम्बर जैन आगमानुमोदित (१) देव के स्वरूप (२) शास्त्र के स्वरूप तथा (३) दिगम्बर जैन साधु के स्वरूप पर अपनी अडिग श्रद्धा स्थापित की है—अतः दोनों पक्षों के देव एक हैं एक स्वरूपात्मक हैं; ग्रन्थ भी एक हैं—जिनकी प्रामाणिकता में कोई मतभेद नहीं है; तथा दिगम्बर जैन गुरु के स्वरूप में भी कोई मतभेद नहीं है।

यदि धर्म के आधार भूत देव गुरु शास्त्र में मान्यता भेद होता तो दोनों पक्षों का सामञ्जस्य असंभव होता। पर ऐसा नहीं है यही शुभ किन्तु है जिससे उज्ज्वल भविष्य की मैं आशा करता हूँ। मतभेद के ५ कारण ऊपर दर्शाएँ हैं उन पर क्रमशः नीचे विचार किया जाता है।

(१) व्यवहार का अर्थ पर सापेक्ष कथन है। अतएव सच्चे देव, गुरु, शास्त्र

की अज्ञा व्यवहार सम्यग्दर्शन है।" आत्मअज्ञानम सम्यग्दर्शनं अर्थात् अपनी बुद्धा-
त्माकता अज्ञान भेदविज्ञान पूर्वक स्वसंवेदन स्वानुभूति रूप निश्चय सम्यग्दर्शन है।
मिथ्यादृष्टि जीव की दृष्टि यदि मिथ्यादेव गुरु शास्त्र से हटकर संप्रैवेक गुप्त
शास्त्र पर टिकती है तो ऐसे जीवकों आत्मअज्ञान की भूमिका प्राप्त हो सकती
है। इसी से व्यवहार को निश्चय का साधन ग्रन्थकारों ने कहा है। इसी प्रकार व्यव-
हार क्रियाएँ वान-पूजा-व्रतादि ब्रह्मण—जिनको पाप से बिरत कराकर वीतरागता के
मार्ग को प्रकट बनाते हैं अतः इनको पुण्यबंध का कारण होते हुए भी वीतरागताका
साधकपना पाया जाता है अतः परम्परा मोक्ष का कारण मानने में आपत्ति नहीं होनी
चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि जिसे व्यवहार सम्यग्दर्शन व व्यवहार चारित्र्य
हो उसे निश्चय सम्यग्दर्शन चारित्र्य की प्राप्ति हो ही जावे पर हो जाती है इस
कारण उसे साधन कहने में कुछ बाधा नहीं है।

पाप से मुक्ति दिलाने वाले व्रतदान पूजादि को व्यवहारतः 'धर्म' कहा गया है
"अधर्म नहीं" अतः इसे अधर्मशब्द द्वारा व्यवहृत करना अपर पक्ष को हार्दिक पीड़ा
पहुँचाता है।

यद्यपि निश्चय रत्नत्रय ही यथार्थ धर्म है और व्यवहार रत्नत्रय यथार्थ धर्म
नहीं है। अतः जो धर्म नहीं उसे 'अधर्म' शब्द द्वारा कहा जा सकता है परन्तु सर्व
साधारणजन पापक्रियाओं को अधर्म मानता है पुण्य क्रियाओं को नहीं अतः ऐसी भाषा
के प्रयोग का औचित्य नहीं है।

पाप पुण्य दोनों बंध के कारण है एक कुगतिव। कारण—तो दूसरा सुगति का
कारण है। संसार चतुर्गति स्वरूप है अतः संसार का कारण पुण्य "धर्म नहीं है" यह
शास्त्रोक्त कथन है तथापि उसे 'अधर्म' शब्द द्वारा व्यवहृत न कर जैनान्धार्यों ने व्यव-
हारतः धर्म संज्ञा दी है परमार्थ धर्म तो उसे ही माना है जो—

संसार दुःखतः सत्त्वान् की वरायुत्तममुखे ।

— समन्त भग्नार्थ

अर्थात् प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर यथार्थ उत्तम सुख में धरे वह
धर्म है। अतः पुण्य कार्य यथार्थ धर्म नहीं है तथा अधर्म जो पाप उसकी भूमिका से
जीव को उठाते हैं तथा आगामी अभिवृद्धि की योग्यता सम्पादन में किन्हीं जीवों को
कारण बनते हैं अतः उन्हें 'अधर्म' शब्द द्वारा न कहकर व्यवहार धर्म द्वारा प्रतिपादन
विषमता को दूर करने का कारण बन सकता है।

(२) व्यवहार पक्षवादी—विद्वज्जन है यदि वे अपनी प्रतिपादन शैली में
निश्चय धर्म की उपादेयता तथा उसकी श्रेष्ठता के प्रतिपादन को भी अपनावे और
फिर उसे प्राप्त करने का साधन होने से व्यवहार धर्म को धर्म रूप कहें तो उत्तम
होगा। निश्चय से जिसकी संज्ञा है उसे उपेक्षणीय करना हितकर नहीं है।

दोनों पक्ष यदि एक दूसरे के मन को धाँवर दें तो विषमता दूर होने में देर न लगेगी।

(३) विवेन्द्र द्वारा कथित तत्त्व का अद्वैतीय व्यक्ति सम्म्यग्दृष्टि है। विद्या दृष्टि नहीं। निश्चय सम्म्यग्दर्शन का कोई व्यवहारिक रूप नहीं है। यदि कोई है तो तो वह ही तत्त्वार्थअज्ञान या देवगुरु शास्त्र का अज्ञान रूप व्यवहार वर्तन। अतः किसी निश्चय सम्म्यग्दर्शन है, किसे नहीं है इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते। जिसका निर्णय नहीं कर सकते उसका अहंकार भी वृथा है। इव्यालिंगी साधु विद्यादृष्टि ११ अंग भवपूर्व का अध्येता बोरोपसर्ग परिषय विजयी अपने भीतर कषायोदय की अत्यन्त मन्शता धारण करते हुए भी अपने आन्तरिक निश्चय सम्म्यग्दर्शन व विद्यादर्शन का स्वयं निर्णय नहीं कर पाता, साधारण अन्य जन भी निर्णय नहीं कर पाते जब उस पक्ष को अपनाध्ये बनाते हुए तत्त्व अद्वैतीय को सम्म्यग्दृष्टि मानकर वात्साल्य अंग का पालन करना चाहिये। ऐसा करने से ही सौहार्द बढ़ेगा। धर्म की यथार्थ प्रभावना होगी।

(४) समाज में उभयपक्ष भी उक्त १-२-३ सुभाषों का अनुसरण करें। मेरा पक्ष ही सत्य है—धर्मानुकूल है, पर पक्ष असत्य है धर्मानुकूल नहीं है। ऐसा कदाग्रह छोड़दे तो सामाजिक विघटन दूर होकर संगठन बढ़ेगा। धर्म की अभिवृद्धि होगी।

(५) परस्पर की कटुता पूर्ण आलोचना एक धर्मियों में नहीं होनी चाहिए। वात्सल्य सम्म्यग्दर्शन का अंग अंग है उसके अभाव से दोनों का सम्म्यग्दर्शन दूषित है अतः कटुता का भाव दूर करे।

यह सत्य है कि आज दिगम्बर जैन साधुओं में अनेक साधु अपने साधु धर्म परिपालन में परिपूर्ण नहीं है।

(१) कुछ सहन हीनता के कारण उसका निर्दोष पालन नहीं कर पाते।

(२) कुछ देश काल की परिस्थिति बश निर्दोष पालन नहीं करपाते।

(३) कुछ समाज के साधारण भक्तिमान् जनों की अत्यन्त अवाञ्छनीय भक्ति के कारण निर्दोष पालन नहीं करते।

(४) कुछ सब कुछ जानते हुए भी प्रमादबश निर्दोष पालन नहीं करते।

(५) कुछ मुनिपद की महत्ता तथा उसके प्रभाव को देखकर उपाति-लाभ-पूजा के अभिलाषी होने से निर्दोष पालन नहीं करते।

ये सब बातें सत्य और यथार्थ हैं इनसे अस्व भूदना अपने को छोड़ा देना है। इनमें से न० १ और २ के कारणों से दोष लग जाने वाले साधु तो प्रायश्चित्तादि के पात्र हैं और वे अपने अज्ञानों को निर्दोष बनाने का भी प्रयत्न करते हैं उन्हें साधुपद के योग्य प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये।

न० ३, ४, ५, के कारणों से स्थित साधुओं को सर्वप्रथम अपने दोष स्वयं दूर कर निर्दोष पद अंगीकार करना चाहिये अन्यथा जिनगम का अपवाद-तथा समाज की निशुद्धता के सम्पूर्ण दोष के स्थान वे होंगे। ऐसे स्थितसाधारी साधुओं व व्रती साधकों को उनके समान समझना भी उन्हें प्रोत्साहित करना है।

दूसरी ओर इनकी स्थितता के कारण व्रतारोहण करना भी अमिष्ट मानना भूल भरा है। व्रत और व्रत के प्रति वास्तव्यभाव ही सम्मयक्त का धर्म है उसके तथा उनके धारियों के प्रति तिरस्कार का भाव धारमवञ्चना है।

इस प्रकार मतभेद पड़ने के कारणभूत इन छोटी २ बातों को दूर कर समस्त दिगम्बर जैन संघ यदि पारस्परिक स्नेह पूर्ण व्यवहार करें ती जैन धर्म की सच्ची प्रभावना अपने में व लोक में हो सकती है निश्चय प्रभावना व्यवहार प्रभावना में इसी प्रकार हेतुहेतुमद्भाव है।

स्वामी जी ने अपने ने जीवन वह कार्य किया है जो प्राज्ञ सहस्रों वर्षों से जैन साधकों द्वारा सम्पन्न नहीं हो सका। दिगम्बर-श्वेताम्बर एक धर्म के अनुयायी भाई-भाई हैं, तथापि भाई यदि भाई को न माने—अलग हो जाय—विरोध रखे—तो भाई से भाई की दुश्मनी अन्य दुश्मनों से अधिक हो जाती है।

यही कारण है कि गतान्दियों से तीर्थों पर पारस्परिक झगड़े व मुकदमाबाजी चल रही है। स्वामी जी ने १ लाख के करीब अपने भूने भाइयों को सधर्म के मार्ग पर लगाया है।

दिगम्बर जैन समाज के कथित नेता जो उनका विरोध करने तथा उन्हें 'दिगम्बर जैन' न मानने की घोषणा करते हैं वे तब उन्हें मान्यता देते थे जब वे भाई दि० जैनी नहीं बने थे। दि० जैन बन जाने पर ठुकराते हैं, तिरस्कार व अपवाद करते हैं इससे बड़ी भूल कोई हो नहीं सकती। कहा जाता है ये "अपना नया पंथ" बनाते हैं पर यह बात सही नहीं है। जिस पंथ से वे आए उस पंथ से स्वतः अलग हो गए, जिस पंथ में आए वे अपने में शामिल नहीं करना चाहते—फलतः यह नया पंथ बनेगा पर बनेगा दि० जैन समाज की भूल से—हम उनका नया पंथ बनाने के कारण हैं, वे नहीं। वे अपने को कट्टर दिगम्बर जैन घोषित करते हैं।

सौराष्ट्र में २० दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण—उनकी पञ्चकल्याण प्रतिष्ठाएँ—समस्त दिगम्बर जैन तीर्थों की सहस्रों व्यक्तियों के संघ सहित वन्दना—साखों रुपया दि० तीर्थरक्षा में चन्दा देना तथा उसकी पूति का संकल्प—ये सब उनकी कट्टर दिगम्बरता के दृढतम प्रमाण हैं।

स्वामी जी अत्यन्त सरल, निष्कपट, सहजस्नेही हंसमुख, ओजस्वी व्यक्ति हैं। अध्यात्म के उच्चतम विद्वान् हैं। अध्यात्म का जीवनचर्या पर प्रभाव लक्षित होता है। प्रकारान्त उनका कार्य एक मिशन का कार्य है।

उनके अनुयायी अधिकांश व्यक्ति—रात्रि भोजन नहीं करते, कन्दमूल अन्न नहीं करते। द्विदल नहीं खाते, अतरूप प्रतिशाबद्ध न होते हुए इन भावनीय नियमों का पालन करते हैं, जबकि पुराने दिगम्बरों में यह परम्परा टूटती जा रही है।

मेरी स्वयं की दृष्टि में यह निर्णय है कि स्वामी जी का तत्त्वज्ञान मर्याद है प्रतिपादन शैली का भेद अवश्य है तथापि नवदीक्षित दि० जैनों के लिए उनकी प्रतिपादन शैली ही सही बैठती है।

उनके व्यवहार धर्म का उपदेश दिया जाय तो उन्हें अपनी स्थिति से कुछ विशेषता परिलक्षित नहीं होती—व्यवहार धर्म भेद दर्शन-पूजा-प्रभावना-दान आदि तो ये उस अवस्था में भी करते हैं। दिगम्बर धर्म की विशेषता उसके अध्यात्म पक्ष के कारण है न कि व्यवहार पक्ष के कारण। अतः कोई भी ग्रन्थ धर्मानुयोगी उसके अध्यात्मपक्ष से ही दि० जैन धर्म की महत्ता अर्किया।

कहा जा सकता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का उपदेश प्रथम देना चाहिए तदनन्तर शुद्धात्मतत्त्व की बात करना चाहिए। कथन सत्य है तथापि वर्तमान समय के अनुसार किसी को सच्चे देव हमारे हैं उनका यह स्वरूप है, तुम्हारे देव झूठे हैं उनका यह स्वरूप है। ऐसा कथन विपरीत फलदायी बनता है अपने को सच्चा ग्रन्थ को मिथ्या कहने झगड़े को आमंत्रण देना है।

स्वामी जी शुद्धात्म का स्वरूप पहिले दिखाते हैं आत्मा सभी के भीतर है अतः अपना स्वरूप जानने की रचि जागृत हो जाती है। जब मेरा आत्मा रागादि क्रोधादि भावों से रहित-शरीरादि नो कर्म से रहित—तथा विषय सामग्री के साधनों से भिन्न 'केवल ज्ञानानन्दमय' है ऐसा अपनी आत्मा का महात्म्य आता है तब जो शुद्धात्मा बन चुके परमात्म पद पर स्थिति है वे कैसे होना चाहिए यह सहज बोध हो जाता है तब सच्चे देव का स्वरूप और कुदेवका स्वरूप उन्हें स्वयं भासित होने लगता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। प्रक्रिया भेद है। व्यवहार से यथार्थपक्ष समझाएँ अथवा निश्चय वस्तु स्वरूप समझा कर व्यवहार की पवित्रता समझाएँ दोनों में प्रक्रिया भेद होकर भी यथार्थ भेद कुछ नहीं अतः जो लाभदायक प्रयोग है स्वामी जी उसे ही अपना रहे हैं।

अतः उनकी शैली उनके अनुयाइयों को दिगम्बर जैन धर्म की ग्रंथीकारता के लिए उपयुक्त है। पुराने दिगम्बरों में सभी लोग व्यवहार पक्ष का सम्यग्पात्सन करते हैं। यदि कुछ कमी है या विपरीतता है तो उन्हें भी उनके तारिखक उपदेशों को ग्रहण कर दि० जैन धर्म की यथार्थता का अनुसंधान कर अपना व्यवहार संशोधित कर लेना चाहिए।

स्वामी जी इस दुःख की एक महान् विभूति हैं वे समस्त समाज के लिए आदर्शनीय हैं। मेरी उनके सभी सर्कारों पर श्रद्धा है और मेरी भावना है कि वे शौकिक कामनाओं से तथा युक्तियों से व कल्पित भावनाओं से दूर— जिनायम के बचार्थ रहस्य को प्रकाशित कर स्व पर कल्याण समर्थ हों। भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि दि० जैन समाज के उन्वयवक इस प्रभावना के बचार्थ मार्ग को अपनायें।

केन्द्रीय महासमिति की एकता (एक मंत्र) की भावना भी इसके बिना साकार नहीं बन सकती ऐसा मेरा ख्याल है। अतः यदि सभी भाई इसमें एक जुट होकर प्रयत्न करें तो यह कार्य बहुत सरल है।



बिनाश श्रद्धांजलि !

मैंने स्कूल के साथ पाठशाला में कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके परीक्षाये दी थी, पर धर्म क्या वस्तु है, यह मैंने अपने जीवन में न जाना था। संयोग से बकामत के कार्य में धार्मिक रुचि तथा समय का भ्रमाव भी धर्म के प्रति उपेक्षा का कारण बना रहा। परन्तु संयोग से स्वामी जी के प्रवचनों की पुस्तकों के पढ़ने का प्रसंग प्राने पर तीव्र इच्छा हुई कि प्रत्यक्ष में स्वामी जी की वाणी का लाभ उठाया जावे। इसी दृष्टि से सोनगढ जाने का निर्णय लेकर प्रथम वर्ष ही क्लास में बैठने व स्वामी जी के प्रवचन सुनने पर भ्रतरंग में ऐसी रुचि जागृत हुई कि प्रति वर्ष सोनगढ जाये बिना चित्त को भ्रान्ति नहीं मिलती।

धर्म के विषय में जो कुछ जानकारी हुई है, वह पूज्य स्वामी जी की ही देन है।

यदि स्वामी जी के प्रवचन मनन करने का अवसर नहीं मिलता तो पुष्प को धर्म समझना रहता। परिणाम स्वरूप तत्त्व के प्रति भ्रान्तता बनी रहती।

यह स्वामी जी का ही महान् उपकार है। मैं अपने जीवन में उनका अत्यन्त ऋणी हूँ। इस अवसर पर हृदय से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुये उनके प्रति आभार प्रगट करता हूँ और गुरुदेव के शतायु की कामना करता हूँ।

—नन्व किशोर जैन, एडवोकेट
विदिशा (म० प्र०)



मोक्ष मार्ग दर्शक है, कानजी स्वामी का सन्देश

कल्याण कुमार श्रेण 'सक्ति'

जन्म-मरण की गतियों की व्यवहार यद्यपि भटकाएँ
आत्मा यदि निश्चय के द्वारा, मोक्ष परम पद पाये
उसका शत स्वागत है जो अन्तिम पद तक पहुँचाये;

वह सीधा पथ हितकारी है जिसमें मुक्ति प्रवेश
मोक्ष मार्ग दर्शक है कानजी स्वामी का सन्देश ।

राग द्वेष के बन्धन में जीवन भटका फिरता है
शीघ्र नहीं टिकने देती, व्यवहारिक अस्थिरता है
इसके चक्रव्यूह में प्राणी इस प्रकार विरता है;

जिसके कारण छूट न पाते राग द्वेष संक्लेश
मोक्ष मार्ग दर्शक है कानजी स्वामी का सन्देश ।

महावीर ने क्रिया काण्ड का, किया न रंज समर्थन
सम्यक, दर्शन, ज्ञान, चरित्र का किया प्रखर प्रतिपादन
समबशरण में प्राणि मात्र को दिया यही पथ दर्शन;

तप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का दिया विष्य सन्देश
मोक्ष मार्ग दर्शक है, कानजी स्वामी का सन्देश ।

धर्म परिग्रह कर्माढम्बर, इनमें उलझ न जाये
भ्रमण बढ़ाने वाले पथ पर, आत्मा को न भ्रमाये
सत्वर लक्ष्य निकट लाये, वह पगडंडी भ्रपनाये;

बहुवचिंत शास्त्रों में प्रतिपादित इनके निर्वेश
मोक्ष मार्ग दर्शक है कानजी स्वामी का सन्देश ।

अन्तर्वाह्य व्यक्तित्व के धनी :

कानजी स्वामी

□ डा० हुकमचन्द भारिष्ण, जयपुर

“आत्माआत्मा.....आत्मा जन्मान आत्मा सदा ही अस्ति निर्वास है, पर से अत्यन्त भिन्न परम वाक्य है। यह भिकाशी श्रुत तत्त्व आत्मन्व का कन्व और ज्ञान का घनचिह्न है। रंग, रस और भेद से भी भिन्न अतीन्द्रिय परम बर्बाई भिजात्मा ही एकमात्र आशय करने योग्य है। उसका ही आशय करो, उसमें जम जाओ, उसमें ही रम जाओ।” यह प्रेरणा देते देते लाखों की सभा में भी क्षण भर को ही सही अपने में रम जाने वाले, अपने में ही जम जाने वाले युगान्तरकारी आध्यात्मिक सत्पुरुष कानजी स्वामी को लाखों आँखों ने लाखों बार अपने को मग्न होते देखा होगा। उन्होंने क्या कहा ? उसका क्या भाव है ? कानों से सुनकर चाहे बहुत कम लोगों ने समझ पाया हो, पर आँखों से देखने वालों ने यह अनुभव प्रवश्य किया होगा कि स्वामी जी जो कुछ बोल रहे हैं, वह अन्तर की गहराई से आ रहा है। वह मात्र व्याख्यान के लिए व्याख्यान नहीं है।

गंगा मये गंगादाम और जमना मये जमनादास वाली बात वहाँ नहीं है। चाहे ५० व्यक्तियों की सभा हो, चाहे पचास हजार की। चाहे अपने हों, चाहे पराये। वहाँ तो एक ही बात है—पर और पर्याय से भिन्न आत्मा की। गिर-गिट का मा रंग बदलने वाले तथाकथित आध्यात्मिक प्रवक्तार्थों के समान अन्दर कुछ और बाहर कुछ वाली बात उनमें आप कभी नहीं पायेंगे।

उनकी वाणी में किसी का विरोध नहीं आता, मात्र अपना अविरोध झरता है। वे अपनी बात, अनुभव की बात, आगम की बात सबके सामने रखते हैं। कौन क्या गलत कह रहा है, गलत कर रहा है; यह जानने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए उनके पास समय नहीं है, सत्य का अनुभव करने और निरूपण करने से अवकाश मिले तब तो यह सब किया जाय। यह तो उनका काम है, जिन्हें सत्य से कोई सरोकार नहीं है, धर्म जिनका घन्टा है। धर्म को जीवन मानने वाले स्वामी जी इन सब बातों से बहुत दूर हैं।

यदि आत्मज्ञान का नाम ही अध्यात्म है तो स्वामी जी सच्चे अर्थों में आध्या-त्मिक हैं क्योंकि उनका चिन्तन, मनन, कथन, अनुभवन सब कुछ आत्मामय है।

अधि=आत्मता, धारम=आत्मा को इस प्रकार बंधे आत्मा को जानना ही आध्यात्म
 कृत्या ।

पुण्य और पवित्रता का सहज संयोग कालिकाल में सहज संभव नहीं है ।
 धिनके जीवन में पवित्रता पाई जाती है, उनकी कोई बात नहीं सुनता और धिनके
 समझ वाली मानव झुकते हैं, धिनको सब सुविधाएँ सहज उपलब्ध हैं, वे पवित्रता से
 बहुत दूर दिखाई देते हैं, जैसे उनका पावनता से कोई सम्बन्ध ही न हो । उन्हें पवि-
 त्रता से कोई सरोकार नहीं । स्वामी जी एक ऐसे युग-पुरुष हैं धिनमें पुण्य और पवि-
 त्रता का सहज संयोग है । उनमें सोना सुगंधित हो उड़ा है ।

वे धन्तर्बाह्य व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हैं । एक धोर जहाँ स्वच्छ शुभ्र
 श्वेत परिधान से सर्वांग ढकी एक दम गोरी
 धूरी बिराटकाया, उस पर उगते हुए सूर्य-
 सा प्रभा सम्पन्न उन्नत भाव तथा कभी
 धन्तर्मन्त्र गुरुगंभीर एवं कभी धन्तर की
 उठी धानन्द हिलोर से खिलखिलाता गुलाब
 के विकसित पुष्प सदृश ब्रह्मतेज से दँदीप्यात
 मुखमण्डल, व्याख्यान में उनकी बाणी से
 कुछ भी न समझ पाने वाले हजाराँ श्रोताधों
 को मंत्रमुग्ध किए रहता है । वहीं दूसरी
 धोर स्वभाव से सरल, संसार से उदास,
 धुन के धनी, निरन्तर आत्मानुभव एवं
 स्वाध्याय में मग्न, सबके प्रतिसमताभाव
 एवं करुणाभाव रखने वाले धिनध्र पर
 सिद्धान्तों की कीमत पर कभी न झुकने



लेखक

वाले अत्यन्त निस्पृही एवं दृढ़ मनस्वी, गणधर जैसे विवेक के धनी बध्न से भी
 कठोर पृष्ण से भी कोमल उनका धान्तरिक व्यक्तित्व बड़े-बड़े मनीषियों के आकर्षण
 का केन्द्र बना रहता है ।

काठियावाड़ (आधुनिक गुजरात) की मिट्टी में ही न मानून ऐसी क्या
 विशेषता है जिसने एक ही शताब्दी में ऐसे दो महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने
 लौकिक और पारलौकिक दोनों कितिजों के छोर पा लिए हैं । पहिले वे महात्मा-
 गांधी और दूसरे हैं कानजीस्वामी । एक ने हमें लौकिक स्वतंत्रता का मार्ग ही नहीं
 दिखाया, अपितु स्वतंत्रता भी प्रदान की है दूसरा हमें पारलौकिक अलौकिक आध्या-
 त्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शन कर रहा है, स्वयं उस पर चल रहा है, दूसरों को

कहान-गुरुदेव विशेषांक

बसने का प्रेरणा स्रोत बन रहा है। एक सावरमती का संत कहा जाता था तो दूसरा सोनगढ़ का संत कहा जाता है। एक बार इन दोनों महात्माओं का मिलन भी हुआ था, जब चौबीसी राजकोट में स्वामी जी के प्रवचन में पचारे थे।

सोनगढ़ आज तीर्थधाम बन गया है। वहीं-वहीं सन्तों के पग पड़ते हैं, वे स्थान तीर्थधाम बन जाते हैं। सोनगढ़ क्यों न तीर्थधाम बने वहाँ तो धार्मिक सत्पुरुष बामीस वर्ष से आरम-साधना कर रहे हैं, आरमसाधना और आरम-आराधना का पथ-प्रसस्त कर रहे हैं।

आज ऐसा कौन जैन है जो गिरनार और शत्रुजय (पालीताना) गया हो और सोनगढ़ न गया हो और वहाँ पर पहुँच कर विशाल जिनमदिर समबशरण मंदिर, परमात्म मंदिर के दर्शन कर कृतार्थ न हुआ हो। शहरी कोहलाहल से दूर शान्त और निर्जन इस प्रान्त में आत्मा के नाद की गूँज न सुनी हो, एवं-राम और भेद से विन्म आत्मा की बात कान में न पड़ी हो।

आज सोनगढ़, समयसार और कानजी स्वामी पर्यायवाची हो गये हैं। सोनगढ़ में कुन्दकुन्दाचार्य के पंच परमागमों को परमागम मंदिर में संगमरमर के पाटियों पर उत्कीर्ण करा दिया है। सर्वश्रेष्ठ दिगम्बराचार्य का इससे बड़ा स्मारक और क्या होगा। पर कानजी स्वामी कुन्दकुन्द और उनके समयसार के जीवन्तस्मारक हैं। क्यों न हो समयसार ने उनके जीवन को जो बदल डाला है। समयसार पाकर उन्होंने क्या नहीं पाया, क्या नहीं छोड़ा। सर्वस्व पाया और सर्वस्व छोड़ा। श्रीमद् रायचन्द ने समयसार माने वाले वाले को खोवा भर मुद्रायें दे दी थीं, पर कानजी स्वामी ने तो परम्परागत धार्मिक सम्प्रदाय ही नहीं, उसका गुस्त्व, गौरव पूर्ण जीवन, यत्न यहाँ तक कि प्राणों तक का मोह छोड़ा।

वे प्राणों की बाजी लगाकर प्राणों की कीमत पर दिगम्बर (जैन) हुए हैं। दिगम्बरों ने उन्हें क्या दिया? यदि दिगम्बरों ने उन्हें समयसार दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो दिया उन्होंने दिगम्बरों को समयसार का, मोक्षमार्ग प्रकाशक का भर्म दिया। यदि उन्हें दिगम्बरों से एक समयसार मिला, एक मोक्षमार्ग प्रकाशक मिला तो उन्होंने समयसार और मोक्षमार्ग प्रकाशक दिगम्बरों के घर-घर तक पहुँचा दिया।

कौन जानता था कि काठियावाड़ के छोटे से ग्राम उमराला में आजसे ८७ वर्ष पूर्व वि० सं १९४६ की बैसाख सुदी २ रविवार के दिन जन्मा बालक कहान इतना महान् होगा। ज्योतिषी स्थानकवासी सम्प्रदाय में जन्मा बालक कहान बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का शान्त बालक था। माता उजमबाई और पिता मोतीचंद जी श्री मास को एक ज्योतिषी ने बालक कहान को महापुरुष होने का स्पष्ट संकेत किया था। अतः उनका पुत्रप्रेम सहज द्विगुणित हो गया था। साधारण शिक्षा के उपरान्त

उनके जन्म स्थान के ही निकटस्थ कस्बा पालेज में उनके बड़े बड़े ब्राह्मणवर्ध जी के साथ उन्हें भी कुछन धर बिछा दिया गया पर उनका मन उसमें नहीं रमा। वे उदासचुरित, पर कृपलता पूर्वक ईमानदारी और सारी प्रामाणिकता के साथ कार्य करते गये। सोलह वर्ष की बयमें एकबार उन्हें बड़ीदा की कोर्टे जासा पड़ा, वहाँ उन्होंने सम्स्त सत्य की बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ रखा। न्यायाधीश पर उनकी तरलता, सहजता, स्पष्ट बक्ता का ऐसा असर हुआ कि बिना मजह के ही उनकी बात को प्रमाण मानकर निर्णय दे दिया।

उठते यौवन में उन्होंने “भक्त प्रबु” आदि नाटक भी देखे। सामान्य मुचकों का मन नाटकों के शृंगारिक प्रसंगों में अधिक रमा करता है उनका मन बैराग्य पोषक प्रकरणों में ही अधिक रमा करता था। जिसकी चर्चा आज भी वे बड़े ही भाव-विभोर हो, कभी-कभी अपने प्रवचनों में किया करते हैं।

अन्तर्व्यापार के अभिलाषी कहान का मन बाह्य व्यापार में न रमा। जब उनसे शादी का प्रस्ताव किया तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मुझे तो दीक्षा लेने का भाव है, मैं शादी नहीं करूँगा। अरे.....अरे..... उन्होंने दीक्षा लेने की बात मान नहीं कही, २२ वर्षीय उठते यौवन में ही उन्होंने स्थानकवासी साधु हीराचन्द जी के पास वि० सं० १९७० अगहन सुदी ६ रविवार के दिन बड़े ही ठाठ-बाट से दीक्षा ले ली। पर दीक्षा जुलूस में हाथी पर सवार होते समय दीक्षा वस्त्र फट गया। उस समय तो किसी की समझ में कुछ न आया, पर अब कभी-कभी स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि मुझे तभी यांका हो गई थी कि सच्चा साधुपना यह नहीं है।

यद्यपि गृहस्थावस्था में भी आपने श्वेताम्बर शास्त्रों का अध्ययन—मनन किया था तथापि दीक्षित होने पर बाद में उनका बहुत गम्भीर अध्ययन किया; पर उनके हाथ कुछ भी न लगा। उन्हें ऐसा लगा जो मेरा प्राप्तव्य है, वह इनमें नहीं है। वे उन पर व्याख्यान करते, प्रवचन करते, हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। स्थानकवासी सम्प्रदाय में उनकी महान विद्वान, लोकप्रिय प्रवचनकार और कठोर-साधक साधु के रूप में प्रतिष्ठा थी। उनके भक्तगण मुग्ध थे, पर वे नहीं; वे कुछ और खोज रहे थे। अचानक वि० सं० १९७८ में समयसार उनके हाथ लगा। मानो निधि मिल गई। जिमकी खोज थी, वह पा लिया। वे उसे ले एकान्त जंगल में चले गये। उसके पढ़ने में मग्न हो गये, जाता समय ध्यान ही न रहा।

उनका अन्तर पुकार उठा कि ‘सत्य पंथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर हैं’, पर..... वि० सं० १९८२ में श्रीधामार्ग प्रकाशक हाथ लगा। यह ग्रन्थ भी स्वामीजी को अपूर्व बना,

यह अन्धराज अपूर्व है श्री । यह इतना मन भाया कि इसका सातवाँ अन्वय तो आपने हाथ से निख लिया, जो आज भी सुरक्षित है ।

यह अन्तर्बाह्य का संघर्ष वि० सं० १९६१ तक चलता रहा । आखिरकार जो इस नरसिंह ने उसी वर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को साधारण गाँव सोनगढ़ में बाड़ा तोड़ ही डाला मुँह पट्टी उतार फेंकी और अपने को दिगम्बर आवक घोषित कर दिया । क्या ही विचित्र संयोग है कि यह शुभकार्य महावीर जयन्ती के दिन ही संपन्न हुआ । सप्रदाय में खलबली मच गई । चारों ओर से भय और प्रलीमनों के पासे फेंके गये पर सब बेकार साबित हुए । धर्मान्धों ने क्या नहीं कहा और क्या नहीं किया पर “मनस्वी कार्यार्थी—न गणयति दुःख सुख ।”

कुछ दिनों तक वे एक अनन्य अनुयायी के सोनगढ़ के समीप टेकड़ी पर स्थित टूटे-फूटे मकान में रहे, जो आज भी उसी हालत में विद्यमान है और जिसे गुण्डेव स्वयं कभी कभी अपने अनुयायियों को बड़े प्रेम से उँगली के इशारे से दिखाया करते हैं ।

साम्प्रदायिकता का मोह में हो गये विरोधियों की कषाय जब शान्त होने लगी तो वे पृथ्वी और पवित्रता के धनी गुण्डेव के दर्शनार्थ भुड के भुड आने लगे । कुछ यह देखने भी आते कि अब कैसा क्या चल रहा है, पर उनके समझ आकर उनके आचरण व्यवहार को देख एवं अभूतपूर्व प्रवचनों को सुन नत मस्तक हुए बिना नहीं रहते ।

कुछ समय बाद जन्मजान दिगम्बर जैन भी पहुंचने लगे । कुछ प्रेम से कुछ भक्ति से, कुछ कुरहल से पर जो भी उनके पास पहुंचता, उनका हुए बिना नहीं रहता; उनके अन्तर्बाह्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । इनकी वाणी में तो कुन्द-कुन्द के अमृत का जाड़ू है तो पर उनका बाह्य व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं है ।

उनके इस आध्यात्मिक आकर्षण से विरोधी क्षेत्रों में खलबली मच गई । जो आज देखी जा सकती है । ‘जो वहाँ जाएगा उनका हो जायगा ।’ इस भय से आर्शांकित और आर्कित होकर वहाँ न जाने की लोगों को प्रतिज्ञाएँ दिलाई जाने लगी पर तूफान को कौन रोक सकता है । अमर गायक कवि युगल की “सो रोको तूफान चलारे; पाखण्डों के महान बहाता, नो रोको तूफान चलारे ।” यह पंक्तियाँ आज चुनौती दे रही हैं ।

आध्यात्मिक ज्ञानि का यह सूत्रधार आज जहाँ भी जाता है, विरोधी भी उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं । चार-चार बार संपूर्ण भारत की समंघ यात्राएँ की है इस महापुरुष ने । पचास से अधिक विशाल जिन

मन्दिरों का निर्माण हुआ है, इनकी पावन प्रेरणा से। बीच-बीच से ऊपर सगह्रित भी प्रकाशित हुआ है। गाँव-गाँव में तत्काल चर्चा के केन्द्र स्थापित हो गये हैं। छोटे-छोटे से गाँवों में व्यापक सामान्य व्यापारियों को निश्चय व्यवहार, भिन्न-भिन्न उपादान की चर्चा करते पायेंगे। यह सब इस महामानव का प्रभाव है कि आज के इस भौतिकतावादी युग में आध्यात्मिक वातावरण बना दिया है।

वह अद्वितीय महापुरुष है। ऐसा कोई दूसरा महापुरुष बताएँ जिसने इनके समान अनंत प्रशंसाओं और निन्दाओं का उत्तर तक न दिया हो। जो जगत की प्रशंसा और निन्दा से इनके समान अप्रसवित रहूँ अपनी मति से ही चलता रहा हो। जिसने समय (ब्रुह्मत्मा) और समय (टाइम) ऐसा साधना की है कि जिसमें समय-सार प्रतिबिम्बित हो उठा हो और लोग जिसकी दिनचर्या से अपनी बर्दियाँ मिला लेते हैं।

उस अन्तर्बाह्य व्यक्तित्व के घनी महापुरुष को शत-शत प्रणाम।



आध्यात्मिकता के हस्ताक्षर



हे त्याग तपस्या के प्रतीक, हे क्रांतिभूत, हे शांतिभूत !
भारत-गौरव, निर्भ्रंय सन्त, गुजरात भूमि के प्रिय सपूत !
भौतिकता के पृष्ठों पर लिख आध्यात्मिकता के स्वर्णक्षार,
तुम बढ़े जा रहे अनथक, सत्, शिवम, सुन्दर के पावन पथ पर !!
वाणी से झरता अमृत स्रोत, तन-मन का कलुष धोता है
नयनों में ज्ञान-दीप ज्योतिष, अज्ञान-तिमिर को खोता है
गुजरात क्षेत्र में दिगम्बरस्व की जय गाथा के मुखरित स्वर,
यश गाथा कहते हैं तेरी, मंदिर के च्चक्र, उत्तुंग, 'दिक्षर' !!
हे युग-सारथि, संचालित होकर धर्मचक्र मय युग का रथ
है यही कामना, तब प्रताप से ही प्रशस्त जिन आगम-मय !!!

—श्रीधर जीन
मंत्री—हरियाणा प्रदेश महावीर निर्वाण महोत्सव समिति

यशस्वी आध्यात्मिक सन्त पं० परमेष्ठी दास जैन, न्यायतीर्थ, ललितपुर प्रधान सम्पादक 'धीर'

मीराष्ट्र के छोटे से ग्राम में जन्मे, बाल्यावस्था से ही विरक्त और भरी युवावस्था में दीक्षाग्रहण करके श्वे० सम्प्रदाय में महामुनिराज का उच्चतम पद प्राप्त करके महनीय पूज्यता को प्राप्त आध्यात्मिक सन्त श्री कानजी स्वामी ने जब श्री कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार का अध्ययन किया तो उनकी दृष्टि बदल गई। और उन्होंने अपने स्थानकवासी सम्प्रदाय में प्राप्त अवर्णनीय ध्याति, पूजा और सर्वोच्च मान्यता का मोह छोड़कर बड़े ही साहसपूर्वक मुहपत्ती (स्थानकवासी जैन साधुका परिवेष) त्याग कर अपने अनेक अनुयाइयों सहित दिगम्बर जैनधर्म, श्रीकुन्दकुन्दा-चार्यादि गुरुओं और समयसार आदि शास्त्रों के परम भक्त हो गए।

सम्बन् १९७८ में स्थानकवासी सम्प्रदाय के महामुनिराज श्री कानजी स्वामी के मन में आत्मिक विरक्ति व्याप्त हुई, और उन्होंने अपने गुरु श्री हीराचन्द जी महाराज में स्पष्ट कह दिया कि—यह मुहपत्ती, वस्त्र और पात्रादि का परिग्रह मुनित्व के साथ अनुरूप नहीं लगता। उत्तर में गुरुजी ने कहा कि—यदि यह सब ठीक नहीं लगता तो बिना वस्त्र-पात्र वाला गुरु बूँद लो।

यद्यपि यह चर्चा सहज ही चल पड़ी, किन्तु किसे ज्ञात था कि श्री कानजी स्वामी को कुन्दकुन्दाचार्य और उनकी परम्परा के यथार्थ दिगम्बर गुरुओं के प्रति भक्ति हो जायगी और वे अपने परम्परागत धर्म और प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर दिगम्बर जैनधर्म हो जायेंगे।

श्री कानजी स्वामी ने पूर्व दीक्षा का त्याग करके मीराष्ट्र के एक छोटे से



ग्राम—सोनगढ को पसन्द किया उन्हीं के साथ शताधिक पूर्वभक्त भी स्थानकवासी सम्प्रदाय का त्याग कर दिगम्बर जैन धर्म हो गए। धीरे-धीरे सोनगढ का विकास होने लगा, वहाँ विशाल दिगम्बर जैन मन्दिर का निर्माण हुआ स्वध्याय भवन बना और आश्रम की स्थापना हो गई। स्वामी जी ने श्री कुन्दकुन्दाचार्य और उनके रचित आध्यात्मिक ग्रन्थ समयसार आदि को आत्मकल्याणकारी मानकर खूब प्रचार किया। उनके समयसार-प्रवचन और अपूर्व व्याख्यान को सुनकर लोग

आश्चर्यचकित रह गए। दूर-दूर से श्रोतागण वहाँ पहुँचने लगे। वही निवास करने

समे, और धीरे-धीरे सोनगढ़ ने जैन शासन की आध्यात्मिक राजधानी का रूप धारण कर लिया ।

दिगम्बर जैन समाज में विद्यमान जैन सिद्धान्त शास्त्रियों में अधिकांश के विद्यागुरु स्याद्वादचारिण पं० बंशीधर जी न्यायालंकार ने एक बार मधुवन में हजारों श्रोतार्यों की उपस्थिति में कहा था—

“हमारे तीर्थंकरों और आचार्यों ने सच्चे दिगम्बर जैन धर्म को अर्थात् मोक्ष-मार्ग को प्रकाशित करने वाला जो उपदेश दिया था वही इन कानजी स्वामी की वाणी में हम सबको सुनने को मिल रहा है ।.....श्री कुन्दकुन्दाचार्य और श्री अमृत-चन्द्राचार्य के बाद समयसार के यथार्थ रहस्य को जानने और समझाने वाले श्री कानजी स्वामी ही हैं ।”

जहाँ समूचे सौराष्ट्र में २-४ ही दिगम्बर जैन मन्दिर थे और सर्वत्र श्वेताम्बर धर्म का प्रभाव था वहाँ श्री कानजी स्वामी के प्रभाव, प्रेरणा और प्रयास से सौराष्ट्र में अनेकानेक भव्य दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण हो चुका है । केवल सौराष्ट्र में ही नहीं, अर्थात् समूचे भारत में क्षताधिक आकर्षक विशाल दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण हो चुका है, जहाँ विराट् समारोहों के साथ सुन्दरतम भव्य दिगम्बर जैन मूर्तियों की दिगम्बर मान्यतानुसार प्रतिष्ठा की गई है ।

समयसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, छहडाला, द्रव्यसंग्रह आदि बड़े-छोटे अनेक ग्रन्थों का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार हुआ है जितना विगत कई शताब्दियों में कभी नहीं हुआ था । यह सब श्री कानजी स्वामी के यथार्थज्ञान प्रचार की भावना का ही फल है ।

स्वामी जी के प्रमुख घाम सोनगढ़ में सैकड़ों भक्तजनों और क्षताधिक आजीवन ब्रह्मचारी बहिनों का स्थायी रूप में निवास है । उनके खानपान की शुद्धि, व्रत, नियम, आचार-विचार और जिनभक्ति आदि देखकर आश्चर्य बकित रह जाना होता है । पाठकों को यह भी ज्ञात हो कि उनमें अधिकांश श्वेताम्बर या स्थानक वासी जैन थे, जो अब कट्टर शुद्ध दिगम्बर जैन धर्मानुयायी हो गए हैं ।

श्री कानजी स्वामी का ही यह प्रभाव है कि एक सुगठित सुव्यवस्थित, अनु-शासनबद्ध यात्रा संघ के रूप में सहस्राधिक नर-नारी भारत वर्ष के प्रायः सभी दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कर चुके हैं ।

प्रतिवर्ष यत्र-तत्र शिक्षण और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके ज्ञान प्रचार किया जाता है । श्री कानजी स्वामी के निमित्त से सोनगढ़ प्रकारान्तर में अध्या-त्मिक तीर्थघाम बन गया है । पूज्य कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महा महनीय व्यक्तियों को ही नहीं अपितु पंडित प्रवर टोडर मल जी, पं० बनारसीदास जी तथा पं० दौलतराम जी आदि विद्वद्वरों के व्यक्तित्व और कृतित्व को भी उजागर करने में जितना कानजी स्वामी को श्रेय है उतना आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ मुझे उनके उच्च व्यक्तित्व, महनीय कृतित्व और प्रशस्त आचार-विचार में विगत ३५ वर्ष से अति निकट का परिचय है । दिगम्बर जैन समाज उनके उपकारों का चिरञ्छपी रहेगा ।

ज्ञान-यज्ञ के यशस्वी प्रणेता

□ डा० भागवन्त्र जैन, प्रास्कर,
अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय,

अध्यात्म चेतना के प्रेरक

श्री पूज्य कानजी स्वामी इस बीसवीं शताब्दी में अध्यात्म चेतना को जागृत करने वाले एक ऐसे प्रेरक अग्रदूत हैं जिन्होंने समाज को 'या विद्या सा विमुक्तये' का पाठ पढाया है। समाज जब अत्मचिन्तन को भूलता सा जा रहा था, आत्मा-परमात्मा की बात उसके गले नहीं उतरती थी, तब उन्होंने जिदानन्द चैतन्यरस की ऐसी मंजीविनी दी जिसका पानकर हर मुमुक्षु अपने को धन्य समझने लगा। अध्यात्म चेतना का यह नवनीत समाज को एक नया पथदर्शन दे रहा है। यहाँ विचारों की कोई नवीनता भले ही न हो पर प्रस्तुतीकरण की नवीनता आकर्षक है। विचारों की कोई नवीनता इसलिए नहीं कि स्वामीजी के विचार जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों से पृथक् नहीं। उनके विचारधारा तो वस्तुतः जैन धर्म का मूलरूप है। और इसी को वे जागृत कर रहे हैं।

स्वाध्यायशाला के प्रवर्तक

जैन धर्म में स्वाध्याय को दैनिक कार्यों के अन्तर्गत रखा गया है। समाज इमे कालवशात् भूलता चला जा रहा था। स्वामीजी के प्रभाव से यह भूल सुधरती चली जा रही है। आज गाँव-गाँव में नियमित स्वाध्याय प्रारम्भ हो गया है। प्रायः प्रत्येक मन्दिर के साथ स्वाध्यायशाला का निर्माण हो रहा है और उसमें प्रातः सायंकाल प्रवचन की व्यवस्था कर दी गई है। मुमुक्षुगण इससे बहुत लाभान्वित हुआ है। जिन शास्त्रों को लोग जानते नहीं थे उनका वे स्वयं प्रवचन करने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

बीतरागता के प्रचारक

स्वामीजी मूलतः दिगम्बर नहीं थे। जैसे ही कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थ उनके अध्ययन के विषय बने, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आया और वे दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये। मात्र अनुयायी ही नहीं बल्कि बीतरागता के सच्चे उपासक और प्रचारक बन गये। जैन साहित्य के प्रकाशन का भी कार्य उन्होंने बड़ी तत्परता और

उदारता पूर्वक प्रारम्भ किया। कम से कम कीमत में उसे मुमुक्षु के हाथों में पहुँचाने का सफल प्रयत्न हुआ अथवा तक लगभग पचास पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आत्मधर्म मासिक पत्रिका भी इसी उद्देश्य को लिये हुए है। इतना अच्छा और सस्ता साहित्य साधारणतः अन्यत्र दुर्लभ है।

बाह्य क्रियाकाण्ड के निवेदन

जैनधर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है और निवृत्ति की सच्ची साधना निश्चयनय के बिना सम्भव नहीं। व्यवहारलय को धन्त में छोड़ना ही पड़ता है। स्वामी जी व्यवहार रूप बाह्य क्रियाकाण्ड को छोड़ देने का आग्रह करते हैं और आत्मा के मूल धर्म की ओर दृष्टि देने का निवेदन करते हैं। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि चरित्र का वहाँ कोई स्थान नहीं अथवा शुभोपयोग का कोई महत्त्व नहीं। शुभोपयोग की प्राप्ति के लिए शुभोपयोग की निश्चित ही उपयोगिता है। उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु उसी में आसक्त हो जाना उचित नहीं। इस दृष्टिकोण के प्रचार से बाह्यक्रियाकाण्ड धीरे-धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं और आत्ममुख होकर रत्न-त्रय की पवित्र त्रिवेणी बहने लगी है।

इस प्रकार पू० स्वामीजी ज्ञानयज्ञ के यशस्वी प्रणेता है जो मिथ्यात्व में फँसे हुए जीवों को बड़ी सरलता से बाहर निकलने के दुस्ताध्य व्रत में लगे हुए हैं। युवक वर्ग भी इस आन्दोलन की ओर बहुत आकर्षित हुआ है। स्वामीजी की तपोसाधना उनका सरल और मधुर व्यक्तित्व प्रवचन की अगुठी श्रीली ज्ञान की अगाधता, चिन्तन की तलस्पर्शिता, व्यवस्था की प्रगाढ़ता, विचारों की स्थिरता तथा सहानुभूति और सहिष्णुता ऐसे गुण हैं जिन्होंने उन्हें आज विश्व सन्त की श्रेणी में आसीन कर दिया है। उनके इस महामहिम व्यक्तित्व को हमारा शतशः सहस्रसः विनम्र प्रणाम। स्वामीजी स्वस्थ और चिरंजीवी रहें, यही हमारी मनोभावना है। ●

पूज्य श्री कानजी स्वामी वर्तमान युग के महान् आध्यात्मिक क्रांतिकारी सन्त हैं। आपने दिगम्बर आम्नाय अंगीकार करके भगवान् सीमंधर स्वामी एवं भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत वीतराग धर्म का प्रचार प्रसार किया। समस्त दिगम्बर जैन समाज आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहेगी।

स्वामी जी ने मूल जैन धर्म क्या है? निश्चय अथवा व्यवहार में किसका आश्रय किया जाय। मोक्ष प्राप्ति के लिए सद् पथ क्या है? इन गूढ़ विषयों पर ४० वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। हर्ष का विषय है कि सारे भारत को स्वामीजी के प्रवचनों का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मैं आपके इस शुभ कार्य की हृदय से अनुमोदना करता हूँ एवं विशेषांक की सरलता की कामना करता हूँ।

—मुल्लसम राय जैन
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

आध्यात्मिक सन्त विवेक वंत, दृढ़ श्रद्धानी सादर प्रणाम

अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ, जयपुर

ओ कुन्द कुन्द के अनुयायी !
ओ ! समयसार के भाष्यकार
अध्यात्मवाद के ग्रन्थों का
मंथन कर खींचा पुनः सार ॥१॥

उद्घाटित करके नये तथ्य
आडम्बर सारे किये चूर,
निज स्वाध्याय के बल पर ही
शंकाएँ सब की हुई दूर ॥२॥

हे भीतरागता के पोषक
मिथ्यात्व भाव का हुमा अंत,
आत्मानुभूति से निज पर को
पहिचान रहे हो जानवन्त ॥३॥

तुम शुद्ध आम्नायी अखंड
आकर्षण तुम में यही एक,
विपरीत मान्यता छोड़ छोड़
आकर मिलते हैं अनेक ॥४॥

आचार्य कल्प टोडरमल के
हे सद्गुरु हो तुम पूर्ण भक्त
जिनकी साहित्यिक कृतियों से
हो सका मोक्ष का मार्ग व्यक्त ॥५॥

शिक्षण शिबिरों के माध्यम से
फैलाते जग में सद् विचार,
साहित्य प्रकाशित कर सुन्दर
जिनवाणी का करते प्रचार ॥६॥

भ्रागम ग्रन्थों का बुधि लेखन
 परमागम मन्दिर में, विशाल
 युग युग तक गौरव गाथाएँ
 गायेया 'अनुपम' विशद भाल ॥७॥

मन्दिर निर्माण प्रतिष्ठा से
 कर दिया संस्कृति में सुधार
 जिन पूजा भक्ति भजन प्रवचन
 द्वारा समझाते धर्म-सार ॥८॥

सदियों तक जीभो परमहंस
 हे सरस्वती सुत ! बुद्धि धाम,
 आध्यात्मिक संत विवेकवंत
 दृढ़ श्रद्धानी सादर प्रणाम ॥९॥

शांति-पथ-प्रदर्शक

ज्ञानी ज्ञान भाव में मग्न रहता है। उससे कोई लाभ ले रहा है या नहीं, उसे इससे कोई प्रयोजन नहीं। वह व्यर्थ के विवाद में अपना अमूल्य समय नष्ट न कर अपने सबौगीण विकास में सदैव तत्पर रहता है। जैसे सुमन खिलकर अपनी सुगंध बिखेरता है। चाहे वह दिर्जन वन में हो या नगर के कोलाहल के मध्य मानव निर्मित क्यारी में। कौन उसकी महक ले रहा है, कौन नहीं; इससे उसे क्या प्रयोजन? खिलना, महकना उसका स्वभाव है।

कानजी स्वामी की शांत सौम्य मुद्रा, उनकी जीवन चर्या देखकर अथवा उनके प्रवचन श्रवण कर किसी कवि की पंक्तियाँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थीं बरबस याद आ जाती है—

कर्मवीर बकवाद नहीं करता है खल से।
 शांति सहित निज कार्य किया करता है बल से ॥
 यद्यपि भ्रोछा उसे बुरी बातें कहरता है।
 तो भी वह निज कर्म मार्ग पर दृढ़ रहता है ॥
 जो श्वान भूंकते हैं खड़े, हाथी जाता है चला।
 क्या मशकों कीहुंकार से खगपति डरता है भला ॥

अन्त में स्वामी जी के प्रति मैं भावभीनी श्रद्धाजलि समर्पित करते हुए उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हूँ।

कल्पवती 'किरण'

जबलपुर

महान् क्रान्तिकारी सन्त

□ प्रकाश हितवी काल्पी
सम्पादक-सन्मति संदेश, दिल्ली

धर्म का प्रयोजन शाश्वत शांति की प्राप्ति है। वह सुख शांति आत्मा को स्वभाव है। अतः सुख शांति प्राप्त करने के लिये आत्मस्वभाव को समझना अत्यन्त आवश्यक है। उस आत्म ज्ञान के साधनों को ही अध्यात्मवाद कहा जाता है। यह अध्यात्मवाद ही धर्म का प्राण है। इस अध्यात्म की साधना के द्वारा ही सम्भव जीव अपने साध्य मुक्ति (पूर्णज्ञान, अनंत सुखादि) की प्राप्ति करते हैं।

प्रत्येक युग में इस अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार होता रहा है। अनेक आचार्यों साधु संत और विद्वानों ने अपने-अपने समय में इस अध्यात्मवाद का विगुल बजाया है। आज भी आत्मार्थी संत श्री कानजी स्वामी ने निर्भीक एवं निर्भ्रान्त होकर भारत में इसी अध्यात्म का तुमुल नाद किया है। जैन समाज जो मात्र क्रिया काण्ड को धर्म मानकर जाल बन्द कर चल रही थी, उसको आज स्वामी जी ने झकझोर दिया है। जिस अध्यात्म को नीरम और उपेक्षित मान रहे थे, वही अध्यात्म आज सबसे अधिक रुचिकर एवं मंजीवनी बूटी की तरह उपादेय बन गया है।

आज से कुछ समय पूर्व प्रथमानुयोग और अधिक से अधिक चरणानुयोग ही शास्त्र सभाओं में चर्चित विषय होता था, वहीं आज अध्यात्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा चलने लगी है। क्रियाकाण्ड प्रधानी जीव भी आज अध्यात्म का विरोध करने के लिये ही सही समयसारादि ग्रन्थों का स्वाध्याय करने लगे हैं। यह श्रेय भी आदरणीय स्वामी जी को है। इनका विरोध तो अध्यात्म को बरदान बन गया है। क्योंकि ज्यों-२ विरोध बढ़ा है, त्यों २ ही भारत के कोने-कोने में इसका प्रचार बढ़ता गया है। और यह अध्यात्म का रंग ऐसा है जिस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। लोग सोचते हैं विरोध करने से इसका प्रसार रुक जायगा किन्तु वह तो दिन दूता बढ़ता ही जा रहा है।

इसका एकमात्र यही कारण है कि जब विरोध उठता है तो लोगों की जिज्ञासा जगती है कि इतना विरोध होने पर भी यह प्रचार रुकता क्यों नहीं है इसी जिज्ञासा को लेकर वे लोग अध्यात्म के सम्पर्क में आते हैं और वे अपने हित की बात सुन समझकर उसके कट्टर अनुयायी बन जाते हैं। जो भी सच्चे हृदय से अध्यात्म के सम्पर्क में आयेगा नियम से वह उसका अनुयायी बन ही जायगा। क्योंकि वह उसकी अपनी वस्तु है। धर्म की मूल रकम है अध्यात्म के ज्ञान के बिना अन्य अनुयोग के भाव को सही भी तो नहीं समझ सकते हैं। अतः अध्यात्म का तलस्पर्शी ज्ञान होना एक धर्म प्रेमी को अत्यावश्यक है।

आज अध्यात्म का मंथीर मनन चिंतन चलाने लगा है। प्रत्येक नगर ग्राम में शास्त्र सभयें चलने लगी हैं, जिनकी प्रथा करीब उठती सी जा रही थी। जो भाई बहनें कभी मंदिर में भी नहीं आते थे, वे अब पूजा भक्ति करते देखे जाते हैं। जो जैन धर्म की ख ई भी नहीं जानते थे, वे आज तत्त्व की मंथीर चर्चा करने लगे हैं। जो विवेक शून्य क्रियायें करते थे, वे अब प्रत्येक धर्म क्रिया से विवेक पूर्वक करने लगे हैं। जो कभी शास्त्र सभाओं के नाम से हिचकते थे वे ही आज आकर्षक अवस्था बने हुए हैं। इन सब परिवर्तन के मूल कारण को जब हम खोजते हैं तो इसमें सोनगढ़ के संत का प्रमुख हाथ है। आज जो भी धर्म की ज्योति अज्वलित होती हुई दिख रही है। इन सबके लिये स्वामी जी प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं।

कुछ समय पूर्व किसी प्रकाशन संस्था द्वारा कोई जैन ग्रंथ प्रकाशित किये जाते थे तो वे बीस वर्ष में भी नहीं बिक पाते थे जबकि आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक सात वर्ष की अवधि में पच्चीस हजार प्रकाशित होकर समाप्त हो चुके हैं। समयसारादि कई महान् ग्रंथ अत्यावधि में ही कई हजार छपकर समाप्त हो चुके हैं। सोनगढ़ से प्रकाशित होने वाले ग्रंथ प्रकाशित पीछे होते हैं किन्तु वे पहले ही बिक चुके होते हैं।

इससे भी स्वर्णक्षरों में अंकित करने योग्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई है तो वह है कि करीब ३०-४० हजार स्थानकवासी श्वेताम्बर समाज के परिवार मूर्ति पूजक दिगंबर धर्म में दीक्षित होकर सन्मार्ग पर लग गये हैं। ऐसी ऐतिहासिक घटना इतिहास में भी देखने को नहीं मिलेगी। यह सब सोनगढ़ के संत का ही प्रभाव है।

वे जो कुछ कहते हैं सब शास्त्राधार से कहते हैं, एक शब्द भी अपनी ओर से नहीं मिलाते हैं। शास्त्रों की टीकाएँ भी सभी २०० वर्ष पुरानी पं० जयचन्द जी छावड़ा आदि की हैं। उन्होंने न कोई टीका स्वयं लिखी है और न किसी आज के विद्वान् से लिखावाई है। एक-एक शब्द प्राचीन टीकाकारों के हैं। वे अपने कुलधर्म को तिलांजलि देकर दिगम्बर धर्म में आत्म कल्याण की दृष्टि से ही दीक्षित हुये हैं किसी लोकेषणा को लेकर नहीं।

उनके विषय में अधिकांश भाई यह कहते सुने गये हैं कि जब वे अध्यात्म की इतनी गहरी चर्चा करते हैं तो वे ब्रती क्यों नहीं बन जाते हैं। इसके उत्तर में मैं उनका जो भाव समझ सका हूँ। वह यह है कि ब्रत धारण नहीं किये जाते किन्तु किन्तु जब अस्त्याख्यानानावरणादि कषाय नष्ट हो जाती है तब अंतरंग की शुद्धि के साथ ये ब्रत प्रतिफलित होते हैं। जैसे वन में नाचने वाली मयूर को बलात् रंगमंच पर नचाया नहीं जा सकता, वह तो हृषित होकर वन में स्वयं नाचती है। भले ही उसके नृत्य को देखने वाला कोई न हो।

यह जैन समाज के सौभाग्य की बात है कि उसे ऐसा महान् क्रान्तिकारी महापुरुष का सुयोग मिला है। इससे तो जैन समाज को हृषित होकर इस संत का सादर स्वागत करना चाहिये और अपनी पूर्व मान्यताओं से मध्यस्थ होकर महान् आचार्यों के मूलतत्त्व को ध्यान से सुनना चाहिये। ●

समय सार युग प्रणेता : पूज्य श्री कानजी स्वामी

—उत्तम शब्द संग, एम. ए., बी. एड., लिखनी (न० प्र०)

‘समयसार को जानकर, पाया भव का अन्त ।
कहना आगम उन्हीं को, सच्चा सन्त महन्त ।’

ऐसे ही समयसार मर्मज्ञ, आध्यात्मिक संत, पूज्य श्री कानजी स्वामी के अद्वितीय व्यक्तित्व को, उनके प्रति वर्तमान आस्था को यों तो लेखनी पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ है, फिर भी यहाँ व्यक्तित्व, संभव प्रयास किया जा रहा है । जिनको अनुभव होता है, उन्हें शब्दों की विशेष महत्ता नहीं होती, किन्तु जिन्होंने अनुभव तो दूर रहा, अनुभव की बात को भी कभी सुना नहीं, अनुभवी संतों का कभी परिचय किया नहीं, आदर, सम्मान एवं कृतज्ञता की स्वीकृति के बदले जो कृतघता के नर्तन में लीन हैं, उन्हें कृतघता रूप महापाप से बचने में निमित्तभूत अनुभवी एवं अनुभव की बातों का परिचय कराना ही एकमात्र साधन है, तदर्थ लेखनी का महत्त्व भी है अतः यहाँ पर समयसार युगप्रणेता, महावीर की बीतराग वाणी के रहस्योद्घाटक, युगकांता, युगपुरुष संत पूज्य श्री कानजी स्वामी का संक्षिप्त यथार्थ निजधनुभूति अनुसार परिचय कराते हैं ।

मेरा प्रथम परिचय—सन् १९६२-६३ में पूज्य स्वामी जी का मंगल-पदार्पण मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था । उस समय मैं लगभग १८ वर्ष का युवक था । मैं अपनी युवकौचित उत्कण्ठा सहित पूज्य स्वामी जी के दर्शनार्थ एवं सदुपदेश लाभार्थ निश्चित समामण्डप में पहुँचा । उस समय लगभग दस हजार से अधिक श्रोतागण मंत्रमुग्ध की भाँति परमशान्त वातावरण में स्वामी जी की अमृत वाणी का पान करने में मग्न थे । कुछेक अनर्दित हो रहे थे, तो कुछ चन्द्रचकोरवत् निष्ठब्ध थे, कुछ “प्रमाण वचन गुरुदेव” ‘बराबर’ इत्यादि शब्दोच्चारण कर रहे थे । मैं स्वयं पू० स्वामीजी की शांत, प्रसन्न, गंभीर मुद्रा तथा उक्त वातावरण से प्रभावित हो रहा था । मुझे लग रहा था, निश्चित ही स्वामी जी महान् संत हैं । उनका संतपना उनके प्रतापवन्त-आभायुक्त मुखमण्डल, मधुरवाणी, तदनकुल हाव-भाव एवं शांतमुद्रा से देदीप्यमान हो रहा था । केमरे की भाँति उक्त मुद्रा हृदय पटल पर चित्रांकित सी

हो गई। फिर भी उनकी बाणी का रहस्य या अर्थ स्वयं की प्रयोग्यता एवं आगम के अनभ्यास के कारण कुछ भी समझ में नहीं आया।

मेरी उत्कण्ठा में वृद्धि का कारण—तदुपरान्त सन् १९६४ से ६६ तक का समय स्नातक शिक्षा हेतु मैंने सिवनी (म० प्र०) में व्यतीत किया। इसी बीच किन्हीं दुराशययुक्त व्यक्तियों द्वारा पू० स्वामी जी का परिचय बार-बार “कानजी” “कानजी” आदि शब्दों द्वारा मिलने लगा। वास्तव में यह परिचय निदर्कों की निन्दनीय प्रवृत्ति का परिचायक था। सूर्य पर धूल उछालकर उसे आच्छादित करने की असफल कोशिश की तरह तथोक्त “कानजी” आदि शब्द ‘पूज्य संत श्री कानजी’ के दिनकर सदृश प्रतापी व्यक्तित्व को आच्छादित करने में असमर्थ रहे, बल्कि इन चेष्टाओं ने मुझे उन्हें सन्निकट से समझने की प्रेरणा प्रदान की। जिज्ञासा को यत् किन्चित्, शांत करने हेतु मैंने सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य का तथा इतर प्रकाशित दि० जंनाचार्यों के साहित्य का गंभीर अध्ययन एवं परीक्षण प्रारंभ किया, परिणामतः पूज्य स्वामी जी का विराट् व्यक्तित्व एवं जिनागम का रहस्य ‘वीतरागता’ समझ में आने लगा। अभी सन् ६४ से ६८ तक पू० स्वामीजी का पुनः साक्षात् सान्निध्य भले ही प्राप्त नहीं हो सका, तो भी उनके प्रवचनादि साहित्य अनुशीलन द्वारा मैं उनके व्यक्तित्व के काफी समीप पहुँचने लगा। अंतरंग से एक झनकार उठने लगी “साँची तो गंगा जा वीतराग वाणी”। इस संत की वाणी परमसत्य की उद्घाटक है। यह तो भव का अंत करने वाली वाणी है। आत्म हितकारी एवं शांतिदायिनी है। ऐसे संत का पुनः दर्शन एवं निरीक्षण करके जीवन सफल बनाना इस जीव का कर्त्तव्य है। अब उत्कण्ठा तीव्र से तीव्रतर होने लगी।

पुनर्दर्शन एवं सान्निध्य का सौभाग्य—एक कहावत प्रसिद्ध है कि “जहाँ वृद्ध इच्छा शक्ति हो, वहाँ रास्ता मिल ही जाता है।” इसी अनुसार सन् १९६८ के ग्रीष्मावकाश में मैं अपर्याप्त अर्थसाधन होने पर भी सोनगढ़ को रवाना हो गया अकेला ही। इतनी लम्बी यात्रा पर मैं अकेला प्रथमबार ही निकला था, अनेकों कठिनाईयों के उपरान्त मैं प्रातः ५-६ बजे सोनगढ़ (स्वर्णपुरी) में प्रवेश कर गया। ऐसा लगा उस नगरी का प्रातःकालीन शांत वातावरण, मानों ग्रीष्म की दोपहरी में दिवाकर किरणों से संतप्त मर्यान्वेषी पथिक वातानुकूलित “Air Conditioned Room” कमरे में पहुँच गया हो। सोनगढ़ के भव्यजिनालय एवं जिनायतनों की ध्वजाएँ लहरा लहरा कर संकेत करने लगी कि आओ चिरसंतप्त भव्यात्माओं, आओ! यहीं है स्वर्णपुरी, यह है वह सौभाग्यशाली नगरी जहाँ पूज्य श्री कानजी स्वामी ने अनवरत लहराने वाली वीतरागता की ध्वजा लहराई है। यहीं हैं वे जिनालय जहाँ साक्षात् विद्यमान तीर्थंकर सीमंधर देव के तदाकार निर्दोष जिर्नावध का तथा समवधारण का

दर्शन कर बच्चों के कण्ठों से यह भावाव्यञ्जित हो उठती है "भय में सफल जन्म-नेत्रे च विवले-कृते।" यही है वह पवित्र तीर्थधाम जहाँ आत्महितकारी, अमृतमयी वाणी का अमल स्रोत बहता रहता है।

अग्नि अनुभूति—मैंने सर्वप्रथम जिनालय में प्रथमवार सीमंघर जिनविभ के तथा समबन्धरणादि के दर्शन किए। मेरे ठहरने आदि की सारी व्यवस्था कर दी गई। मेरे निकट संबंधी भाई श्री हेमचन्द्र जी से तुरंत ही मुझे आगामी समय-सारिणी का ज्ञान हुआ। मानों वहाँ पहुँचते ही मैं किसी महात्म आत्महितकारी यज्ञ में निमग्न हो गया। प्रतिदिन ४ बजे प्रातः काल से रात्रि ११-१२ बजे तक अभ्यास के भूढ़ रहस्यों का खुलासा एवं अमृतवाणी के सप्तमंगनयतरंगयुक्त श्रवणों में निरन्तर स्नान से मानों प्रनादि कालीन आत्मा का अमृहीत मिथ्यात्व मल धुलने लगा। मंगलाचरण के ये शब्द "प्रज्ञालित सकलभूतलमलकलंका" अब अनुभव में आने लगे। आत्मा का जो कि निरन्तर निर्मल निर्विकारी, शांत ज्ञानानंदमय स्वरूप है ऐसा आत्मतत्त्व के परिचय करने में तल्लीन हो गया। यथासमय दिन में २-३ बार भोजनादि के प्रभु विकल्पों के सिवा, शेष समस्त समय में मात्र बुद्धिपूर्वक तत्त्वाम्यास के अध्ययन, मनन एवं चिंतन रूप सातिशय शुभ विकल्प ही बना रहता था। यह भी विस्मरण हो गया कि मेरे कोई संबंधी भी हैं मेरा कोई घर, नगर आदि है, जिसे मैं छोड़कर आया हूँ, मुझे कई समस्याएँ सुलझाना थी, मैं किसी को पत्र तो लिख दूँ। तत्त्वचर्चा में ऐसी तल्लीनता कि यह तक भूल गये कि आज दिन कौन-सा है, दिनांक क्या है इत्यादि। ऐसा भी कोई वातावरण मिलेगा इस दुनियाँ में अन्यत्र, अंतरंग कहता है कभी नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ एक मात्र सोनगढ़ को छोड़कर। सोनगढ़ का शासत्रांश ही भलग है जिसका नाम है, "आत्मानुशासन।" जहाँ दो प्रकार के शासन हैं एक तो व्यवहार से संत श्री कानजी स्वामी तथा दूसरे निश्चय से प्रत्येक आत्मा स्वयं शासक हैं स्वयं के आत्मानुशासन तंत्र का।

इक्कीस दिवसीय दीर्घकाल खण्ड व्यतीत हो गया, किंतु पता नहीं चला। द्वितीय इक्कीस दिवसीय कालखण्ड प्रारम्भ हुआ, समस्त विकल्प आकर्षित हुए, इस समय भी, पूर्ववत् ज्ञानामृत के रसास्वादन के लिए। यह सत्य ही है कि अभ्यास का रस जिस अभ्यास को लग जावे, उसे ४२ दिन क्या? ३३ सागर का काल व्यतीत होने पर भी पता नहीं चलता, ऐसा अनुभव चर्चा के रस में निमग्न हो जाता है। आगम में एक चौथे काल का उल्लेख भी है। लगता है मानों वह काल यही है, यही है। परन्तु चौथा काल तो इस समय विदेहक्षेत्र में वर्तमान है भरत क्षेत्र में नहीं, तब अंत-में इसका समाधान हो जाता है कि बहिर्दृष्टि से भरतक्षेत्र नजर आता है, अंतदृष्टि से तो मैं सदा काल विदेहक्षेत्र (अर्थात्, देहरहित चैतन्य अत्यप्रदेश क्षेत्र) का निवासी हूँ।

कथार्थ में चैतन्यभ्राता आत्मा का विवेकहीन है, स्वप्नेय है, शेष सभी भरतक्षेत्र या विवेक-क्षेत्र भी परक्षेत्र हैं। वहाँ पुनः विकल्प पैदा होना कि आप अपने आत्मा का परिचय दे रहे हैं या पू० श्री कानजी स्वामी का ? तो उत्तर होगा कि यही हैं पूज्य स्वामीजी का परिचय। उनके परिचय में ही तो यह सारा परिचय का प्रसंग बन रहा है। इसके पूर्व तो मैं अपना परिचय कभी इस प्रकार देता ही न था। मैं स्वयं को जानता ही न था, अतः इस परिचय में ही उस संत पू० श्री कानजी स्वामी का परिचय है। पू० स्वामी जी का काम भी यही है "निजपरिचय कराना।" जिस निज का परिचय वे कराते हैं, वह निज (आत्मा) तो द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकर्म से रहित है, ऐसे निज परिचय में आधिभ्याधि एवं उपाधियों का अंत होकर समाधि प्रगटती है। ऐसी समाधि निज व पर में प्रगटाने वाले हैं पू० स्वामी जी।

एक अनुभव—संसार के उपाधिधारी पंडितमन्यों की रीति निराली है। वे अपनी श्रद्धा, अपने विवेक, लेखनी एवं कथनी में कब कैसा मोड़ दे दें, कोई ठिकाना नहीं। परन्तु पू० स्वामी जी जब से वीतराग वाणी के रहस्य को समझे, तभी से यथावत् प्रकृष्ण रूप से निरूपणादि करते रहे हैं, उनका तो उद्घोष है कि "एक हीय त्रय काल में, परमारथ को पंथ" तथा "आत्मभांति सम रोग नहीं सदगुरु बंध सुजान।

वे वीतरागता के प्रबल पोषक हैं, इसलिए वे कहते हैं—

"बचनामृत वीतराग के परमशांति को मूल।"

औषधि हैं भवरोग की, कायर को प्रतिकूल।

अंत में—अधिक कथन से क्या ? मेरा स्वयं का जीवन इस संत के संपर्कमात्र से पूर्णत बदल गया। जहाँ उनके परिचय से पूर्व मुझमें नाममात्र का जैतत्व भी न था। भव्य अभव्य का विवेक न था, भालू, प्याज, भटा आदि अर्नंतकार्यों का भक्षण तथा अन्य अनेकों त्रुटियों के रहते हुए भी जैनी नामधारण करता था, जो कि नाम-धारी रूप मात्र था, पश्चात् उपर्युक्त समस्त अतर्गल प्रवृत्तियों का शोधन एवं आत्म-शोधन का अपूर्व चिंतामणि सदृश मार्ग पूज्य स्वामीजी के ही सालिन्ध्य से मुझे प्राप्त हुआ। इस महान् संत की महती अनुकम्पा से मुझ जैसे लाखों आत्माओं ने आध्यात्मिक जीवन पाया है। लाखों की संख्या में प्रमाणिक जिनायम ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। सैकड़ों भव्य विशाल जिन मंदिरों का निर्माण एवं हजारों जिनदिवों की वैभव-पूर्ण प्रतिष्ठायें हुईं। जहाँ गतानुगतिक समाज कोरे क्रियाकाण्ड एवं पाण्ड की ओर उन्मुख हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर इस संत ने सर्वत्र ज्ञानमयी चेतना से समस्त धर्मकार्यों को अनुप्रणित किया है। ऐसे युगनिर्माण संत का विस्मरण कृतज्ञजन कभी

नहीं कर सकते। मैं स्वयं हरिवंश पुराण के निर्म्मांकित शब्दों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।

पाप रूपे निमज्जेन्मो, धर्महस्तावजम्बवम् ।

ववसा कः समोलोके संसारोत्सारवं भृषाम् ॥ १५५ ॥

अक्षरस्थापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा,

वानरं विस्मरत् पापी किं पुनः धर्मं वेक्षितम् ॥ १५६ ॥

(हरिवंश पुराण—सर्ग २१/ श्लोक १५५-१५६/

अर्थात्—“पाप रूपी कृप में डूबे हुए जीवों को जो मनुष्य धर्मरूपी हाथ का सहारा देने वाला है, लोक में उसके समान कौन उपकारी है (अर्थात् कोई नहीं।)”

एक अक्षर का अथवा आधे पद का, अथवा एक पद (का ज्ञान) प्रदान करने वाले को भूल जाने वाला मनुष्य जब पापी कहलाता है, तब कल्याणकारी धर्म के उपदेश देने वाले को भूल जाने वाले को क्या कहना ? उसे तो महापापी समझो।”

अंतः “चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मैश्री गुरुवे नमः।” अंत में पूज्य संत श्री कानजी स्वामी के प्रति अनंत अनंत उपकारों के कृतज्ञाता का भार स्वीकार करता हुआ, उनके प्रति नम्रीभूत हूँ।

युग-क्रान्ता सन्त

राजेन्द्रकुमार जैन
सम्पादक—वीर

सौराष्ट्र के दो सन्तों ने अपने-अपने क्षेत्र में चरम सीमायें पार की हैं। पहले महारथा गांधी जी जिन्होंने सारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अहिंसा को पुनः प्रतिस्थापित किया एवं भारत को स्वतन्त्र कराया दूसरे सौराष्ट्र के पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जिन्होंने सारे देश में आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद कर वीतराग बाणी का घर-घर में प्रचार किया।

इस समय जबकि व्यक्ति लौकिक क्रियाकाण्ड को ही धर्म समझ बैठे हैं, पूज्य स्वामीजी द्वारा पिछले ४० वर्षों से भी अधिक समय से जनसाधारण में आध्यात्मिकता का संचार अपने आप में एक महान उपलब्धि है। आपके ही सद्प्रयत्नों से समयसार मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि शास्त्रों का घर-घर में पठन पाठन प्रारम्भ हुए।

कानजी स्वामी आज से २००० वर्ष पूर्व आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा उपदेशित धर्म को आज के युग में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सौराष्ट्र व गुजरात में जहाँ एक भी दिगम्बर जैन दिक्षापी नहीं देता था अब वहाँ लाखों दिगम्बर श्रावक बसते हैं।

वास्तव में कानजी स्वामी ने दिगम्बर जैन धर्म की महान् सेवा की है, मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र आदरांजलि समर्पित करता हूँ।

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन

★ 'युगल' एम० ए० साहित्य रत्न, कोटा

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी इस युग के एक महान् एवं असाधारण व्यक्तित्व हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर शय्य बुद्ध की तरह स्वयं सत्य का अनुसंधान किया एवं अपने प्रचंड पीरुप से जीवन में उसे आत्मसात् किया। इस जीवन में छुट्ट अन्तस्तत्त्व की देशना के लिए उन्हें किन्हीं गुरु का योग नहीं मिला फिर भी उन्होंने तत्व को पा लिया क्योंकि सद्गुरु की देशना को वे इस जीवन से पूर्व ही उपलब्ध कर चुके थे। पूर्व देशना से प्राप्त उनका तत्व ज्ञान इतना परिपूर्ण एवं परिमाजित था कि वह इस भवोत्तर तक भी उनके साथ रहा और उसी ने उन्हें आलोक दिया। उन्होंने तो आगम की नैमगिक पद्धति में तत्व को उपलब्ध कर ही लिया किन्तु मेरी कल्पना यह है कि इस युग में अंतस्वत्व के बोध के लिए यदि वे किसी को अपना गुरु स्वीकार कर भी लेते तो उन्हें, तत्व की उपलब्धि संभावित नहीं थी क्योंकि उस समय यह तत्व प्रायः अभाव ग्रस्त था। यहाँ तक कि जीवन के सहज क्रम में जो दीक्षा गुरु उन्हें मिले थे, तत्व की शोध एवं उपलब्धि के लिए उनका मोह भी उन्हें छोड़ना पड़ा।

सौराष्ट्र के उमराला ग्राम में जन्में उजमदा एवं मोती के ये लाल बाल्य से ही विरक्त चित थे और एक मात्र ज्ञान एवं वैराग्य के प्रकरण ही उन्हें पसन्द थे। अपनी उदात्त लोकोत्तर आर्काक्षाओं के समक्ष उन्हें कामिनी का माधुर्य परास्त नहीं कर सका। फलस्वरूप किसी भी मूल्य पर वे उसे जीवन में स्वीकार करने को सहमत नहीं हुए। अन्तर में भोगों से विरक्ती बढ़ती गई और अन्त में २४ वर्ष की अवस्था में वे स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये। दीक्षा के नियमानुसार घरबार, कुटुम्ब परिवार, धन सम्पत्ति सब छूट ही गये और दीक्षा के आचार का भी दृढ़ता से पालन होने लगा किन्तु शान्ति की भूख शान्त नहीं हुई। शोध की प्रेरणा प्रशान्त नहीं हुई और अन्तर्द्वन्द्व चलता ही रहा। अतः अधिक समय तक वह प्रतिबन्ध सहन न हो

सका और एक दिन (मं० १६६१) भस्त्र मर्ग की तरह उसे भी छोड़ दिया और तत्व की सत्ता में धूमते श्री कानजी स्वामी का स्वर्णपुरी (सोनगढ़) सहज ही विश्राम स्थल बन गया ।

श्री कानजी स्वामी के जीवन का यह स्थल सर्वाधिक सामिक, स्तुत्य, लोक मार्गल्य, एवं वरप्य है जहाँ उन्होंने जीवन के सबसे भयंकर शत्रु 'मताग्रह' को खुनी खुनीती दी एवं अन्त में विजयी हुए । जीवन में घरबार, कंचन कामिनी पद एवं प्रतिष्ठा सभी कुछ तो छूट जाते हैं किन्तु महान्श्रुति, मुनि एवं मनीषियों का बौद्धिक घरातल इस मनाग्रह के प्रचंड पाश से मुक्त नहीं हो पाता । फलस्वरूप दृष्टि निष्पक्ष नहीं हो पाती और असंख्य प्रयत्नों में भी सत्य आत्ममान् नहीं होता ।

श्री कानजी स्वामी इस युग के एक शुद्ध आध्यात्मिक क्रान्तिदृष्टा पुरुष हैं । उन्होंने जिम क्रान्ति का सूत्रपात किया ऐसी क्रान्ति पहिले शताब्दियों में भी नहीं हुई । जैन-लोक-जीवन की श्रवामें हृदी, अन्ध-विश्वास, पाखंड एवं कोरे कर्मकांड की कारा में घुट रही थी । इसके आगे धर्म कोई वस्तु ही नहीं रह गया था । इन महापुरुष ने शुद्ध जिनागम का मन्थन कर इन जीवन विरोधी तत्वों को अधर्म घोषित किया और इस निकृष्ट युग में शुद्ध आत्म धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की । उन्होंने जन जीवन को एक सूत्र दिया "स्वावलम्बन अर्थान् निज शुद्ध चैतन्य सत्ता का अवलम्बन ही धर्म है परा-वलम्बन में धर्म अथवा शान्ति घोषित करनी वाली सभी पद्धतियां अधर्म हैं । फल-स्वरूप विश्वमतीय नहीं है ।"

जिम समय भारत वसुधा पर पूज्य श्री कानजी स्वामी का अवतरण हुआ उस समय भी आध्यात्मिक चिंतन का गिवाज तो था किन्तु उस चिंतन में आध्यात्म नहीं था । आध्यात्मिक चिंतन का यह स्वरूप टो चला था कि आत्मा को कहा तो शुद्ध जाता था किन्तु वास्तव में माना अशुद्ध जाता था अथवा यदि शुद्ध माना भी जाता था तो आगम भाषा के दासत्व के कारण शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध माना जाता था और व्यवहार नय में अशुद्ध । इस तरह श्रद्धा के लिए कोई घरती ही नहीं थी और दो नय की चक्की में घून की तरह घिस कर आत्मा की मट्टी पलीत हो रही थी । बड़े बड़े विचारक, महान् ने महान् प्रतिभाये, त्याग और वीराग्य के आदर्शनय की इस चक्रीयता में इस तरह मुग्ध थे कि न तो उसमें से निकलने का उनका मन था और न सामने कोई रास्ता । सोराष्ट्र के उस मंत ने जंगलों के निर्जनों में समयसार एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे परमागमों का गम्भीर अवगाहन कर इस आध्यात्मिक समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया ।

उन्होंने कहा "विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वयं मिद्ध अनन्त शक्तिमय एवं पूर्ण हैं वे एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में ही रहते हैं और एक

दूसरे का स्पर्श तक नहीं करते। अतः सभी जड़ चेतन सत्तायें निरन्तर शुद्ध हैं। आत्मा भी एक ऐसी ही स्वयं सिद्ध निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य सत्ता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य, ध्यान आदि उसकी असाधारण शक्तियाँ अथवा स्वभाव हैं जो प्राकृत उसी में रहते हैं। वह अपने में परिपूर्ण एवं अन्य से भिन्न एक स्वतन्त्र, पवित्र सत् है क्योंकि जो सत्ता अथवा सत्ता है वह पूर्ण एवं पवित्र होना ही चाहिए अन्यथा वह सत् कैसा? जो जड़ है यह पूरा जड़ हो एवं चेतन पूरा चेतन, अपूर्ण जड़ अथवा अथवा अपूर्ण चेतन का स्वरूप भी क्या हो? अतः पूर्णत्व एवं एकत्व सत् का स्वरूप ही है। विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन का यह एक मार्मिक अनुसंधान है अपने अनुसंधान में उसने कहा कि वस्तु का एकत्व ही उसका परम सौन्दर्य है सम्बन्ध की वार्ता विसंबाद है।”

“आत्मा का ऐसा परिशुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाने पर आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान (मानने- जानने वाली पर्याय) वृत्ति का केवल एक ही काम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने एवं ऐसा ही अनुभव करे। किन्तु आत्मा की इस वृत्ति में सदा से ही यह अज्ञान एवं अविश्वास रहा कि उसने आत्मा को शुद्ध एवं पूर्ण माना ही नहीं बरन अपनी पड़ोसी देहादि सत्ताओं में ही मुग्ध रही। उन्हीं में अहं किया एवं उन्हीं में लीनता। पर सत्ताओं में अहं की यह वृत्ति महान् व्याभिचारिणी है क्योंकि उसमें विश्व की अन्नत सत्ताओं को अपने अधिकार में लेकर उसमें रमण करने की चेष्टा है। अतः विश्व की स्वतन्त्र एवं सुन्दर व्यवस्था को समाप्त कर देने की यह हरकत विश्व का सर्व महान् अपराध हुआ और उसकी दण्ड व्यवस्था में निगोद फलित हुआ।”

“परिशुद्ध काचन-तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लम्बा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा? इसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र तलाश करना एक दार्शनिक अपराध होगा क्योंकि भिन्न सत्ता के वस्तुओं में कारण कार्य भाव कभी भी छिटित नहीं होता। अतः इसका उत्तर स्वयं आत्मा ने सदा से श्वतः ही यह अज्ञान परिणाम किया और वह स्वयं ही अज्ञानी हुआ। जैसे एक लौकिक प्रश्न है कि महान् बलशाली पराक्रमी एवं अनुल वैभव सम्पन्न एक सम्राट की महारानी दरिद्री महावत पर मुग्ध क्यों हो गई? उसका कारण यदि हम महावत को माँते तो सम्राट तो उससे कहीं बहुत अधिक है फिर महावत का मोह कैसा? अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद हमारा अन्तिम समाधान यही होगा कि यह तो महारानी की अपनी स्वाधीन परिणती ही है। उसके मनोविकार का कारण दूसरा कोई भी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का अज्ञान भी अत्यन्त पर निरपेक्ष है। कथन में कर्मोदय आदि की सापेक्षता आ जाती है किन्तु भाव तो निरपेक्ष ही रहता है क्योंकि यदि कोई दूसरा आत्मा को अज्ञानी बनावे तो कोई ज्ञानी भी बना सकेगा और पुनः कोई अज्ञानी बना देगा। अज्ञानी बना इस

प्रकार आत्मा किसी के हाथ की कठपुतली मात्र रह जावेगा और उसके बन्ध मोक्ष के सभी अधिकार छिन जावेंगे। और यह तो एक मखौल ही होगा। फिर एक प्रश्न है कि तो फिर इतने लम्बे एवं जटिल अज्ञान का अन्त कैसे हो ? तो यह प्रश्न स्वयं ही अपना उत्तर है। "अज्ञान का अन्त कैसे हो" ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणान्तक है क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समर्थ विचार होता ही नहीं।

"अनादि अज्ञान के प्रवाह में शुद्धात्मानुभूति सम्पन्न किन्ही ज्ञानी सत् पुरुष का सुयोग मिलने पर जो महान् उद्यमशील आत्मा उनकी कल्याणी वाणी को हृदयंगम करता है। उसका अनादि का अज्ञान क्षिणित होकर इस समर्थ विचार में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी गुरु के सुयोग एवं उनकी वाणी मात्र से यह नहीं होता बरन गुरु की वाणी का भर्म जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है उसे वह विशुद्ध चित्तन धारा प्रारम्भ होती है। एक प्रश्न हमारा और हो सकता है कि अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है कि वह यह सब कैसे करता होगा ? तो ऐसा नहीं है उसके पास ज्ञान का अभाव है। अज्ञानी के पास ज्ञान तो बहुत है किन्तु परसत्ता शक्ति के कारण उसके ज्ञान कासूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है। किन्तु यही ज्ञान सदगुरु भगवन्त से आनन्द निकेतन स्व सत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके सम्यक् ज्ञान में परिणत हो जाता है और अतिन्द्रिय आनन्द का संवेदन करता है।

अज्ञानी के ज्ञान का यह ईहात्मक प्रश्न कि 'अज्ञान का अन्त कैसे हो' अज्ञान को एक खुली चुनौती है। इस प्रश्न में अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप विदित हो चुका है अब वह समझने लगा है कि मेरी चैतन्य सत्ता को अनादि अनंत, पूर्ण ध्रुव अक्षयानन्द एवं सर्व सम्बन्ध विहीन है और मेरी ही वृत्ति ने उसे नश्वर, अपूर्ण, दुखी, अज्ञानी एवं पराधीन कल्पित किया है। यही मेरा अज्ञान था और अज्ञान आत्मा की पर्याय होने पर भी झूठा होने कभी भी अनुशीलन के योग्य अर्थात् श्रद्धेय नहीं है क्योंकि अज्ञान के अनुशीलन में कभी भी सही आत्म सत्ता की उपलब्धि नहीं हो सकती। अज्ञान के सदृश समस्त ही पर्याय वर्ग श्रद्धेय की कोटि में नहीं जाता। इस अज्ञान को वह स्वसत्ता विरोधी एवं नितान्त मिथ्या मानकर अज्ञान एवं अज्ञान से प्रादुर्भूत परमत्ताबलम्बी पुण्य एवं पाप की वृत्तियां एवं अन्त पर सत्ताओं से एकत्व तोड़ता हुआ एवं समर्थ भेदज्ञान के बल से स्व सत्ता में ही एकत्व एवं अहं की स्थापना करता हुआ अपने अचिराम चिन्तन द्वारा जब महामहिम आनन्द निकेतन निज चैतन्य सत्ता में ही अलख जागता है तो सदा से पुण्य पाप जैसी पर सत्ताओं में पड़ा अपनी श्रद्धा का अहं कपित एवं विडोहित होकर स्वलन को प्राप्त हो जाता है और लौट कर अपनी ध्रुव अक्षय सत्ता में ही अहंशील होता है। स्वरूप के अहं में धारावाहिक सक्रिय

इस गौरवमय वृत्ति को ही सम्यक् दर्शन कहते हैं। श्रद्धा का स्व सत्ता में अहं परिचित होने के ही क्षण में श्रुत ज्ञान की अचिरान चिन्तन द्वारा मन का अवलम्बन तोड़ती हुई विराम को प्राप्त होकर उसी शुद्ध चैतन्य सत्ता में एकत्व करती हुई अतीन्द्रिय आनन्द का संवेदन करती है। उपयोग की यह परिणति ही सम्यक् ज्ञान है जो अनुभूति का विलय हो जाने के उपरास्त भी भेद विज्ञान की प्रचंड क्षमता को लेकर सम्यक् दर्शन के साथ निरन्तर बना रहता है और उसी समय किंचित रागशों के अभाव से उत्पन्न अल्प स्वरूप स्थिरता ही स्वरूपाचरण चारित्र्य है। इसी प्रकार परम आनन्द स्वरूप यह अनुभूति श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य की त्रिवेणी है और साक्षात् मोक्ष मार्ग है।”

जैन दर्शन का यह चिन्तन सचमुच कितना वैज्ञानिक है कि जहाँ यह यह प्रतिपादन करता है कि जीवन कला का आरम्भ ही जीवन तत्त्व (निज अक्षय सत्ता) के स्वीकार में होता है। इसीलिए साधना के प्रथम चरण में उसने सम्यक् दर्शन को स्थापित किया और कहा कि इसके बिना सर्वबोध एवं जीवन की सर्व आचारसंहिता मिथ्या ही होती है।

“सम्यक् दर्शन जैसी जीवन की महान् उपलब्धि एवं उसके विषय को हृदय-गम करने के लिए यदि हम आत्म पदार्थ स्वरूप पर अनेकांतिक दृष्टि से विचार करें तो निर्णय बड़ा सरल हो जावेगा। यह निर्विवाद है कि आत्म पदार्थ के दो अंश है—द्रव्य एवं पर्याय। आत्म पदार्थ का द्रव्य अंश जिसे शुद्ध चैतन्य सत्ता, कारण परमात्मा, परम पारणामिक भाव भी कहते हैं सदा पर से भिन्न, अक्षय, अनन्त शक्तिमय पूर्ण, ध्रुव, अत्यन्त शुद्ध एवं पूर्ण निरपेक्ष है। उसमें कुछ भी करने का कभी अवकाश नहीं है और वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा के द्रव्यांश का यह स्वरूप प्रसिद्ध हो जाने पर अब उसका दूसरा अंश पर्याय शेष रह जाती है। यदि हम पर्याय की कार्य मर्यादा पर विचार करें तो हमारे मन में स्वाभाविक ही एक प्रश्न पैदा होगा कि द्रव्य के पूर्ण एवं शुद्ध सिद्ध हो जाने पर पर्याय को तो द्रव्य में कुछ करना ही नहीं रहा तब फिर पर्याय का कार्य क्या होगा? तो उसका एक यह सरल उत्तर है कि पर्याय का कार्य नित्य विद्यमान द्रव्य का दर्शन; उसी का अहम् उसी की अनुभूति, एवं उसी की लीनता करना रहा और पर्याय का स्वरूप भी आलम्बनशीलता ही है। वह द्रव्य की रचना नहीं करती, द्रव्य में कोई अतिशय नहीं लाती वरन् द्रव्य जैसा है वैसी ही उसकी प्रतीति एवं अनुभूति करती है। द्रव्य तो ज्ञान एवं अज्ञान दोनों दशाओं में ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार अनेकांतिक पद्धति में आत्म पदार्थ के दो अंश द्रव्य एवं पर्याय की स्वरूप सीमा भी स्थिर हो जाती है और आत्म पदार्थ दो अंशों में खण्डित न होकर द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा बना रहता है।

आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप होने पर भी द्रव्य पर्याय का स्वरूप परस्पर विरुद्ध होने के कारण श्रद्धा का अहम् एक ही साथ दोनों में नहीं हो सकता जैसे एक स्त्री का अहम् एक ही साथ स्व एवं पर दो पुरुषों में नहीं हो सकता। नित्य द्रव्य के अहम् में "मै अक्षय हूँ" ऐसी अनुभूति होती है और अनित्य पर्याय के अहम् में "मैं क्षणिक हूँ" ऐसा संवेदन होता है। पर्याय का स्वरूप भी विविधरूप है। वह क्षणिक है, आलम्बनवती है, वर्तमान में विकारी है, भूत एवं भविष्य का त्रयी समुदाय वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है एवं समग्र ही वृत्ति समुदाय गमनशील है। उसमें विश्राम नहीं है। पथिक को गमन में नहीं, गन्तव्य में विश्राम मिलता है क्योंकि गन्तव्य ध्रुव एवं विश्राम स्वरूप होता है। इसी प्रकार आत्म वृत्ति को वृत्ति में नहीं ध्रुव में ही विश्राम मिलता है। वृत्तियाँ तो स्वयं ही विश्राम के लिए किसी सत्ता को तपासती हैं। इस प्रकार समग्र ही वृत्ति समुदाय दृष्टि (श्रद्धा) के विषय क्षेत्र से बाहर रह जाता है। इसी अर्थ में आचार्य देव श्री अमृतचन्द्र ने कहा है कि बद्धस्पृष्टादि भाव आत्मा के ऊपर ही उपर तैरते हैं उनका आत्मा में प्रवेश नहीं होता।

इस सम्बन्ध में कुछ और भी तथ्य विचारणीय है। आत्मा एक अनादि अनन्त ध्रुव एवं अक्षय सत्ता है। गुण एवं पर्याय तो उसके लघु अंश है और वह एक ही सदा इनको पीकर बँठा है। अतः गुण पर्याय के अनन्त सत्त्वों से भी वह एक चिन्मय सत्ता बहुत अधिक है। पर्याय जब उस अनन्तात्मक एक का अहम् एवं अनुभव करती है तो उस एक की अनुभूति में अनन्त ही गुणों का स्वाद समाहित हो जाता है। इसके स्थान पर एक एक गुण पर्याय की अनुभूति को चेष्टा स्वयं ही वस्तु स्थिति के विरुद्ध होने से प्रतिक्षण आकुलता ही उत्पन्न करती है क्योंकि वस्तु के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त गुणों की समष्टि इस तरह संगठित एवं एकमेक होकर रहती है कि उनमें से किसी के अनुभव का आग्रह अनन्त काल में भी साकार नहीं होता वरन् अज्ञानी अपनी इस चेष्टा में प्रतिक्षण विफल प्रयास होने से निरन्तर प्रचण्ड आकुलता को उपलब्ध करता रहता है। गुण पर्याय के अहम् में अनन्त गुण पर्याय की एक छत्र स्वामिनी भगवति चैतन्य सत्ता का महान् अपमान भी होता है। अतः गुण पर्याय का अहम् भी जड़ सत्ताओं के अहम् के समान मिथ्यादर्शन ही है।

आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय एक ही समय में ज्ञान के विषय बनते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको अहम् भी एक ही साथ समान रूप से समर्पित किया जाये। अनेक को एक साथ जानना एक बात है और फिर उनमें से श्रद्धा (अज्ञा) के विषय का चयन करना त्रिकुल भिन्न दो बात है। सभी श्रेय श्रद्धेय नहीं होते वरन् आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय मय परस्पर विरुद्ध स्वरूप को जानकर ज्ञान ही यह निर्णय लेता है कि ये तीनों समान रूप से उपादेय नहीं हो सकते वरन् तीनों में मात्र निर-

पक्ष निरभेद एवं निरविशेष द्रव्य सामान्य ही उपादेय अथवा श्रद्धेय होने योग्य है । अन्य की उपादेयता स्पष्ट मिथ्या दर्शन है ।

एक बात यह भी बहुलता से चलती है कि जब एकान्त पर्याय दृष्टि अर्थात् पर्याय का अहम् मिथ्या एवं आकुलता स्वरूप है तो एकान्त दृव्यदृष्टि भी मिथ्या एवं आकुलतामय होना चाहिए । यह तर्क ठीक ऐसा ही लगता है कि गर्त में गिरना यदि एकान्त कष्टमय है तो सयन का निवास भी एकान्त कष्टप्रद ही होना चाहिए किन्तु यह तर्क तो स्पष्ट अनुभूति के विरुद्ध है । जब समग्र ही पर्याय समुदाय अज्ञान राग द्वेष एवं अनित्यता का आयतन है और इसके समानान्तर एक मात्र निज चैतन्य सत्ता ही शुद्ध पूर्ण, ध्रुव एवं आनन्द निकेतन है तो दोनों में से किस का अहम् एवं किसका अवलम्बन श्रेयसकर होगा ? एक बात और है और वह यह कि ज्ञान सदा अनेकांतिक ही होता है और दृष्टि सदा ऐकांतिक ही होती है । द्रव्य एवं पर्याय के परस्पर विरुद्ध दोनों पहलुओं का परिज्ञान हो जाने पर सहज ही यह निगंय हो जाता है कि वृत्ति (दृष्टि) को दोनों में से कहां आराम मिलेगा । “निश्चित रूप ध्रुव द्रव्य ही शाश्वत आराममय है” इस प्रकार ध्रुव की महिमा ज्ञात हो जाने पर अनादि से वृत्ति समुदाय में पड़ा श्रद्धा का अहम् विगलित होकर निज ध्रुव सत्ता के अहम् में परिणित हो जाता है ।

श्रद्धा का विषय इतना स्पष्ट होने पर भी प्रमाणाभास से ग्रासीभूत कुछ ऐसे आग्रह हैं जिन्हें श्रद्धा के विषय में पर्याय शामिल किये बिना तृप्ति नहीं मिलती । किन्तु हमारा मंत्रुनित विशुद्ध चिन्तन स्वयं हमें यह समाधान देता है कि श्रद्धा के विषय क्षेत्र में पर्याय के भी परिष्करण का हमारा आग्रह अविवेक तो है ही साथ ही अत्यन्त अव्यवहारिक भी है । इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात सदा दृष्टव्य है—एक प्रश्न है कि श्रद्धा का श्रद्धेय पहले से ही विद्यमान एवं पूर्ण होता है या श्रद्धा के क्षण में स्वयं श्रद्धा श्रद्धेय के साथ मिलकर उसे पूरा करती है और तब वह उसका श्रद्धेय होता है ? यदि श्रद्धा श्रद्धेय को पूरा करती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्रद्धेय सदा ही अपूर्ण है और अपूर्ण श्रद्धेय में श्रद्धा का सर्व समर्पण एवं लीनता अनन्त काल में भी सम्भव नहीं है । इस प्रकार श्रद्धेय की अपूर्णता में श्रद्धा का स्वरूप सदैव संदिग्ध, प्राप्त एवं मलिन ही रहेगा और वह कभी भी सर्व समर्पण पूर्वव श्रद्धेय का चरण नहीं करेगी । एक बात और है—यह तो सर्व विदित है कि वर्तमान में अज्ञानी का पर्याय समुदाय विकारी है और स्व एवं पर, द्रव्य एवं पर्याय, विकार एवं निविकार आदि का तारिखक चिन्तन एवं विश्लेषण भी अज्ञान दशा से ही प्रारम्भ होता है । अज्ञानी को अपनी विशुद्ध चिन्तन धारा में जब यह पता लगता

है कि "मेरी सत्ता तो नितान्त शुद्ध एवं अक्षय है और मेरी ही वृत्ति उसे अशुद्ध एवं नश्वर घोषित करती रही" तो वृत्ति समुदाय में पड़ा उसका विश्वास स्थलित होकर शुद्ध चैतन्य सत्ता पर अपनी स्थापना कर लेता है। इस विश्वास में सदैव ही पर्याय के स्तर का निषेध प्रवर्तित होता है। इसी को पर्याय का हेयत्व कहते हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि दृष्टि में निषेध रूप भी कोई वृत्ति प्रवर्तित नहीं होती वरन् निरन्तर निज शुद्ध चैतन्य सत्ता में अह्म का प्रवर्तन ही पर्याय का निषेध अथवा हेयत्व कहा जाता है। फिर भी यदि हमारा पूर्वाग्रह विकारी एवं अनित्य समुदाय को परम निरविकार नित्य द्रव्य के साथ मिला कर अपने श्रद्धेय की रचना करेगा तो उस श्रद्धेय का क्या स्वरूप होगा इसकी कल्पना भी सम्भव नहीं है। सम्भवतः इस मिथ्या एवं विफल प्रयास में श्रद्धा एव श्रद्धेय का सम्पूर्ण सौन्दर्य ही नष्ट हो जावेगा। इसी प्रकार भावी निर्विकारी पर्याय समुदाय को द्रव्य में मिलाकर श्रद्धा करने का आग्रह भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन ही है क्योंकि भावी निरमल पर्यायों तो वर्तमान में विद्यमान ही नहीं हैं अतः उस अविद्यमान ही नहीं है अतः उस सत् को विद्यमान द्रव्य में मिलाने की विधि क्या होगी ? दूसरी वजनी बात यह है कि कोई भी पर्याय नित्य विद्यमान निरविकारी निज चैतन्य सत्ता के अवलम्बन पर शुद्ध होती है न कि शुद्ध पर्याय का अवलम्बन होता है।

इस मंदभ्रं में एक अत्यन्त सुन्दर मनोवैज्ञानिक तर्क भी हमें समाधान देगा कि जब इस अनन्त विश्व में एक मात्र निज शुद्ध चैतन्य सत्ता ही सम्पूर्ण एवं सर्वोत्तम होने से शरण्य है और इसके समानान्तर समग्र ही गुण पर्याय समुदाय एवं विश्व की जड़ सत्ताये हीन एवं भिन्न होने से शरण्य नहीं हो सकती तो सर्वोत्तम सत्ता का अवलम्बन न लेकर हीन एवं भिन्न के अग्रह एवं अवलम्बन में क्या कभी आनन्द की निष्पत्ति हो सकेगी ? निश्चिन ही नहीं होगी। फिर भी यदि पर्याय पक्ष का आग्रह प्रवर्तित होता है तो इससे बड़ी दुर्गति एवं दुराशय दूसरा क्या होगा।

शुद्ध चैतन्य सत्ता मिथ्या दर्शनादि विकारी पर्याय समुदाय से विकारी नहीं बनती वरन् इस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अदर्शन अर्थात् अविश्वास ही मिथ्यादर्शन की विकारी पर्याय है। इसी प्रकार वह चैतन्य सत्ता सम्यक् दर्शनादि शुद्ध पर्यायों के उत्पन्न होने पर शुद्ध नहीं होती वरन् उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन अर्थात् अहम् ही सम्यक् दर्शन की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार चैतन्य सत्ता की अकालिक शुद्धता एवं सर्व नय निरपेक्षता अत्यन्त निरापद है और सर्व ही अनित्य एवं विकारी पर्याय समुदाय उसकी ध्रुव परिधि के बाहर रह जाता है। यहाँ तक कि ध्रुव सत्ता के अहम् को सम्यक् दर्शन कहा तो जाता है किन्तु सम्यक् दर्शन में ध्रुव का अहम् नहीं

वरन् स्वयं ध्रुव है। इस प्रकार स्वयं सम्यक् दर्शन भी सम्यक् दर्शन की परिधि (ध्रुव) के बाहर रह जाता है और यद्यपि द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे आत्म पदार्थ में सम्यक् दर्शन का विषय पदार्थ का ध्रुव सामान्य द्रव्यांश ही होता है किन्तु वह अंश अपूर्ण नहीं स्वयं ही पूर्ण है और दृष्टि (श्रद्धा) उसमें अंश का नहीं वरन् पूर्ण का अनुभव करती हुई स्वयं पूर्ण है। इस प्रकार दोनों अंशों की पूर्णता ही वस्तु की पूर्णता है। ध्रुव को अंश मानकर श्रद्धा करना प्रकारान्तर से मिथ्या दर्शन ही है जैसे ग्यारह के अंक में एक के दोनों अंक अपने-अपने में पूर्ण है। इस प्रकार दोनों अंक अपूर्ण हो तो ग्यारह का पूर्णता ही उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि दो अपूर्ण स्वयं तो कभी पूरे होते ही नहीं किन्तु दोनों मिलकर भी किसी एक पूर्ण स्वरूप को निष्पन्न नहीं कर सकते। यह वस्तु स्वभाव की स्वयं सिद्ध बिलक्षणता ही है।

इस पद्धति में आत्मा को मात्र ध्रुव मानने से उसमें पर्याय का अभाव नहीं हो जाता वरन् ध्रुव एवं ध्रुव की श्रद्धा, पूर्ण एवं पूर्ण का अहम् इस प्रकार दोनों अंशों की निरपेक्ष पूर्णता में आत्म पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप पूर्ण ही बना रहता है। वास्तव में ध्रुव को अंश मानने वाली श्रद्धा में पूर्ण की प्रतीति ही नहीं होगी वरन् सदा ही ऐसा लगता रहेगा कि आत्मा में अभी कुछ कमी है। निश्चय ही श्रद्धा आदि वृत्तियों का कार्य ध्रुव आत्मा में कुछ करना नहीं वरन् उसे ध्रुव मानना मात्र होता है। "मैं ध्रुव हूँ" यही सम्यक् दर्शन का स्वर है। सम्यक् दर्शन की काया ध्रुव में ही निहित है उसमें सर्वत्र ध्रुव ही पसरा है। अनित्यता उसमें है ही नहीं। उसे विश्व में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का स्वीकार ही नहीं है। उसका विश्व ही ध्रुव है। यदि दृष्टि में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का भी स्वीकार हो तो दृष्टि का स्वभाव अहम् होने के कारण उसे अन्य सत्ता में अहम् हुए बिना नहीं रहेगा और यही अहम् मिथ्या दर्शन है। "मेरी सत्ता ध्रुव है" सम्यक्दर्शन को द्रव्य पर्याय का यह भेद भी बर्दाश्त नहीं है। उसे ज्ञान की तरह स्व पर का भेद करना नहीं आता उसे तो अहम् करना आता है। उसके लोक में कोई पर है ही नहीं। वह मिथ्या होती है तब भी उसे सब स्व ही दिखाई देता है तब सम्यक् होने पर तो उसकी परिधि में अन्य भावों का प्रवेश कैसे सम्भव है और तो और सम्यक् दर्शन के घर में स्वयं अपने रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसने अपना कोना-कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है।

मौराष्ट्र के सन्त ने भव के अन्त के लिए "ध्रुव" का यह मंगल सूत्र लोक को दिया। उन्होंने सम्यक्दर्शन के जिस स्वरूप का अनुसंधान किया वह इस युग का एक आश्चर्य है। सम्यक्दर्शन के इस सूक्ष्म एवं अदुभुत स्वरूप का इस युग को स्वप्न भी

नहीं था। वास्तव में श्री कानजी स्वामी इस युग में सम्यक् दर्शन के आविष्कर्ता हैं और यह भवान्तक सम्यक् दर्शन इस युग को उनका सबसे महान् वरदान है। इसके स्वरूप का बोध उनके बिना सम्भवित ही नहीं था। उन सत् पुरुष ने सम्यक् दर्शन के सम्बन्ध में प्रचलित सभी भ्रन्तियों को प्रक्षालित कर दिया। कोई कहते थे कि सच्चे देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा ही सम्यक् दर्शन है तो कोई सात तत्व की श्रद्धा किसी ने तो यहाँ तक कहने का दुस्ताहस किया कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक् दर्शन है। कहीं से आवाज आई कि सम्यक् दर्शन काल लब्धि आने पर अपने आप होता है उसके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं है और उत्पन्न हो जाने पर भी स्वयं को उसका पता नहीं चलता किन्तु उन महापुरुष ने रहस्योदघाटन किया कि इनमें से एक भी सम्यक् दर्शन नहीं है इन सबकी समग्रता में भी प्रचंड अन्तर पुरुषार्थ के बिना सम्यक् दर्शन नहीं होता। यह भी नितांत असत्य है कि सम्यक् दर्शन होने पर स्वयं को उसका पता नहीं चलना। सम्यक् दर्शन का उद्भव होने पर साधक को निज शुद्ध चैतन्य सत्ता की लीनता में अनीन्द्रिय आनन्द का प्रयत्न संवेदन होता है। आगम का अक्षर अक्षर इसका साक्षी है। उन सत्त ने सम्यक् दर्शन के इस निश्चय पक्ष का ही विवेचन नहीं किया वरन् उसके व्यावहारिक पक्ष का भी प्रबल समर्थन किया। उन्होंने कहा 'सम्यक् दृष्टि मिथ्यात्व, अन्याय एवं अभक्ष का सेवन नहीं करता।' उसका लोक जीवन बड़ा पवित्र होता है वह स्वप्न में भी अतत्त्व एवं असत्य का समर्थन नहीं करता। वही सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा उपासक होता है। जीवन में इस विशुद्धि के प्रादुर्भाव भाव के बिना सम्यक् दर्शन नहीं होता। उसका जन्म पवित्र मनोभूमि में ही होता है।

सम्यक् दर्शन की गरिमा को गाते गाते वे सन्त विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं "सम्यक् दर्शन जीवन की कोई महान् उपलब्धि है वह जीवन तत्त्व एवं जीवन कला है। उसके बिना जीवन मृत्यु का ही उपनाम है। ज्ञान में स्व पर का भेद ममझने की क्षमता होने पर सम्यक् दर्शन हर परिस्थिति में हो सकता है। सातवें नरक की भयंकरता अथवा स्वर्गों की सुषमा उसमें बाधक नहीं होती। कर्मकाण्ड के कठिन विधान उसकी उत्पत्ति में मदद नहीं करने उसे घर नहीं छोड़ना है देह का विमंजन नहीं करना है वरन् घर एवं देह में रहकर उनसे अहम् तोड़ना है। इसीलिए सम्यक् दर्शन सरल है। कठिन की कल्पना ही कठिनाई है। सम्यक् दर्शन अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति का दामत्त्व स्वीकार नहीं करना इसीलिए नरक एवं स्वर्ग के विषय वायु मण्डल में भी "मैं नारकी नहीं, मैं देव नहीं वरन् मैं तो अक्षय चैतन्य तत्त्व हूँ ऐसे अविराम संचेतन में उसका जन्म हो जाता है इसीलिए वह हर गति में

होता है।" इस युग में सम्यक् दर्शन श्री कानजी स्वामी की एक ऐसी शोध है जिसने मृत्यु की ओर बढ़ते युग के चरण जीवन की ओर लौटा दिये है। यह कहना अति-शयोक्ति न हीमा कि उस संत के सम्यक्दर्शन ने मृत्यु को ही मार कर विश्व से उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी है।

श्री कानजी स्वामी एवं चारित्र्य—सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् ज्ञान की तरह् पूज्य गुरु देव ने चारित्र्य का भी एक प्रान्जल स्वरूप प्रस्तुत किया। वे चारित्र्य के महान् उपासक हैं। चारित्र्यवन्त दिगम्बर सन्तों के अन्तर बाह्य स्वरूप का वर्णन करते करते वे अघाते नहीं हैं। सहस्रों बार उनके अन्त स्थल से यह उद्गार सहज ही निकल पड़ते हैं कि "ऐसे वन बिहारी नग्न दिगम्बर, वीतराग सन्तों के दर्शन हमें कब प्राप्त हो और वह अवसर कब आवें जब उस आनन्दमय नग्न दिगम्बर दशा की हमें उपलब्धि हो" कुन्द कुन्द एवं अमृतचन्द्र जैसे अनन्त भावलिगी सन्तों के चरणों में उनका मस्तक सदा नत रहता है। आनन्द में झूलते दिगम्बर सन्तों के हृदय के मर्म को आज वे ही महिचान पायें हैं। मुनित्व के बाह्य इति वृत्तों में मुनि का आत्मा खो गया था चारित्र्य को कठिन एवं कष्ट साध्य माना जाता था। चारित्र्य के उस महान् उपासक की वाणी के माध्यम से चारित्र्य का सही स्वरूप आज निखरा है। कोरे शुभ अनुष्ठानों की काली कारा में चारित्र्य जैसे जीवन तत्व को कैद करने के सभी प्रयत्न आज उस सन्त ने विफल कर दिये हैं। उन्होंने संखनाद फूँका 'चारित्र्य न तो घर बार आदि बाह्य संयोगों का वियोग मात्र है और न कर्मकाण्ड की छलामों। न कोरा नग्नत्व ही चारित्र्य है और न महाव्रत, समिति आदि का पराश्रित शुभाचार। उपसर्ग एवं परिग्रह श्लेष्मा भी चारित्र्य नहीं तो इन्द्रियों का दमन एवं भयंकर काय क्लेश भी नहीं वरन् स्वरूप में अन्तर्लीन आनन्द वृत्ति ही चारित्र्य है।"

श्री कानजी स्वामी ने चारित्र्य के अनिवार्य सहचर शुभाचार का भी जिसे व्यवहार चारित्र्य कहते हैं पूरा समर्थन किया "उन्होंने कहा शुभाचार जो मात्र मंद कषाय की ही पर्याय है उसे चारित्र्य मानना तो मिथ्या दर्शन है ही किन्तु वीतराग चारित्र्य के अनिवार्य सहचर शुभाचार का सत्व ही स्वीकार न करना भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन ही है।" मुनित्व की भूमिका में उग्र चारित्र्य के साथ रहने वाले शेष कषायांश इतने मंद हो जाते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति २८ भूलगुण रूप शुभाचार के रूप में ही होती है। अतएव श्री कानजी स्वामी कहते हैं कि यद्यपि नग्नता मुनित्व नहीं किन्तु मुनि नग्न ही होते हैं और अन्तरंग परिग्रह के अभाव के साथ उनके तिल नुश मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं होता। मुनि का स्वरूप जमाने के अनुसार नहीं बदलता वरन् उनका त्रैकालिक स्वरूप एक ही होता है। उन्होंने व्यवहार चारित्र्य का

बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण किया कि व्यवहार (शुभ भाव) कोई चारित्र नहीं है बल्कि वह तो अचारित्र भाव में चारित्र का आरोप मात्र है। क्योंकि अन्तरंग वीतराग चारित्र के साथ वह शुभ भाव भूमि नियम से होती है तथा उस शुभ भाव भूमि के प्रगट हुए बिना वीतराग चारित्र भी प्रकट नहीं होता। इसी अनुरोध से मन्द कषाय रूप उस अचारित्र भाव को भी चारित्र कहने की एक पद्धति है और इसी पद्धति को व्यवहार कहने है। किन्तु वस्तुतः चारित्र तो आनन्दमय वीतराग भाव ही है और वही मोक्ष मार्ग है। मन्द कषाय रूप व्यवहार चारित्र-चारित्र का विकार मात्र है। वह थोड़ा भी चारित्र नहीं है और सर्व ही बन्ध स्वरूप है।

सम्यक् दृष्टि को जीवन में सदा ही चारित्र के प्रादुर्भाव की उग्र भावना प्रवर्तित होती है उसे भले ही पुरुषार्थ की निर्बल गति के कारण चारित्र नहीं होता किन्तु वह कभी भी चारित्र की आनन्दमय वृत्ति के प्रति उदासीन एवं प्रमादी भी नहीं होता। अतः निश्चित ही उसे इस भव अथवा भवान्तर में चारित्र का उदय होता है। मोक्ष मार्ग की क्रमिक भूमिकाओं का उत्खनन करके जट्ट बाजी करने से चारित्र नहीं आता वरन् शुद्ध चैतन्य तत्व की उग्र भावना से ही जीवन में चारित्र का उदय होता है।

श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का तो विशद विवेचन श्री कानजी स्वामी की वाणी में हुआ ही है किन्तु साथ ही जैन दर्शन के आधार भूत सिद्धान्त निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान एवं आहूत दर्शन का प्राण अनेकांत आदि का जो अत्यन्त प्रामाणिक आगम सम्मत एवं सतर्क प्रतिपादन हुआ है कि वह चित्त को चकित कर देता है। सम्भवतः जैन दर्शन का आधार भूत कोई सिद्धान्त ऐसा नहीं है जिसमें उनके ज्ञान एवं वाणी का व्यवसाय नहीं हुआ हो। अध्यात्म का ऐसा सांगोपांग एवं व्यापक विवेचन तो शाताब्दियों में नहीं हुआ। चालीस वर्ष से अध्यात्म की बरसातें करती हुई उनकी प्रज्ञा ने अज्ञान की जड़ें हिला दी है। तीर्थंकरों एवं वीतराग सन्तों के हृदय का मर्म खोलकर उन्हीं इन्हीं तीर्थंकरों के युग तक पहुंचा दिया है। उनकी प्रज्ञा ने आगम के गम्भीर रहस्यों की धाह लेकर जो मर्म निकाले है वह इस युग का एक आश्चर्य सा लगता है। वाणी का यह कमाल कि चालीस वर्ष के धारावाहिक प्रवचनों में कहीं भी पूर्वा पर विरोध नहीं है। आत्म प्रसिद्धि, नय प्रज्ञापन एवं अध्यात्म संदेश जैसी साहित्यिक विधियां उनकी निर्मल एवं पौनी प्रतिभा के ऐसे प्रसव है जिन्हें देखकर आज के युग का बौद्धिक अहम उनके चरणों की घूल में घूसरित होकर गर्व का अनुभव करेगा। उनके प्रवचनों से कल्पनातीत आध्यात्मिक साहित्य का सर्जन हुआ है। शाश्वत शान्ति के विधि विधानों से भरे उनके आध्यात्मिक साहित्य ने भारतीय

साहित्य का शीघ्र विषय में ऊँचा किया है। वह साहित्य युग युग तक शान्ति के पिपासुओं को सच्ची शान्ति का दिशा निर्देशन करता रहेगा। उन्होंने जिस आध्यात्मिक क्रान्ति को जन्म दिया है उसने युग के प्राण जीव के मुँह से निकाल दिये हैं आज जन जन के श्वास प्रश्वास में अमरत्व का संचार होने लगा है। आज के अस्त-जन् जीवन को उनकी बाणी में सही राह एवं राहत मिली है। श्री कानजी स्वामी का युग भारतीय इतिहास एवं श्रमण सस्कृति का एक स्वर्ण युग होगा। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक बेजोड़ अध्याय जोड़ा है। वे उस क्रान्ति के उन्मायक महामानव हैं जिसका जन्म बाहर नहीं भीतर होता है। जिस क्रान्ति के उदय में आत्मा क्साप्ति का नहीं बरन मंगलमय शान्ति का संवेदन करता है। लक्ष लक्ष मानवों ने उनकी इस शान्ति बाहिनी क्रान्ति का समर्थन किया, है और उसके सत्य को परख कर उसमें दीक्षित हुए हैं। आज लोक का यह स्वर कि "यदि यह मुक्ति दूत नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती" लोक हृदय की सच्ची अभिव्यंजना है। निस्संदेह श्री कानजी स्वामी लोक मांगत्य की प्रतिष्ठा करने वाले एक लोक दृष्टा एवं लोक सृष्टा युग पुरुष हैं।

इन महापुरुष का अन्तरंग जैसा उज्ज्वल है बाह्य भी वैसा ही पवित्र है। उनकी अत्यन्त नियमित दिनचर्या सात्विक, एक रूप, एवं परिमित आहार आगम सम्मत, सत्य सम्भाषण, करुणा एवं सुकोमल हृदय उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अवयव हैं। ८७ वर्ष की अति वृद्ध अवस्था में भी उनकी दिनचर्या इतनी नियमित एवं संयमित है कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। "समय गोयम मा पमायए" की वीर वाणी उनके जीवन में अक्षरशः चरितार्थ हुई है। शुद्धात्म तत्व का अविराम चिन्तन एवं स्वाध्याय ही उनका जीवन है। जैन श्रावक के पवित्र आचार के प्रति वे सदैव सतर्क एवं सावधान हैं। उसका उल्लंघन उन्हें सहा नहीं है। उनके जीवन का प्रत्येक स्थल अनुकरणीय है। निश्चित ही वे इस जगत के वैभव हैं और युग उन्हें पाकर गौरवान्वित हुआ है।

वे युग पुरुष युगों युगों तक मुक्ति का संदेश प्रसारित करते हुए युग-युग जीवें यही आज के युग की एक मात्र कामना है।

मैं उन युग पुरुष की ८७ वीं जयन्ति के पुण्य पर्व पर अपनी अर्द्धा के अनन्त सुमन उनके चरणों में चढ़ाता हूँ।





युग पुरुष कानजी स्वामी का शत-शत अभिनन्दन ! हजारी लाल 'काका'



जिसने धर्म साधना ही में लगा दिया है अपना तन मन,
भारत भर में धूम-धूम कर दिया धर्म की नूतन जीवन ।
अडिग आज जो आराम धर्म पर निश्चय नय काले अबलम्बन,
हे युग पुरुष तुम्हें तन-मन से करता हूँ शत-शत अभिनन्दन ।

जिनके सतत प्रयत्नों से चल रही धर्म की चर्चा घर-घर,
जिसने जन जीवन में फूँका आराम धर्म का मंत्र मनोहर ।
समय सार के गणघर बन कर किया जिन्होंने पावन प्रवचन,
हे युग पुरुष तुम्हें तन मन से करता हूँ शत-शत अभिनन्दन ।

बीथा काल बर्तने लगता जहाँ आपने डाला बसेरा,
वह स्थल तीरथ बन जाता जहाँ आपने डाला डेरा ।
तुमसे धर्माभूत रस पीकर प्रमुदित हो जाता है जन-जन,
हे युग पुरुष तुम्हें तन मन से करता हूँ शत-शत अभिनन्दन ।

रुढ़िवाद में बहे जा रहे थे उन सब को सद्मार्ग बताया,
क्रियाकाण्ड में धर्म समझने वालों को जाकर समझाया ।
'काका' गंवा रहे क्यों नरभव कुछ तो इसकी कीमत आंकों,
अगर मोक्ष की है अभिलाषा तो अपने अंतर में झांको ।

भेद प्रभेद बता करके समझाया ये है सम्यक दर्शन,
हे युग पुरुष तुम्हें तन मन से करता हूँ शत-शत अभिनन्दन ।

अध्यात्मरसिक

स्वस्ति श्री कानजी स्वामी जी का सद्भाव पूर्ण

स्वागताह—प्रशस्त-विकल्प

[ब० भाषिक चन्द्र चंभरे, करिजा]

सोनगढ में परमागम-मंदिर को निमित्त करके जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ उस समय सम्मिलित विद्वत् परिषद के अधिवेशन में श्री दि० जैन तीर्थ सुरक्षा निधि की आवश्यकता स्पष्ट की गई। विद्वत् समाज की तो पूर्ण अनुकूलता थी ही। उपस्थित समाज भर ने इस योजना का सद्भावों से एक स्वर से स्वागत ही किया। भारत भर में प्राचीन काल से दि० जैन समाज की तीर्थ क्षेत्र रूप संपदा वैभव संपन्न रही है। उसकी पूर्णरूपेण विधिवत् अद्ययावत् (up to date) सुरक्षा-मुव्यवस्था और जीर्णोद्धार होने के लिए करोड़ों की आवश्यकता है और यह इस काल में समयोचित और सर्वोपरि सामयिक घटना हो सकती है। इस विषय को लेकर समाज में नवचैतन्य निर्माण हुआ है। समाज की ओर संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक पवित्रतम प्राणभूत घटना के विषय में भी योगायोग से कोई कोई भाई अन्यथा विकल्प करके गुणक दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से न देखते हुए कषायो का आविष्कार करने में न चूके। पक्षपात में पड़ जाने के कारण एक भाई ने महामहिम आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान् को भी कोसा। सूर्य के ऊपर थूकने जैसी हंसी की बात हुई। अस्तु।

तीर्थ सुरक्षा का कार्य विशाल व्यापक और महत्वपूर्ण है। वह मुसंगठित रूप से योजनाबद्ध सजगता से तत्परतापूर्ण स्वरूप से हो इसमें किसी को भी कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बई इस कार्य में संगतन है। उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का या सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का किसी को भी विकल्प नहीं था, न है। केवल सुरक्षा में समय पर आवश्यक सम्बल पहुंचाने मात्र उद्देश से यदि स्वतन्त्र रूप से भी 'सुरक्षा ट्रस्ट' होता है, उसमें भी

कहान-गुरुदेव विशेषांक

विकल्प का कोई कारण नहीं होना चाहिए। नये ट्रस्ट का दावरा और विचार धारा अत्यन्त स्पष्ट थी और तिथि १४/६/७४ की सोनगढ की सास मीटींग में पुनः अत्यन्त अत्यन्त स्पष्ट हुई। श्री पं० बाबू माई जी श्री, नेमीचंद जी पाटनी आदि भाइयों ने अपने वक्तव्य में ट्रस्ट का मूल उद्देश्य और सदाशय प्रामाणिकता से स्पष्ट किया, अनन्तर इसी समझ की भा० वि० जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मान्यवर सभापति श्री सेठ लाल शर्मा जी ने प्रस्तुतित सदाशय को हृदयगम करके उत्साह पूर्ण रूप से सहज भाव से प्राप्त होने वाले इस हार्दिक सहयोग का सहर्ष स्वागत ही किया और सफलता की मनोकामना प्रगट की।

इस ही अवसर पर स्वस्ति श्री आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी से ता० १६ को अध्यात्म प्रवक्ता श्रीमान् पं० बाबू माई के साथ स्वतंत्र रूप से भेंट होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रीमान् स्वामी जी को और विकल्पों में कोई रस विशेष नहीं परमार्थ की सहज स्वाभाविक रुचि है इस स्वभाव विशेष का परिचय था ही। इस लिए उनकी आध्यात्मिक विशिष्ट भाव समाधि में अपनी तरफ से अंतराय न हो, इस भावना से इसके पूर्व में कहने की तीव्र भावना होते हुए भी कुछ कहा नहीं था; परन्तु इस वक्त दिगम्बर जैन तीर्थ तीर्थनीधि और ट्रस्ट के विषय में आवश्यकता को लेकर मनोगत स्पष्ट किया। फलस्वरूप श्रीमान् स्वामी जी की ओर से जो भाव और भावनाएं व्यक्त हुई वह उनकी आध्यात्मिक गौरवता को लिए हुए ही थी। स्वामी जी ने कहा—

“अपनी ओर से किसी का द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए।
सत्त्वेषु यंत्रो सत्त्वभावनापूर्वक होगी चाहिए। फिर भी
दिगम्बर-जैन-तीर्थों की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए उचित
प्रबंध करना समाज का कर्त्तव्य होगा।”

विचार पूर्ण अभिप्राय में रस्ती भर भी द्वेष भावना का अंश नहीं था। समाज की ओर से जो असीम प्रमाद भाव या उपेक्षाभाव हो रहा उसके परिहार के लिए संपूर्ण समाज को सूत्र रूप से समुचित मार्ग दर्शन भी था। सम्यग्दर्शन के साथ यदि विकल्प हो तो धर्मागतियों के विषय में किस प्रकार के हो सकते हैं इसका वह सहज भाव से प्रगट हुआ एक स्वभाव सुन्दर सद्भाव परिपूर्ण हृदयग्राही मनोहर दर्शन था।

समाज में हर एक विषय को लेकर समय-समय पर इष्ट अनिष्ट रूप हृद से जयादह नुक्ताचोनी होती ही आई है। निष्पत्ति तो कुछ हुई नहीं। आशा करे कि इस विषय में यदि समाज चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, सजग होकर बिना विकल्प अच्छी मात्रा में ठोस कार्य कर सकता है। परमात्म प्रसाद से यह सब हो, ऐसी हार्दिक भावना है। □

शत शत वन्दन

—डा० कन्नपुर चन्द कासलीवाल

श्रेय कानजी स्वामी वर्तमान युग के महान् सत्पुरुष हैं। सद्गृहस्थ होते हुए भी समाज में उनका सम्मान किसी आचार्य व मुनि से कम नहीं है। तत्व ज्ञान का प्रचार करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है और उसमें आशातीत सफलता मिली है। गत ५० वर्षों से वे दिगम्बर समाज के आध्यात्मिक पक्ष को ऊंचा उठाने में व्यस्त हैं। आचार्य कुन्दकुन्द का समय सार उनका सर्वाधिक श्रद्धास्पद ग्रन्थ है जिसकी उन्हें प्रत्येक पंक्ति ही नहीं अपितु उसका प्रत्येक शब्द उनके रोम-रोम में समाया हुआ है। मुझे उन्हें दो बार सोनगढ़ में व चार बार जयपुर में नजदीकी से देखने का अवसर मिला और मैंने उन्हें अपने सपुत्र के प्रत्येक क्षण को तत्व चर्चा में व्यतीत करते हुए देखा। वे नियमित रूप से दिन में दो बार प्रवचन करते हैं। और उसमें आध्यात्मिकता का पाठ स्वयं पढ़ते हैं तथा श्रेताओं को पढ़ाते हैं। गम्भीर तत्व चर्चा करते हुए भी उन्हें हम प्रसन्न मुख पायेंगे, आत्मा की शक्ति का जब वे बरागुं करने लगते हैं तो अपने आपको भूल जाते हैं और ऐसे लगने लगता है कि जैसे वे आत्म गुराणों में उतर गये हों। प्रवचन करने की उनकी अपनी शैली है और उसी शैली में आज देश के पचासों विद्वान उनके सन्देश का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। देश में यह प्रथम अवसर है जबकि एक ही व्यक्ति के सद्प्रयत्नों एवं प्रेरणा से सारे देश में स्वाध्याय की परम्परा को प्रोत्साहन मिला हो।

पूज्य कानजी स्वामी का जन्म यद्यपि दिगम्बर मम्प्रदाय में नहीं हुआ लेकिन सारे देश में विशेषतः गुजरात में उन्होंने दिगम्बर धर्म का जिस विशाल पैमाने पर प्रचार किया, विशाल मन्दिरों का निर्माण कराने की प्रेरणा दी, पचासों पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों का आयोजन कराया और हजारों स्त्री पुरुषों को दिगम्बर धर्म में परिवर्तित किया यह उनके महान् व्यक्तित्व का परिचायक है। गत सैंकड़ों वर्षों में इस प्रकार का परिवर्तन सम्भवतः प्रथम बार हुआ है। स्वामी जी का केन्द्र सोनगढ़ है। और वह अध्यात्म प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। दिगम्बर जैन समाज में जितना साहित्य का प्रचार एवं स्वाध्याय के प्रति जन भावना उत्पन्न हुई है उन सब में स्वामी जी की प्रेरणा कार्य कर रही है। स्वामी जी साधु वेश में नहीं हैं लेकिन पूर्णतः साधु स्वभाव के हैं। आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य अमृत चन्द्र, पद्म नन्दि एवं महापंडित टोडर मल जी के वे सबसे अधिक प्रशंसक हैं और अपने प्रत्येक प्रवचन में इन महान् आत्माओं का स्मरण किए बिना नहीं रहते।

इन विद्वानों के ग्रन्थों की तो उनकी पंक्ति एवं वाक्य तक ऐसे के ऐसे याद हैं, जैसे मानो उन्होंने उन ग्रन्थों को पूर्ण आत्म सात कर लिए हों।

जैन धर्म के ऐसे महान् प्रचारक के चरणों में मेरा शततः वन्दन।

गुरु-कहान

एक सग्त का मानस,
कमी नहीं स्वीकार करेया,
रेखाओं में बन्धन ।
जितने जीवन भर सीखा है !
आत्म-वेह का भेद
जो कि संसार छूटाता,
जीवन में जीने को जीता,
किन्तु भाव में मुक्ति समाई ।
तबनि वेह का त्याग,
ज्ञानमय हो तो फिर—
संसार नहीं फिर-फिर आयेगा
यही ध्येय ध्याता ने ध्याया
अमर हो गया और रहेगा :—

‘गुरु कहान’

जो सब तप रहा यही तपस्या
स्वर्गपुरी उद्यान महकता और गुंजता
इसी भाव के अलख राग से
धिर गुंजन हो रहा निनादित
लाखों-लाखों के अन्तस में
आत्मा की आवाज गुंजती
कलयुग में सतयुग बर्खाती
इसीलिए गुरुदेव नमन है—
हे आत्मा के सन्त नमन है—
परमात्मा के हे लघुमन्त्र तुम्हें नमन है !!

❁ राजेन्द्र कुमार जैन, विदिशा (म. प्र.)

आध्यात्मिक क्रान्ति के

सूत्रधार :

श्री कानजी स्वामी



पं० रतन चन्द 'भारिल्ल', शास्त्री, न्यायतीर्थ, एम. ए., बी. एड, विधिशा (म. प्र.)

सोतगढ़ के सन्त युग पुरुष श्री कानजी स्वामी के अनुपम व्यक्तित्व ने धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में प्रायः सभी विशाल व्यक्तित्वों को प्रभावित किया है। ऐसा कोई भी नहीं बचा जो उनके व्यक्तित्व से अप्रभावित रहा हो। उन्होंने तत्वाज्ञान की ओर एक नया मोड़ दिया है जो युगों से विस्मृत था। वे वर्तमान आध्यात्मिक क्रान्ति के सृष्टा हैं। उनका अधिकांश जीवन धर्म भावना से प्रीत-प्रोत और आत्म-साधक के रूप में ही व्यतीत हुआ है एवं हो रहा है, अतः वे सच्चे धर्मों में सन्त व युग पुरुष हैं।

साधु, व्रती, विद्वान्, श्रीमान् और नेतागण सभी ने स्वामी जी के बारे में समय-समय पर अपने-अपने मनोभाव अभिव्यक्त किए हैं तथा उनके द्वारा हुए तत्व प्रचार, दिगम्बर जिन धर्म की प्रभावना, धर्मयतनों के नव-निर्माण के महान् कार्यों एवं आध्यात्मिक क्रान्ति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। यहां कुछ मनीषियों के विचार उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न है।

सर्वप्रथम, तपोनिधि चारित्र्य चक्रवर्ती १०८ आचार्य शान्ति सागर जी (दक्षिण) के हृदय में कानजी स्वामी के प्रति जो विचार थे वे उन्हीं के शब्दों में दृष्टव्य हैं—

एक बार कुछ व्यक्ति आचार्य श्री के पास जाकर बोले—

'महाराज ! समाज में कानजी स्वामी के आत्म धर्म ने गजह्वर मचाया है। उनकी समय सार की एकान्तिक प्रारूपणा से बड़ी गड़बड़ी होगी, व्यवहार धर्म का व सच्चे धर्म का लोप होगा'। इसलिए आप आवेश निकालें व उनकी प्ररूपणा धर्म

वात्य है, ऐसा जाहिर करें।” उक्त कथन सुनकर आचार्य श्री ने कहा—“अगर मेरे सामने प्रवचन के लिए समयसार रखा जाएगा तो मैं भी क्या और कोई भी क्या वही तो मुझे कहना पड़ेगा, पुण्य-पाप को हेय ही बताना होगा, यही समय सार की विशेषता है। अब रही बात व्यवहार की व्यवहार धर्म की जीवन में उपयोगिता कैसी है? यह बात कानजी स्वामी को पटाना होगी। उनका निषेध करने से क्या होगा? कानजी का निषेध करके क्या कुन्द-कुन्द का निषेध करना है?”

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष के निर्माता प्रशान्त मूर्ति तत्वरसिक श्री १०५ क्ष० जैनेन्द्र वर्धी के श्री कानजी स्वामी के प्रति उद्गार—“अत्यन्त परोक्ष उस तत्व का परिचय पाने के लिए जिन बाणी की शरण अथवा ज्ञानी जनों की संगति ही मात्र निमित्त कारण है। अत्यन्त दुर्लभ उस सार की प्राप्ति में निमित्त रूप से सहायक होने वाले उस ज्ञानी पुरुष के प्रति क्यों स्वाभाविक बहुमान स्वतः उत्पन्न न हो जायेगा। भले ही वह ज्ञानी पुरुष विशेष साक्षात् वीतरागी भगवान् अरहंत हों या वीतरागी दि० गुरु हो, या कोई श्रावक हों अथवा गृहस्थ हों, तत्व की प्राप्ति में निमित्तपने की अपेक्षा सब समान है। यद्यपि वैराग्य व चारित्र्य की भूमिकाओं की अपेक्षा उनमें आकाश-पाताल का अन्तर है। काठियावाड़ देशस्थ मोनगढ़ ग्राम के सुप्रसिद्ध अध्यात्म योगी कानजी स्वामी भी उन्हीं में से एक हैं। अध्यात्मक जगत के बासी, उनके अर्थात् श्री कानजी स्वामी के उस महत् उपकार का कदापि नहीं भुला सकते, जोकि उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा द्वारा भौतिक युग की अन्धकारमय जगती पर विलुप्त प्रायः हो जाने वाली अध्यात्म धारा को पुनः नवजीवन प्रदान किया है।”

इसी क्रम में प्रत्यक्षदर्शी, १०५ क्षुल्लक चिदानन्द जी महाराज के अनुभव निम्न प्रकार हैं—

“जब मैं पैदल यात्रा करता हुआ जैन बट्टी सूडबट्टी गिरनार की यात्रा के पश्चात् चिर अभिलाषित अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए चार्तुमास के समय मोनगढ़ पहुंचा और चार मास के स्थान पर १४ मास वहा रहा। वहां मैंने स्वामी जी की धर्म देगना श्रवण की और वहां का अपूर्वं ज्ञान वातावरण देखा तो जो आनन्द प्राया उसको मैं प्रगट करने में असमर्थ हूं। यही कारण है कि जो वहां का वातावरण एक बार अवलोकन कर लेता है, वह दूसरे वक्त जाये बिना नहीं रह सकता।”

१. आचार्य शान्तिसागर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ १५७

२. सम्मति मन्वेदा वर्ष ७, अंक ५, पृष्ठ २७

“जब स्वामी जी से निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान, कर्ता-कर्म, निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के विषय में सुना व १४ माह की अवधि में जी अनुभव किया तो जीवन की दिशा ही बदल गई। वहाँ रहने वाले मुमुक्षु निश्चयात्मक धर्म पर तो अटूट श्रद्धा रखते ही हैं क्योंकि वास्तव में धर्म तो वही है परन्तु साथ ही जिनेन्द्र पूजन, भक्ति, दान, स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति भी उनमें ही देखी जाती है। और यह सब स्वामी जी के निश्चय-व्यवहार की सन्धिपूर्वक उपदेश करने की शैली का प्रतीक है, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार होता है उसका निषेध कैसे हो सकता है। १

विद्वान् वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त महान् दार्शनिक विद्वान् स्व० पं० श्री चैनसुख दास जी न्यायतीर्थ जयपुर ने गुरुदेव के सम्बन्ध में लिखा है कि—

“इसमें कोई शक नहीं कि कानजी स्वामी के उदय से अनेक ग्रंथों में क्रान्ति उत्पन्न हुई है, पुराना पोपडम खत्म हो रहा है और लोगों को नई दिशा मिल रही है। यह मानना गलत है कि वे एकान्त निश्चय के पोषक हैं। हम सोनगढ़ में एवं सर्वत्र फैले हुए उनके अनुयायियों में निश्चय तथा व्यवहार का सन्तुलन देख रहे हैं। सौराष्ट्र में अनेकों नवीन मन्दिरों का निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठायें स्पष्ट बतलाती हैं कि वे व्यवहार का अपलाप नहीं करते। वे भगवान् कुन्द कुन्द के सच्चे अनुयायी हैं। जो उनकी आलोचना करते हैं वे आपे में नहीं हैं व उन्हीं ने न निश्चय को समझा, न व्यवहार को और सच तो यह है कि उन्होंने जैन शास्त्रों का हार्द ही नहीं समझा।

मोनगढ़ से जो धार्मिक साहित्य निकल रहा है उससे स्वाध्याय का बहुत प्रचार हुआ है। निमित्त और उपादान तथा क्रम बद्ध पर्याय आदि दार्शनिक चीजें हैं, विद्वानों के समझने की हैं। ऐसी चीजों की आन्दोलन का विषय बनाना समाज की शक्ति को क्षीण करना है। हमें प्रत्येक प्रसंग को निष्पक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। उनका प्रयत्न प्रशंसनीय है। २

संहितासूत्र पं० नाथलाल जी शास्त्री इन्दौर द्वारा स्वामी जी के बारे प्रगट किए गये उद्गार निम्न हैं—“इस अज्ञान्ति पूर्ण भौतिक वातावरण में आत्म धर्म एवं सदाचरण का प्रसार कर जिन शासन की प्रभावना करने वाले और अपने पुण्यशाली तेजस्वी व्यक्तित्व से अग्रणी व्यक्तियों के जीवन को बदल देने वाले

१. सन्मति सन्देश, वर्ष ७, अंक ५, पृष्ठ २७

२. सन्मति सन्देश, वर्ष ७, अंक ५, पृष्ठ २

महान् आध्यात्मिक सन्त आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस युग की अनुपम विभूति हैं—श्री कान जी स्वामी समस्त उपलब्ध साहित्य (शास्त्रों) का अध्ययन कर चुके हैं। श्री आचार्य समन्तभद्र स्वामी, जिनसेन स्वामी, अमृतचन्द्राचार्य, नेमी चन्द्राचार्य आदि के ग्रन्थों का भली-भाँति स्वध्याय करने से उनका राब विषय स्मृति में है, उनका स्मृतिमान विलक्षण है।

श्री कानजी स्वामी के जितने प्रवचन हुए उनका प्रकाशन हुआ है उन्हें माध्यस्थ भाव से देखने पर अविरोधता ही मिलती है। मैं लगभग १५ वर्ष से सोमगढ़ के सम्पर्क में हूँ, प्रारम्भ में मुझे भी स्वामी जी के प्रवचनों में विरोध का आभास हुआ.....परन्तु धीरे-धीरे जब विचार किया और शास्त्रवलोकन किया तो वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वर्तमान में अध्यात्म की ओर जनता का झुकाव और स्वाध्याय के प्रचार का श्रेय स्वामी जी को है।

श्री कानजी स्वामी हमारी अध्यात्म परम्परा को पुनर्जीवित करने वाले इस युग के महान् आध्यात्मिक सन्त हैं। स्वामी जी की शास्त्र अतिरूढ़ अनेकान्त वाली और पवित्र व्यक्तित्व का माध्यस्थ भाव से अधिकाधिक लाभ उठा कर मनुष्य भव को सफल बनावे।

जैन समाज के गौरव, लब्धप्रतिष्ठित व्रती विद्वान् पं० जगमोहन लाल जी शास्त्री कटनी ने स्वामी जी से प्रभावित होकर उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए लिखा है कि.....” जब से श्री कानजी स्वामी ने भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य के समय मार आदि अध्यात्म ग्रन्थों का परिशीलन कर जैन धर्म का यथार्थ मर्म समझा और अपने अनुयायी हजारों भाई-बहनों को समझाया तब से दि० जैन समाज की प्रगति में एक नया मोड़ आया है।”

स्वर्गीय पं० गोपाल दास जी बरैया के सतप्रयत्न से दि० जैन समाज में धर्म और न्याय के पठन-पाठन का प्रसार हुआ। श्री १०८ मुनि गरुड कीर्ति महाराज के प्रयत्न से संस्कृत व्याकरण, दर्शन, साहित्य के पठन-पाठन की रचि जागी इसी प्रकार इस युग में श्री कानजी स्वामी के निमित्त से दि० जैन समाज में अध्यात्म शास्त्रों के पठन-पाठन की ओर रचि हो रही है।

वर्तमान काल में धर्म की बात उसी धर्म के अनुयायियों के गले उतारना भी कठिनतर कार्य है फिर अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर पक्षपात रहित हो सत्य

१. सन्मति सन्देश, वर्ष ७, अंक ५, पृष्ठ ४६

२. सन्मति सन्देश, वर्ष ७, अंक ५, पृष्ठ २५

को स्वीकार करने की बात तो अत्यन्त कठिन है। श्री कानजी स्वामी ने इस विषय में जो प्रयत्न किया है उसका बहुत बड़ा मूल्य है।

हमने स्वामी जी को नजदीक से देखा है, परखा है और उनके प्रवचनों को तथा अनुभवों को सुना है हमें विश्वास है कि वे दिगम्बर जिनागम के कट्टर अन्वयी हैं।.....स्वामी जी सरल परिश्रमी हैं। उन्हें बचन पक्ष या अभिमान नहीं है बल्कि भयमानानुकूल बात को वे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं।.....स्वामी जी प्रतिज्ञा रूप प्रतिभा आदि नहीं पालते तथापि उनके आचरण खान-पान आदि किसी प्रतिभाधारी से कम नहीं हैं। उत्तम आचरण, मर्यादित खान-पान आजीवन ब्रह्मचर्य, मन्द कषाय आदि उनके गुण उनमें और उनके अनेक शिष्यों में पाये जाते हैं।

समाज के विवेकशील वर्ग से हमारा निवेदन है कि आगम के प्रकाश में उनके प्रवचनों को देखें। मिथ्याधारणा बना कर न चलें।.....वे एक महापुरुष हैं, अपना सर्वस्व पूर्ण रूप त्यागकर धर्म रत्न की खोज में चले हैं। उनके साथ धर्म वात्सल्यता का वर्तव्य करना आवश्यक है, तभी दि० जैन धर्म का प्रभावण होगी। १

सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाश चन्द्र जी शास्त्री बनारस—गुरुदेव के सम्बन्ध में अपने हादिक उद्गार इस प्रकार प्रगट किए हैं—

“इसमें सन्देह नहीं कि श्री कानजी स्वामी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक है और वक्तव्य शैली अनुपम है, उनके प्रभाव से सोनगढ़ के जैनतर अधिवासी श्री अघ्यात्म चर्चा के प्रेमी बन गये हैं। उक्त कथन के अतिरिक्त मण्डन मिश्र को निम्न किबदन्तियां प्रस्तुत करते हुए सोनगढ़ व स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है—
“मण्डन मिश्र एक बहुत बड़े विद्वान थे, जब सांकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए उनके ग्राम में पहुंचे तो उन्होंने ग्राम के बाहर कुंआ पर पानी भरने वाली स्त्री से मण्डन मिश्र का घर पूछा, उस स्त्री ने उत्तर दिया—

स्वतः प्रमाणम् परतः प्रमाणं। कीरांगना पत्र गिरी गिरन्ति।

द्वारेपि नीढान्तः सन्निरुद्धा, आर्षेहि तन्मंडन मिश्र धामः॥

अर्थात् जिसके द्वार पर पिंजरी में बन्द मैनायें प्रमाण स्वतः होता है या परतः होता है।” इस प्रकार की चर्चा करती हों उसे ही मण्डल मिश्र का घर समझना। सोनगढ़ के विषय में भी यही समझना चाहिए कि जहां के बापु मण्डल में अघ्यात्म प्रवाहित हो, वही कानजी का स्थान सोनगढ़ है। २

ब० राजाराम जी जैन गुरुदेव की ७५वीं जन्म जयन्ती के अवसर पर लिखते हैं कि—

१. कानजी स्वामी अभि० ग्रन्थ (हि० वि०) पृष्ठ ८

२. जैन जागरण के अग्रदूत (भा० ज्ञान पीठ काशी) पृष्ठ ६१

‘‘मई १००८ श्री बाहुबली जी की दक्षिण यात्रा को महा भस्मकाभियेक के समय जा रहा था, भोपाल में श्री बाबा छोटे लाल जी बर्णी का साथ हो गया। उनके साथ स्वर्णपुरी पहुंचा। वहां आध्यात्मिक सन्त श्रद्धेय स्वामी जी के प्रवचन सुन कर मन्त्र मुग्ध जैसा हो गया, यात्रा का विकल्प टूट गया, करीब ४ माह लगातार वचनामृत का पान किया, जीवन में अनुपम रहस्य समझा।

भले ही लोग कहे कि व्यवहार उड़ा दिया, मुनि निन्दक हैं, परन्तु भाई। पक्षपात छोड़कर निर्णय करो व्यवहार कुशलता, सद् प्रवृत्ति जो सोनगढ़ में है, शायद ही अन्यत्र हो। इतना अवश्य है कि व्यवहार धर्म नहीं, क्योंकि धर्म तो आत्मा की परिजाति है इसलिए बाह्य क्रियाकाण्ड धर्म नहीं हो सकता, ऐसा वे उपदेश करते हैं और अनादि, विपरीत मान्यता को छुड़ाते हैं.....इत्यादि। १

भारत वर्षीय विद्वत् परिषद के मन्त्री श्री पं० पद्मलाल जी साहित्याचार्य ने लिखा है—‘‘श्री कानजी स्वामी युग पुरुष हैं, उन्होंने दि० जैन धर्म के प्रभाव का महान् कार्य किया है। उनके इस जीवन निर्माण में समय सार का अद्भुत प्रभाव है। इसमें निवृद्ध कुन्दकुन्द स्वामी की विद्युत् अध्यात्म क्षेपना ने अग्रणीयों का उपकार किया है। उसने पहले महाकवि श्री बनारसीदास जी को दिगम्बर धर्म में दीक्षित किया फिर शतावधानी राज चन्द्र को दि० जैन धर्म का श्रद्धालु बनाया। और अब श्री कानजी स्वामी को दिगम्बर धर्म का दृढ़ श्रद्धालु बनाया है। न केवल कानजी स्वामी को, किन्तु उनके साथ २० हजार व्यक्तियों को भी इस धर्म में दीक्षित कराया है। समयसार से प्रभावित होकर श्री कानजी स्वामी ने शुद्ध वस्तु स्वरूप को समझा, वर्षों इसका एकान्त में मनन किया और अन्तरंग की प्रबल प्रेरणा पाकर अपने जन्म जात धर्म का परिधान छोड़ दिया। अब वे बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि—

‘‘ममार सागर से पार करने वाला यदि कोई धर्म है तो दिगम्बर जैन धर्म ही है। उनके इस कार्य से सौराष्ट्र से सौराष्ट्र, प्रान्त की जागृत हुआ हो सो बात नहीं, भारतवर्ष के समस्त प्रदेश जागृत हुए हैं और स्वाध्याय के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न कर आत्म कल्याण की ओर लग रहे हैं। २

श्री पं० फूलचन्द्र जी मिद्धान्त शास्त्री वाराणसी के शब्दों में—

‘‘कोई कुछ भी क्यों न कहे, मैं तो कहता हूँ कि वर्तमान में श्री कानजी

१. सन्तति सन्देश अंक ५, वर्ष ७

२. सन्मति सन्देश अंक ५, वर्ष ७।

स्वामी का उदय दिगम्बर परम्परा के लिए अभ्युदय रूप है। जिसके जीवन में दिगम्बर परम्परा का माहात्म्य समाया हुआ है वह श्री कानजी स्वामी और समग्र सीराष्ट्र को आदर की दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सकता। २

उनके अनन्त उपकार स्वीकृत करते हुए श्री कान्तीलाल शाह बम्बई ने स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा एवं कृतज्ञताज्ञापन की वह उन्हीं के शब्दों में निम्न है—

“आपने समाज का बड़ा उपकार किया है, वस्तु तत्व का विवेचन यथार्थ रूप में विवेक आप से ही मिलता है आप स्वयं भी भेद विज्ञान के साक्षात् अवतार हैं। एक बार जो आपका प्रवचन सुन लेता है वह उनका ही हो जाता है। हमारे तो वे धर्म पिता हैं। उनके अनन्त उपकार का समाज व मैं अत्यन्त ऋणी हूँ। उनकी अमृत वाणी सुनकर एवं परोक्ष में उनके प्रवचन पढ़कर अग्रणीत जीवों ने अपना आत्मकल्याण किया है। आपने ही जैन तत्व को समझने की सच्ची दृष्टि दी है। जैन धर्म की आत्मा वस्तु की स्वतन्त्रता, व्यवहार, निश्चय, निमित्त, उपादान और क्रम नियत आदि का आपने समाज के सामने इतना सुन्दर निष्कर्ष निकाल कर रखा है कि जनसाधारण दृष्टि भी बदल गई। उनके उपकार का बदला दे सकना असम्भव है मेरी मंगल कामना है कि पूज्य श्री के बताये हुए जैन शासन की विश्व भर में जय-जयकार हो और गुरुदेव दीर्घ काल तक हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहें। २

अन्त में उपसंहार के रूप में दि० जैन विद्वानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था श्री भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद के अभिप्राय को रखना चाहूंगा उस का तृतीय अधिवेशन सं० २००३ में सोनगढ़ में हुआ जिसमें ३२ विद्वान बन्धुओं ने और दूसरे हजारों लोगों ने भाग लिया। पूज्य गुरुदेव का परिचय करने का मुख्य उद्देश्य से ही परिषद के अधिवेशन के लिए सोनगढ़ की पसन्दगी की गई थी। इस बारे में विद्वत्परिषद के अध्यक्ष श्री पं० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य ने अपने प्रवचनों में कहा था कि—“यहाँ पर परिषद का अधिवेशन करने से हम सबको महाराज श्री के पास से अध्यात्म का बहुत लाभ मिला है। परिषद अपना अधिवेशन का कार्य तो किसी भी स्थान पर कर सकती थी किन्तु महाराज जी के आध्यात्मिक उपदेश का लाभ लेने के मुख्य हेतु से इस स्थान को प्रमुखता दी गई है।”..... महाराज के पास में हम सब को नई दृष्टि मिली है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम फिर इधर भावें और महाराज श्री जी का उपदेश सुनकर अपना आत्म कल्याण करें।

१. खानियातत्व चर्चा पृष्ठ १६

२. सन्मति सन्देश, अंक ५, वर्ष ७, पृष्ठ ५२

विद्वत्परिषद के सभी बन्धु पू० स्वामी जी के साक्षात् परिषद से प्रसन्न हुए वे और पूज्य गुरुदेव को अभिनन्दन देते हुए परिषद ने एक प्रस्ताव भी पास किया था, जो निम्न प्रकार है—

“आत्मार्षी श्री कानजी महाराज द्वारा जो दि० जैन धर्म का संरक्षण और सम्बर्द्धन हो रहा है, विद्वत् परिषद उसका श्रद्धापूर्वक अभिनन्दन करती है तथा अपने स्वराष्ट्री साधर्मी बहिनो-भाईयो के सद्धर्म प्रेम से प्रभुवित होती हुई उनका हृदय से स्वागत करती है। वह इसे परम सौभाग्य और गौरव का विषय मानती है कि आज दो हजार वर्ष बाद भी महाराज ने श्री १००८ वीर प्रभु के शासन के मूर्तिमान प्रतिनिधि भगवान् कुन्द कुन्द की वाणी को समझ कर अपने को ही नहीं पहिचाना है, अपितु हजारों और लाखों मनुष्यों को जीव उद्धार के सत्य मार्ग पर चलने की सुविधाएं जुटा दी हैं। परिषद का दृढ़ विश्वास है कि महाराज के प्रवचन-चिन्तन तथा मनन द्वारा होने वाला दिगम्बर जैन धर्म की भाष्यताओं का विद्वेषण तथा विवेचन न केवल साधर्मियों की दृष्टि को अन्तमुखं करेगा अथवा सतत् ज्ञानाराधकों को अप्रसन्नता के साक्षात् परिणाम आचरण के प्रति तथैव प्रयत्न-बनायेगा अपितु मनुष्य मात्र को अन्तर तथा बाह्य पराधीनता से छुड़ाने वाले रत्नमय की प्राप्ति कराने वाले वातावरण को सहज ही उत्पन्न कर देगा। अतएव इस अवसर पर अभिनन्दन और स्वागत के साथ साथ परिषद यह भी घोषित करती है कि चूंकि आपका कर्तव्य हमारा है, इस प्रवृत्ति में हम आपके साथ हैं। (प्रस्तावक— प्रो० खुशाल चन्द्र जैन, एम. ए. और पं० महेन्द्र कुमार जी, समर्थक—पं० परमेश्वरी दास जी, पं० राजेन्द्र कुमार जी।)

इनके अतिरिक्त श्री कानजी स्वामी ने दक्षिण और उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए जिस नगर में भी पदापर्ण किया, कहीं की धर्म प्राणु समाज ने गुरुदेव का भावभीना स्वागत श्रद्धा-भक्ति व प्रेम वश अपूर्व सम्मान किया था। सैकड़ों स्थानों से आपको कई सी अभिनन्दन पत्र भी समर्पित किए गए थे जिनमें स्वामी जी के गुणों एवं सम्यग्ज्ञान प्रचार की महत्ता प्रदर्शित की गई है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम निम्न हैं—

१. दि० जैन परिषद, दिल्ली
२. वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
३. जैन समाज, कलकत्ता
४. दि० जैन समाज, मद्रास
५. दि० जैन समाज, जयपुर

६. दि० जैन संघागत, सहारनपुर
७. दि० जैन समाज, कोटा
८. दि० जैन समाज, जबलपुर
९. दि० जैन समाज, श्वालियर
१०. दि० जैन समाज, बम्बई
११. सकल दि० जैन समाज, आगरा
१२. दि० जैन समाज, सागर
१३. गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर
१४. दि० जैन समाज, दमोह प्रादि ।

ऐसे पूज्य श्री स्वामी जी ने क्रमबद्ध पर्याय की मंकार कर हम जैसे अन्याय काल से सुसुप्त अनेक प्राणियों को जागृत किया है अतः हमारे ऊपर उनके अनन्त-अनन्त उपकार हैं, जिन्हें जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। अन्त में पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धा समर्पित है । ●

एक क्षण भी जी, भगवत् स्वभाव सन्मुख जी ।
तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी ॥

कुन्द कुन्द आचार्यन्तु,
गुरुवर भाखे ज्ञान ।
सीमंभर प्रभुये कह्यु,
घरे गुरुवर ध्यान ॥



सबं सृष्टि ने तारवा,
सीमंभर अवतार ।
कुन्द कुन्द आचार्यवरण,
कचलाकरी अपार ॥

मोहेल बाङ्गनी धन्य घर, धन्य उमराला गाँव ।
बेधय कुलने धन्य छें, ज्यां जल्म्या गुरु कहान ॥
धन्य - धन्य आ घरती ने, धन्य सोमपङ्क धाम ।
ज्यां गुरु सदा बिराजिता, नहिं कोऊ तेहि समान ॥

—संभाष्यमल जैन, भोपाल



स्वामी जी सन् १९७३ में तीसरी बार दिल्ली पधारे, यह चित्र उसी अवसर का है।
चित्र में दृष्टिगोचर हैं—साहू शान्ति प्रसाद जैन जी, लाला प्रेमचन्द जी,
लाला जगत राम जी जैन आदि।



जयपुर के सुप्रसिद्ध श्रीमन्त सेठ आध्यात्मिक-रसिक श्री वृररुण चन्द जी गोदिका
के परिवार के साथ मुचरेव।



स्वामी जी से आध्यात्मिक तत्व चर्चा करते हुये सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाश चन्द्र जी शास्त्री, श्री ब्रह्म चन्द जी, श्री नेम चन्द जी हेट वाले अध्यक्ष दिल्ली दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल एवं साहू आन्तो प्रसाद जी जैन ।



सन् १९५७ में कानजी स्वामी के दिल्ली आगमन का दृश्य । दृश्यभय हैं—स्व० श्री तनसुकाराय जी, श्री नेमीचन्द पाटनी आचारा, लाला भगताराम जी आदि ।

श्री कानजी स्वामी

एक

अद्भुत व्यक्तित्व

—विमल माई

कानजी स्वामी, एक जीती जागती जीवन जोत, आत्म अभ्युदय की साकार मूर्ति। सारे सौराष्ट्र में जिनकी आत्मक्रान्ति की धूम है, पर जेब भारत जिनके प्रकाश से वंचित नहीं।

सुन्दर सलीला शरीर, दैदीप्यमान आभा, सुखद भाव मण्डल, बाणी में अोज जो भी सरल हृदय से सन्मुख हुआ, उस ही की प्रथि खुली, ऐसा शायद ही कोई हो कि जिसने सरलता से सुना तो हो पर उसे शान्ति न मिली हो।

ऐसा भी आज तक नहीं हुआ, कि किसी की बातों को सभी ने सरलता से मान लिया हो, कुछ विरोधी भी सभी के होते ही हैं, इनके भी हैं। पर उनके लिए स्वामी जी के हृदय में बड़े सुन्दर विचार हैं। ये श्रद्धालु श्रावकों से कहा करते हैं। "तुम्हें विरोधियों से घृणा या क्रोध न करना चाहिये, इनमें भी तुम्हारी ही तरह भगवान बसते हैं। इनमें थोड़ी न समझी है, जब समझ जायेंगे तो स्वयं ही सही रास्ते पर आ जायेंगे। साथ ही तुम्हें भी अपनी समझ के लिए अहंकार न करना चाहिये, बस सहज रूप में अपनी दृष्टि अप्राप्त की ओर रख, आगे बढ़ जायेंगे।"

एक बार एक त्यागी ब्रह्मचारी इनका पक्ष लेकर किसी विरोधी भाई से सवाल जवाब और मुकदमे बाजी की अहापोह में पड़ गये, इनके सामने बात भाई तो ये बोले—भाई समय का समागम तो बहुत थोड़ा है, न जाने कब आयु समाप्त हो जाए, इस मूल्यवान समय को यूँ हल्की बातों में उलझ कर नष्ट न करो, बन सके तो प्राप्त समय को अपने आत्म कल्याण में प्रयोजित कर लो।

ये सब साधारण को बहुत ही सरल भाषा में समझाया करते हैं इनका कहना है सबसे पहले तुम यह मानो, कि 'तुम हो' तुम्हारा स्वतन्त्र अस्तित्व है, ये कैसे हो सकता है, कि जो वस्तुये दिखती है, वो तो है और जो उन्हें देखने वाला है वो नहीं, इसलिए आकाश, समय, और पुदगल (दिखने वाली जड़ वस्तुयें) की तरह ही तुम्हारी भी स्वतन्त्र सत्ता है।

अब जिन्होंने अपनी सत्ता स्वीकार कर ली, उनसे यह कहते हैं, तुम्हारे में जो विकार चलते दिखते हैं, उसके दोषी तुम स्वयं ही हो, क्योंकि अगर तुम दोष का कारण औरों को मानोगे तो तुम उन्हीं में फेर फार करने का प्रयत्न करते रहोगे, और जब सब दोषों के जिम्मेदार अपने को ही मान लोगे, तो अपने को ही ठीक करने के प्रयत्न में लग जाओगे।

इसलिए दोष दूसरे जिन लोगों को न हो दोष तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही है। इसके मने बिना जाने बति नहीं।

जब वे जिन्होंने माना दोष हमारे ही है, धत प्रतिघत हम ही उनके जिम्मेदार है। उनसे यह कहते हैं देखो तुम्हारे वास्तविक स्वभाव में दोष नहीं, यदि दोष स्वभाव का हिस्सा होते तो उसमें से वो निकल नहीं सकते थे यदि तुम अपने निज के वास्तविक स्वभाव की ओर दृष्टि दोमे तो यह शनै शनै स्वतः निकलते जायेंगे। और तब शुद्ध सोने के समान निकर धायेगी तुम्हारी निर्मल आत्मा।

जिस तरह सोने को तपाने से उसका मैल निकल जाता है, उस ही तरह दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूप धर्म भंगीकार करने से आत्मा निखरती है।

इन महापुरुष जन्म दिन सम्वत १६४६ में वैसाख सुदी दूज के दिन सौराष्ट्र के उमराला गांव में, शाह मोती चन्द के घर माता ऊजमदे की कूल से हुआ था।

इनके उपदेश सभी जातियों और प्रदेशों के लोगों के लिए समान है, यही कारण है, इनके आश्रय में आये लोगों में सभी जातियों और प्रदेशों के लोग सम्मिलित है, उनमें भाषा भेद का कोई रूपा नहीं, सभी प्रेम की डोर में बन्धे समानता से धर्म साधन करते है।



वर्तमान युग के महान सन्त

श्री कानजी स्वामी

—श्रीराम जैन, बिल्सी

मुझे याद है अपने जीवन का यह सुनहरी सुखद दिन जबकि मुझे एक सुपुत्र माई द्वारा गुजरात के महान आध्यात्मिक सन्त पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के सम्बन्ध में उनकी कही हुई बारीकी का सार सुनने को मिला और पुण्ययोग से कुछ ही दिन पश्चात् उनके दर्शन तथा सत्यकथित समस्यश्रीं, भेदज्ञानमयी सर्वज्ञ की बारीकी सुनने और समझने का अवसर मिला गया।

आत्मा समक्ष स्वरूप है, आत्मा स्वयं सिद्ध प्रत्यक्ष अनुभव पोषक है, स्वभाव से परिपूर्ण है तथा ज्ञाता द्रव्य में कुछ करने की तो बात दूर रही, यह तो अपनी पर्याय में भी कोई फेरकार नहीं कर सकती। ऐसी दृष्टि पाकर कौन निहाल नहीं हो जायेगा? समझकर तो निहाल होया ही होगा। पूज्य स्वामी जी ने अनेक भव्य जीवों को ऐसी दृष्टि दी और आज भारत में अनेक जीव आपके द्वारा निर्दिष्ट मोक्षमार्ग को समझकर अपने कल्याण में लगे हुए हैं। यह बात अब विद्वानों तथा जैन समाज के हृदय में अंकित हो चुकी है और जैन समाज चिरकाल तक उनके इस उपकार को भुला नहीं सकेगा। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में हादिक अभिनन्दन अर्पित करता हूँ।



हे ! स्वर्गपुरी के सरल सन्त

—मांजीलाल अग्रवाल 'अगर', एम. ए., बी. एड.

सोनगढ़ के सरल सन्त ने,
आगम मर्म बतात दिया ॥
हिमालय सा प्रबल अद्विग दे,
सौराष्ट्र सन्त यूँ अबल लड़ा,
ज्ञान गंग प्रवाही समय भक्त ने
सम्यक मार्ग जतलाय दिया ॥ १ ॥
ये आत्म काल बड़ी आत्मलोक,
ये सम्यक सार्थक दर्शन है,
ये अनादि अविरोधागम है,
अर्थों को भव बता दिया ॥ २ ॥
पंचबाव और क्रिया काण्ड का,
भंडाफोड़ करवाय दिया.
व्यवहार धर्म उपचार बता,
धर्म स्वरूप समझाय दिया ॥ ३ ॥
पर लक्ष्मी मिथ्या श्रावक को,
निज बंसव गुण प्रकटाने को,
अणुव्रत, महाव्रतघारो को,
अनुभव पाठ पढ़ाय दिया ॥ ४ ॥
तेजमयी स्वप्रकाश ज्योति से,
ये भारत क्षेत्र कमकाय दिया,
सोनगढ़ की स्वर्गपुरी को,
प्रसिद्ध तीर्थ बनवाय दिया ॥ ५ ॥
जन-जन को शिक्षित करने का,
शिबिरोँ का साज सजाय दिया,
काम छोड़ विरागी बनकर,
वीतराग विज्ञान सिखाय दिया ॥ ६ ॥
शत-शत बन्धन स्वामी जी को,
आत्मज्ञ, मर्मज्ञ, विरागी जी को
अबल धाम सन्मार्गी जी को,
'अगर' मर्म स्वरूप ललाय दिया ॥ ७ ॥

पूज्य आध्यात्मिक सन्त श्री कानजी स्वामी को मैं २५ वर्षों से जानता हूँ। इनके विषय में पहले मैं अपने कतिपय पंडितों तथा त्यागियों से इनके विषय में अनर्गल सुना करता था, कितने तरह की मिथ्या बातों का प्रचार इनके विषय में किया जाता था। एक बार मैं सोनगढ़ गया। वहाँ पर मैंने आपके प्रति लोगों में अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति देखी। आपके प्रवचनों में नित्य ही हजारों की संख्या में लोग धर्म श्रवण करते थे। मुझे यह एक सबसे बड़ी विशेषता लगी कि जब आपका प्रवचन प्रारम्भ होता था तब १ घण्टे तक सभी लोग अत्यन्त शान्त व गम्भीर रूप से बैठते थे कोई भी व्यक्ति फुसफुसाहट भी नहीं करता था।

द्वितीय बार जब आप ससंघ तीर्थ यात्रा को निकले थे तब मुझे आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। मैं राजगृही से कलकत्ता तक लगभग १ माह तक साथ रहा। और आपके आहार-विहार, धर्म साधन के बारे में जो हमारे पंडित तथा त्यागी कहा करने थे, को सावधानीपूर्वक देखा। मुझे लगा कि हमारे पंडित व त्यागी धर्म ने जो कहा वह मिथ्या था। आपके खान-पान के विषय में जो भ्रान्ति समाज में फैली हुई है, क्रिया उससे बिल्कुल विपरीत थी। मैंने आपका आहार अत्यन्त अल्प एवं शुद्ध पाया।

उसी समय आपका विहार राजगृही से गया की ओर वहाँ की समाज के विशेष निमन्त्रण पर हुआ। आपका वहाँ पर हादिक स्वागत किया गया।

आप जब राजगृही में थे, तब एक गुजराती बृद्ध भाई ने आकर प्रणाम कर कहा—'तीर्थकर महाराज की जय।' तब स्वामी जी ने कहा—'नहीं रे भाई, अब आँख खुल गई है, हम तो अन्नती ब्रह्मचारी हैं। आपके विषय में पूज्य स्व० पंडित बन्धीधर जी इन्दौर वालों से अक्सर पूछा करता था तब उन्होंने मुझे कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए इनके प्रवचन तथा अर्थ निदोष होते हैं। पूज्यवर्णी जी का भी आपसे बहुत स्नेह था, वे आपसे प्रभावित भी थे।

मुझे एक बात इनकी बहुत ही प्रभावित करती है वह यह कि जो गुण एक जैन सन्त में होने चाहिए वे सब आप में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। दोन्तीन जैन पत्रों में आपके प्रति अनर्गल मिथ्या प्रचार हो रहा है लेकिन आपने न तो किसी का प्रत्युत्तर ही दिया और न विरोध ही किया। पहले जब आप एक बार कलकत्ता आए

तो प्रवचन के समय कुछ भाईयों ने आपसे उल्टे प्रश्न करने शुरू कर दिए। जब उनके उत्तर ठीक मिल गए तो वे असम्यक् व्यवहार करने लगे। तब आपके कुछ समर्थक खड़े हो गये और वे विरोधी भाईयों को दण्ड देना चाहते थे तब स्वामी जी ने कहा कि इन भले लोगों से झगड़ा मत करो। जो कुछ कहा है, मुझे कहा है। मैंने इनके शब्दों को ग्रहण नहीं किया है। आप लोग शान्त रहें। यह एक सच्चे सन्त का उदाहरण है।

मैं तो गुरुओं से सर्वत्र ही प्रभावित था तथा जब कभी भी आपके दर्शनार्थ सोनगढ़ जाता हूँ, बहुत सन्तोष होता है। आपके चेहरे पर असली ब्रह्मचर्य का तेज विद्यमान है, जो कि जैन त्यागी होना ही चाहिए। आपकी वाणी बहुत ही ओजस्वी है। मैं भगवान् जिनेंद्र देव से आपके दीर्घ भंगलमय जीवन की कामना करता हूँ।



जैन धर्म का केन्द्र आत्मा है। इस लिए यह धर्म अध्यात्म प्रधान है। विचार के लिए निश्चय नय है और कार्य के लिए व्यवहार नय है। विचार ठीक होने पर व्यवहार भी ठीक होगा। दोनों का होना जरूरी है, पर विचार व्यवहार को दिशा देता है।

कुछ काल के प्रभाव से, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ मांसारिक उपलब्धियों के लालचवश ऐसा होता है कि व्यवहारिक पक्ष निश्चय से दूर हो जाता है और व्यवहार ऐसा होने लगता है कि उसमें कमजोरियाँ ही झलकती हैं और उसकी दृढ़ता दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में अनिवार्य हो जाता है कि कोई क्रान्ति आए और व्यवहार पक्ष निश्चय से दूर न होकर उसके अनुसार साथ-साथ चले। यह तभी मुमकिन है जब भूला हुआ या आँखों से ओझल किया हुआ निश्चय पक्ष अपने आसन पर फिर जसे।

जैन धर्म के इतिहास में समय-समय पर ऐसा होता रहा है। बहुत दिनों से कानजी महाराज का नाम मुना था। पर उनका, साहित्य देखने का और उनके व्याख्यान सुनने का मौका कुछ समय से ही मिला। ऐसा लगा कि जैन धर्म का निश्चय पक्ष जो शायद कुछ पीछे हट गया था और व्यवहार की बागडोर नहीं पकड़ रहा था, जाग्रत हो रहा है। इससे यह विश्वास पैदा होता है कि शुद्ध जैन धर्म फिर से मार्ग दिखाएगा और व्यवहार को रास्ता दिखाकर आलोक पैदा कर सकेगा। कानजी महाराज की इस ओर साधना सफल हो रही है और जैन धर्म के शुद्ध रूप का ज्ञान बढ़ता जा रहा है।

कानजी महाराज के चरणों में शत-शत बन्दन !

—शिष्यनाथ मिस्तल, नई दिल्ली

आत्म धर्म मर्मज्ञ

● पद्म चन्द जैन सराफ
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्यार्थी संघ
मुमुक्षु मण्डल

भव के अभाव का सिंहुनाद करने वाले सन्त इस समय दिखने वाले विश्व में एकमात्र पूज्य श्री गुरुदेव कानजी स्वामी ही हैं। हम जैसे पामर प्राणियों पर उनका महान्-महान् उपकार है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जन्म लेकर भी भाव दिगम्बर की बात न समझ सके। पूज्य श्री के उपदेश से ही सच्चा स्वाधीन मार्ग समझ में आया।

जीवन के प्रारम्भ से ही पूज्य श्री स्वामी जी सत्य की खोज में थे। मुझे अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने स्थानक वासी सम्प्रदाय में साधु पद स्वीकार किया। स्थानकवासी सम्प्रदाय के सब शास्त्रों का अध्ययन किया परन्तु स्वामी जी जो चाहते थे उसकी प्राप्ति वहाँ न हुई। स्वभाव से उनकी कोरे क्रियाकाण्ड में रुचि नहीं थी। वे बराबर अनुभव करते थे कि बिना अध्यात्म को समझे आत्मा का उद्धार नहीं, उन्होंने ज्ञान यज्ञ का प्रारम्भ तो किया पर उसमें तृप्ति न मिली स्वाध्याय के साथ भूख बढ़ने लगी। जो मैं चाहता हूँ वह कहाँ मिले, यही प्रश्न उन्हें बराबर होने लगा।

प्रकृति का नियम है कि यदि किसी गुरुतर कार्य के लिए दृढ़ प्रयत्न किया जाय तो उसकी अवश्य प्राप्ति होती है। हुआ भी ऐसा ही। पूर्व भव का संसार ही समझिये लम्बी प्रतीक्षा के बाद भगवान् श्री कुन्द कुन्द प्रणीत श्री समयसार श्रुत उनके हाथ लगा और उसका स्वाध्याय प्रारम्भ किया। उन्होंने पढ़ा—हे आत्मन् अनादि से तूने संसार सम्बन्धी काम, भोग सामग्री प्राप्त की एक बार नहीं, अनन्त-अनन्त बार प्राप्त की। यदि प्राप्त नहीं किया तो एकमात्र पर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने भीतर से अनुभव किया कि यह कोई अलभ्य वस्तु है। यदि मेरा कल्याण होगा भव बन्धन का अन्त होगा तो इसी से होगा। इतने समझते ही उनके आनन्द का पारावार न रहा। वे सब भूल गये, खाना भूले, पीना भूले, सम्प्रदाय का नशा उतरने लगा।

अन्य सबको भूल कर वे इस महान् श्रुत के अभ्यास में एकचित्त होकर लग गये। भक्त आकर कहते स्वामिन् ! जनता चातक के समान आपत्री के उपदेशामृतपान करने के लिए लालयित हो रही है। विशेष आग्रह होने पर कहते—'भाई मेरा चित्त स्वाध्याय में है, उन्होंने श्री समयसार परमाणम के मिलने पर उसका स्वाध्याय ही अपना परम प्रधान कर्तव्य बनाया और उसके तल स्पर्शी अनुभव मनन द्वारा बन कहान-गुरुदेव विशेषांक

सका। उतना रसपान किया और अक्तबनों का उसका रसपान कराया। आज भी पूज्य गुरुदेव की यही स्थिति है, ज्यों ही वे एकान्त पाते हैं श्री समयसार परभागम के रसामृतपान द्वारा साक्षात् समयसार बन जाते हैं। यह है उनकी अन्तर आत्म परिणति का सच्चा जीवन परिचय वे दिगम्बर परम्परा के सच्चे अनुयायी हो गये और उनकी वाणी भी उनके अनुरूप निकलने लगी। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म एक मात्र यही उनके प्रवचनों का विषय बन गया। उनके जीवन में जो उथल-पुथल हुई, उनकी वाणी को सुनकर वह उथल-पुथल बाहर भी होने लगी। परन्तु वे चबराये ही कहीं परिणाम यह हुआ कि अन्त में उनकी अध्यात्म वाणी का सब ने लोहा मान लिया उसके फलस्वरूप यह दिखाई दिया कि हजारों-लाखों व्यक्ति सम्प्रदाय के मोह से मुक्त होकर आत्म पन्थी (दिगम्बर) बन गये। यह है पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी का और उनकी वाणी का चमत्कार। एक बार भी जिसे उस वाणी का लाभ मिलता है उसके हृदय कपाट खुल जाते हैं।

धन्य हैं वे महात्मन्, धन्य है उनकी वाणी और धन्य है उनका आत्म धर्म स्वीकार। मेरी यही अन्तर अस्मिता है कि आप श्री का अपूर्व प्रभावना योग चिर काल तक समस्त विश्व को उपलब्ध होता रहे। हे युग निर्माता महात्मन् आप श्री के चरणों में मेरा शत-शत बन्दन है।



परम आदरणीय कानजी स्वामी का परिचय सन् १९५० में जब मैं सोनगढ़ गया, तब से है। इसके पश्चात् भी स्वामी जी का ५०० यात्री भाईयों का संघ लक्ष्कर नगर में आया। यहाँ वे तीन दिवस टहरे। उनका हर प्रकार का प्रबन्ध लक्ष्कर नगर की कार्यकारिणी ने किया, जिसका मैं मन्त्री था। इस कारण उनकी सेवा तथा प्रवचन श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् भी फतेपुर पंच कल्याणक, बम्बई पंच कल्याणक, सोनगढ़ पंच कल्याणक में उपस्थित होकर प्रवचन श्रवण कर धर्म लाभ लिया। आपके प्रवचन आध्यात्मिक विषय पर होते हैं। आपका प्रवचन निर्भीक, निःस्पृही मधुर भाषा में होता है। आपके प्रवचनों को श्रवण कर लाखों महानुभाव दिगम्बर जैन धर्म में दीक्षित होकर धर्म साधना कर रहे हैं। मैं शुभ कामना भेज रहा हूँ कि वे दीर्घायु हों और आपका धर्मध्ययन व्रत में निरन्तर वृद्धि होकर मोक्ष मार्ग की ओर गमन करने में लय रहे।

—मिथी लाल पाटनी, ज्वालिवर

ग्रंथराज समयसार और श्री कानजी स्वामी

● ३० हेन चन्द्र जैन 'शिव'

नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकालते ।

चित्स्वभावाद्य भावाय, सर्वभाषान्तरच्छिदे ॥

द्वितीय श्रुतस्कन्ध परम्परा में कुन्दकुन्द भारती का सर्वोत्कृष्ट परमाणव 'समयसार' है। 'पर' से एवं 'पर्याय' से भी भिन्न, स्वसहाय, निर्विकल्प स्वरूप निज-शुद्धात्मतत्त्व को दर्शाने वाला तथा व्यवहार से विमूढ़ जगज्जनों को भेद विज्ञान एवं बीतराग दशा होने में कारणभूत एकमात्र यह परमाध्यात्म शास्त्र 'समयसार' है। इसलिए 'मंगल भगवान वीरो...' इस श्लोक में वीर प्रभु एवं गौतम स्वामी के तत्काल बाद इस परमाध्यात्म शास्त्र के रचयिता कलिकालसर्वज्ञोपमा प्राप्त आचार्य कुन्दकुन्द देव का नाम स्मरण किया गया है। अस्तु कालदोष से जीवों की बुद्धि मन्द होती देख एवं निज उपयोग की शुद्धता के वर्धनार्थ क्रमशः आचार्य भ्रमृतचन्द्रसूरि और आचार्य जयसेन स्वामी द्वारा संस्कृत में 'आत्मख्याति' एवं 'तात्पर्यवृत्ति' टीका में लिखी जाने के बाद आज से करीब ५०० वर्ष पूर्व पाण्डे राजमल जिनधर्मी सद्ग्रहस्थ महाकवि ने सं० टीका में उद्धृत श्लोकों के ऊपर 'खण्डान्वय टीका' गद्य भाषा में लिखी जिसका आघार लेकर महाकवि सद्ग्रहस्थ पं० बनारसी दास जी ने 'नाटक समयसार' नामक पद्यानुवाद प्रस्तुत कर समयसार के सार को जीवित रखा। पं बनारसीदास जी के करीब ३०० वर्ष बाद अर्थात् आज से २०० वर्ष पूर्व जयपुर में आगम एवं अध्यात्म के ज्ञाता एवं अधिवक्ता दो महासमर्थ विद्वान एक ही काल में हुए। प्रथम का नाम आ० क० पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी हैं और द्वितीय का नाम पं० श्री जयचन्द्र जी छाबड़ा हैं। इनमें से प्रथम विद्वान श्री टोडरमल जी ने ब० रायमल जी की प्रेरणा एवं सहयोग से गोमट्टसारादि अनेक आगम ग्रन्थों की भाषा टीकायें रची और आगम-अध्यात्म के पठनोपरान्त भी रह जाने वाली शांकाओं के समाधानार्थ एक मौलिक चिन्तन से युक्त सुबोध भाषा ग्रन्थराज 'श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक, लिखा जो कि सामाजिक विद्वेषों का शिकार बन जाने से एवं पंडित प्रवर की आयु-क्षीणता के कारण अपूर्ण-अधूरा ही रह गया। तथापि आत्मार्थी जनों को आज भी मोक्षमार्ग प्रकाशित कर रहा है और करता रहेगा। द्वितीय विद्वान् पं० जयचन्द्र जी छाबड़ा ने 'समयसार' अष्टपाहुड़ एवं देवागम आदि अनेक आध्यात्म व न्याय शास्त्रों की

भाषा टीकायें रचकर महान् श्रुतसेवा का लाभ उठाया। जिस प्रकार ग्रन्थराज समयसार को प्राप्त कर सत्तावधानी श्रीमद् राजचन्द्र एवं श्री गणेश प्रसाद जी वर्षीं निर्ग्रन्थ मार्ग के उपासक बने, ठीक उसी तरह आज हमारे बीच ८६ वर्ष की वेहावस्था में विराजमान परमकृपालु सत्पुरुष आत्मज्ञ सन्त श्री कानजी स्वामी भी उन्हीं परम दिग्म्बर श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के समयसार को प्राप्त कर स्वयं एवं अन्य अनेक भव्य जीवों को सच्चे निर्ग्रन्थ वीतराग धर्म का दृढ़ उपासक बना रहे हैं। सोनगढ़— जहाँ पूज्य स्वामी जी विराजते हैं, आज इस भारत वसुन्वरा पर एक 'लघु सर्वाथैसिद्धि' की उपाया धारण करता हुआ स्वर्णपुरी अथवा मोक्षपुरी अथवा परमागमपुरी बन है कि जहाँ निरन्तर अध्यात्मरसिक जीवों का तांता लगा रहता है और अपनी-अपनी अध्यात्म पिपासा शान्त कर स्थायी निराकुल सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति हेतु उद्यम-बन्त है। अहो ! परमागम जिनवाणी एवं श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य परम्परानु-गत मूल दिग्म्बर शुद्धमनाय के पोषक एवं संरक्षक सोनगढ़ के सन्त तुम्हें बारम्बार प्रणाम।

(७) त्रिलोक चन्द जैन, दिल्ली

मात्र पश्चिम में ही नहीं, अपितु समस्त देश एवं विदेश में भी हजारों जैनों को घोर मिथ्यामार्ग से उबार कर सम्यक् रास्ता दिखाने तथा उस पर अग्रसर करने का जिन्हें श्रेय है, उन परम श्रेय आत्मज्ञ सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के चरणों में यह मस्तक सहज ही कृतज्ञता से झुक जाता है। पूज्य स्वामी जी की सत्प्रेरणा से ही सौराष्ट्र एवं महाराष्ट्र प्रांतों में जहाँ दिग्म्बर जैन मन्दिर के दर्शन करना दुर्लभ-सा था, वहाँ पचास से भी अधिक नयनाभिराम दिग्म्बर जैन मन्दिर बनकर तैयार हो गये हैं।

यह श्री स्वामी जी के सरल, सहज एवं शान्तिदायक आध्यात्मिक प्रवचनों का ही प्रभाव है, जिससे हमारे महान आध्यात्मिक शास्त्र, जो तिजोरियों और तहखानों में बन्द थे और जिनका पठन-पाठन निषिद्ध-सा था, बच्चे-बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और यह दुर्लभ ज्ञान भण्डार जन-जन को सुलभ होकर आनन्वित कर रहा है।

शुभ पामर के जीवन में शान्ति एवं सुख के कुछ क्षण भर देने का सारा श्रेय इन्हीं युग पुरुष की अमृतवाणी को प्राप्त है। मैं इस महापुरुष के चरणों में अत्यन्त गद्गद हृदय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और श्री जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करता हूँ कि भव्य जीवों के सद्भाव से यह सूर्य कालान्तर में भी भारत भूमि को आलोकित करता रहे।

आत्म-विश्वास

—कृतचन्द्र पुष्पेन्नु, सुरई

मैं बंके की चोट कलंगा निश्चय पूर्वक
सब्य सार की दिव्य ज्वलि को—
अगर भेलने वाला कोई
महापुरुष इस भारत में विद्यमान है
तो बस केवल एक व्यक्ति है,
बाकी तो सब तथाकथित हैं।
महावीर का गौतम गणेश्वर
क्या हर कोई हो सकता है ?
अरे ! बिकट पुरुषार्थ चाहिये ।



सीमंधर तो विद्यमान है इस दुनिया में
उनके गुण पर्याय ब्रह्म को
सम्पकदृष्टया देख रहे जो
वे अपने को देख रहे हैं निश्चयपूर्वक;
मोह पलायन हुआ इसी से—
अहंभक्त हैं, परम दार्शनिक केवल वे ही
शेष दार्शनिक तथाकथित हैं।
“जो जाणादि अरहंत” गाथा
है नजीर सुप्रीम कोर्ट की
कुन्द-कुन्द के न्यायालय की।



नग्न दिगम्बर कुन्द-कुन्द—प्रभु-
प्रभु तचन्द्राचार्य प्रभु
का गुण गायन जब करते हैं भूम-भूम कर
तब तो हमको ऐसा लगता
जैसे सखमुच स्वयं नग्न हों
आत्म-मग्न हों, इसीलिए तो
मुनियों के हैं भक्त भाग्य ही
केवल सच्चे !
बाकी तो सब तथाकथित है—
हे सम्बन्ध शिरोमणि ! तुमको
मेरा बारम्बार नमन है !!

गुरुदेव या गुण देव : एक विनम्र आदरांजलि

● सुरेश सरल, बबलपुर

दातों के दक्त नीम की तनिक-सी लकड़ी घंटों के लिए मुंह में कडुवाहट छोड़ जाती है और यदि कडुवाहट सहने का क्रम कुछ दिन तक नियमित रखा जावे तो यह कडुबी लकड़ी दांतों पर स्थायी चमक ही नहीं छोड़ती बरम् उन्हें भिन्न-भिन्न गरम, ठण्डे, तीखे, चटपटे, खारे, मीठे, खट्टे पदार्थों से संघर्ष स्वीकारने की शक्ति, क्षमता भी प्रदान करती है। नन्ही-सी दातों, बत्तीसों दांतों को स्वस्थ, सुन्दर और साफ-सुथरे बनाये रहती है।

भारतवर्ष का गौरव है यह कि गुरुदेव भी वर्तमान में जैन-मानस के लाखों-लाख प्राणों (आत्मनों) को अपनी गम्भीर गिरा से योग्य श्रावक बना रहे हैं। अब क्षण भर को ऊपर के शब्दों के भावार्थ देखिये :—श्रावक—दांत, गुरुदेव—दातों, पदार्थ—कर्म, संघर्ष शक्ति—संयम-साधना। दांत गन्धे हैं, दातों कडुबी है। समूची समाज की चर्या विबादग्रस्त है, गुरुदेव की चर्या आत्म-ग्रस्त है।

सफाई—ज्ञान—का अमृत घोलने वाले गुरुदेव यदि गन्धे दांतों से घिरी जीभ द्वारा कडुवे माने जाये तो माने जाते रहें, वे कडुवाहट, सिद्धान्त-शिखा—से जन-जन का जीवन जो उज्ज्वल कर रहे हैं। इस पर जब जिसने ध्यान दिया, उसकी कडुवाहट समाप्त हो गई। गुरुदेव अपनी यात्रा-वीथिका पर अकेले हैं या सहयात्रियों से घिरे हैं, उन्हें इसकी खबर है। खबर भी रहे भी क्यों—“सम्यग्दृष्टि कदाचित् अकेला ही हो तो अकेला भी वह सुशोभित एवं प्रशंसनीय होगा।” गुरुदेव को श्रावक-समाज से विरोध मिले या समर्थन, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है। उनके अन्तर में प्रज्वलित चैत्यानन्द की अमर ज्योति का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। वे स्वयं में रहे हैं। प्रकृति को आत्मसात कर रहे हैं और आत्मा को प्रकृतिसात। शायद तभी, उनकी निष्कल मुस्कान उनकी आत्मा की विमलता की आकृति की स्पष्टि देती है।

वह ऐसा प्राण है जो सुख में स्थापित है, एक ऐसा प्राण जिसमें सुख स्थापित है। गुरुदेव का परिचय भी यही है। वे महान दृष्टा हैं। गुण जो घट-घट में प्रतिष्ठित हैं और जिनके दर्शन भी गुरुदेव कर चुके हैं। अतः वे जीव-जीव के गुण स्पष्ट करते चल रहे हैं।

अग्निदेव, वायुदेव कई-कई श्री देवों के नाम प्रचलित होते रहे हैं सृष्टि से। वर्तमान समाज को एक देव और मिले हैं—गुण देव। यही मेरी ओर से गुरुदेव को एक वैशेषणिक-संज्ञा है, मेरी आदरांजलि है।

आध्यात्मिक गगन के चमकते नक्षत्र

पूज्य कानजी स्वामी

[पं० श्री 'स्वतंत्र जी' जैन]



इतिहास की साक्षी है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व अर्थात् भ० महावीर की निर्वाण प्राप्ति के पाँच शताब्दि वर्ष पश्चात् आ० कुन्दकुन्द महाराज हुये। तब आपकी मां शैशवकाल में "शुद्धोऽसिबुद्धोऽसि निरंजनोऽसि, संसार माया परिवर्जितोऽसि" की लीरियां गाते हुये पीठ पर हलकी नन्हीं मुकुल एवं मधुरिम थपकियां देते हुए बालक कुन्द कुन्द को सुलाती थीं। इन लीरियों में संस्कारित बालक कुन्द कुन्द पर यह प्रभाव पड़ा कि वे आगर्भ दिगम्बर रहे।

विदेह क्षेत्रस्थ भ० सीमन्धर जिनेन्द्र की साक्षात् दिव्यध्वनि श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे चलकर भ० महावीर की आध्यात्मिक देशना के प्रतीक बन गये। वे अध्यात्म-गंगा में गंभीर डुबकियां लगाकर जिस शीलता की अनुभूति करते थे वह वचनानीति थी। क्योंकि जड़ शब्दचतन्य अनुभूति को कहने में सर्वथा असंभव रहे हैं।

विश्व के कल्याणार्थ प्रसस्त अनुराग के कारण ही जब कष्टा का भाव आता था तब आपकी लेखनी की पैनी नौक ताड़ पत्र पर समयसार आदि जैसे परम आध्यात्मिक परमागम ग्रन्थों को लिखती थी। और जब स्वानुभूति का रस अन्दर ही अन्दर झरने लगाता था, तब लेखनी अपने आप रुक जाती जाती थी। कुन्द कुन्द की वाणी बनाम भ० महावीर की वाणी ही मानी गयी है। कलिकाल सर्वज्ञ कुन्द-कुन्दाचार्य के ग्रन्थों में एक शुद्धात्मा की ही कथनी बहुलता के रूप में है।

कहान-गुरुदेव विशेषांक

११५

महर्षि कुन्द कुन्दाचार्य के एक हजार वर्ष बाद आ० अमृतचन्द्र हुये, इन्होंने कुन्द-कुन्द की वाणी का जैसा हार्द समझा वह अपनी जगह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आपने कुन्द कुन्दाचार्य के परमागम ग्रन्थों की विविधनामों की विस्तृत टीकायें की जो आपकी अनाद्य विद्वता की परिचायक हैं। साथ में यह भी सिद्ध करती हैं कि आप अपने युग के अद्वितीय अध्यात्म के ज्ञाता थे। आचार्य अमृतचन्द्र की वाणी बनाम आचार्य कुन्द कुन्द की वाणी है।

श्रीमदमृताचार्य के ६००/६५० वर्ष पश्चात् श्री बनारसीदास जी हुये, जो कि गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्म के ज्ञाता अध्येता एवं प्रणेता थे। सुप्रसिद्ध रस-कवि होते हुये भी आध्यात्मिक क्रान्ति के जन्म दाता थे जो तेरा पंथ (जिनेन्द्र का पंथ) के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारक होने के कारण ही आपने भट्टारकवाद को उखाड़ फेंका था। नाटक समयसार की रचना श्रीमदमृताचार्य की आत्मख्याति टीका का एक प्रकार से हिन्दी पद्यानुवाद प्रतीक स्वरूप माना जाता है। बनारसी दास की वाणी बनाम आ० अमृत चन्द्र की वाणी है।

पंडित प्रवर बनारसी दास जी के लगभग २०० वर्ष बाद पं० टोडर मल जी हुये। आप आचार्य कल्प की उपाधि से प्रसिद्ध हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके द्वारा रचित एक ऐसा ग्रन्थ है जो आपके प्रकांड पांडित्य का प्रतीक है। अपने समय के विशिष्ट सिद्धान्तज्ञ, अध्यात्मज्ञ, कर्मवीर एवं धर्मवीर थे आपकी वाणी आ० कुन्द-कुन्द, आ० अमृतचन्द्र, कविवर बनारसीदास जी की प्रतीक है।

इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य कुन्द कुन्द से लगा कर आज तक अध्यात्म रूपी गंगा की निर्मल पवित्र धारा बहाने में समय-२ पर हुये अनेक ऋषि महर्षियों ने मानव समाज को प्राण, त्राण दोनों ही प्रदान किये हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उमास्वामी समन्त भद्र, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानंदि, आदि मुनिवर अध्यात्म के ज्ञाना या उपदेष्टा नहीं थे। इन मुनिवरो द्वारा रचित अनेक महान् ग्रन्थ मानव समाज के लिए कल्याणप्रद एवं मार्ग दर्शक रहे हैं।

आज इस २० वीं शती में पूज्य कानजी स्वामी आध्यात्मिक क्रान्ति के प्रबल समर्थ प्रचारक, प्रखर उपदेष्टा एवं सुवक्ता है। आप इस युग के युग पुरुष माने जाते हैं। आने वाला कल आप का इतिहास बनकर मानव समाज को आत्म कल्याण के लिये प्रेरणास्पद बना रहेगा। वर्तमान में आप आध्यात्मिक गगन में चमकते हुये देदीप्यमान सितारे (नक्षत्र) हैं।

कान जी स्वामी की रचनात्मक कार्यप्रणाली एवं आध्यत्मिक क्रान्ति से भारत

शुभ भारतोत्तर अनेक बंध भी परिचित है। आध्यात्मिक विषय से संबंधित जो कार्य किया वैसे कार्य आज के वर्तमान साधुसमाज एवं पंडित वर्ग (विद्वत्समाज) तो वही सका। यह कट्टु स्पष्ट सत्य है। कोई अन्यथा भाव न लायेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री कान जी स्वामी के संबंध में विस्तृत विवेचन पूर्वक लिखना समयाभाव एवं स्थानाभाव दोनों ही मुझे मजबूर करते हैं। पहिले हम देखते थे कि आज से ४०/४५ वर्ष पूर्व समय सार जैसे ग्रन्थ केवल अल्मारी की धोभा बढ़ाते थे। समय सार के ज्ञाता और उपदेष्टा उगुलियों पर गिनने लायक विरल ही व्यक्ति थे। पर आज मंदिरों में समय सार का प्रवचन होता है।

अनेक नवयुवक और नवयुवतियाँ, बेटी, बहिन मंदिरों में समय सार पर प्रवचन करते हुये देखे जाते हैं। इस के मूल में पूज्य कानजी स्वामी का आध्यात्मिक प्रचार ही कर रहा है। कान जी स्वामी जन जागरण के प्रतीक है। उन्होंने सोते हुए मानवों को जगाया और उन्हें एक नवीन प्रेरणा, नवीन दिशा प्रदान की।

मानव ने अंगड़ाई लेकर करवट बदलना छोड़ दिया क्योंकि सोता हुआ मानव ही करवट बदलता है। जो अंगड़ाई लेकर जागता है वह फिर सोता नहीं। अगर जागने के बाद तत्काल ही सो जाये तो ऐसा व्यक्ति आलसी या प्रमादी माना जाता है। प्रमादी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। कानजी स्वामी पहिले स्वयं जगे तब बाद में दूसरों को जगाया।

व्यक्तित्व के धनी कानजी स्वामी का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जो जनता पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। वे जो कुछ कहते हैं वह उनके अन्तरंग की आवाज होनी है और कहते समय इतने तन्मय, तल्लीन एवं आरम विभोर हो जाते हैं। जिसे सुनकर जनता गदगद हो जाती है।

२५/३० हजार जनता के बीच आपके प्रवचन में अपूर्व शांति बनी रहती है। क्या मजाल कि कोई चूँचपाट भी कर सके। स्वामी जी का प्रवचन श्रोताओं के अन्तरंग को छूता है। एक सही दृष्टि प्रदान करता है। अध्यात्म की इतनी भीड़ अन्यत्र देखने में नहीं आयी। आपके प्रवचन के समय कई दशक टेपरिकाडिंग यंत्र रख दिये जाते हैं। और अध्यात्म प्रेमी सज्जन चाहे जब टेपरिकाडिंग के माध्यम से स्वामी जी के प्रवचन का लाभ लेते हैं।

सुगठित देहयष्टि, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, देदीप्यमान् कांतिमान्, मुख, बाजानु लटकती भुजायें, मृदुमुस्कान बखेरती हुयी मुखाकृति, वार्षक्य के भार से थका शरीर, "समझन पड़े छै के नहि" शब्दों द्वारा आत्मीयता बखेरते हुये श्री कानजी

कहान-गुरुदेव विशेषार्क

स्वामी का अद्भुत व्यक्तित्व है। जिसने आज तक कानजी स्वामी को न देखा हो वह आपके टैप किये हुये प्रवचन को सुनकर आपके व्यक्तित्व का पता अच्छी तरह लगा सकता है।

युगनेता युग पुरुष :— जो युग (समय) के साथ चलते है या युग में ढल जाते हैं वे सामान्य मानव हैं। और जो नवीन दिशा बतलाकर मानव समाज को लेकर नेता साथ चलते है वे युग-नेता हैं, और ऐसे पुरुष उस युग के युग पुरुष माने जाते हैं।

अध्यात्मके विषय में कानजी स्वामी की सेवायें अभूतपूर्व एवं भ्रसाधारण (२० शती में) मानी गयी हैं। अतएव वे इस युग के युग पुरुष और युगनेता हैं।

तीर्थघाम सोनगढ़ :— प्राचीन युग में इसे सोनगढ़ कहते थे, सोनगढ़ का अपभ्रंश सोनगड़ हो गया है। सोनगढ़ का अर्थ होता है स्वर्ण के अलंकार आभूषण बनाने वाला कुशल शिल्पी स्वर्णकार। जबसे स्वामी जी के सोनगढ़ में चरण पड़े, या अपना निवास स्थान बनाया तब से सोनगढ़ स्वर्णपुरी हो गया। कानजी स्वामी भी एक कुशल शिल्पी स्वर्णकार की तरह है जिन्होंने अध्यात्म विद्या के अनेक अलंकार गढ़े हैं (श्री रामजी भाई, श्री खीम जी भाई, श्री बाबू भाई आदि)।

और आज सोनगढ़ एक तीर्थ घाम के रूप में है। गिरनार पालीताणा की, यात्रा करने लक्षाधिक यात्री सोनगढ़ अनिवार्य रूप से आते ही हैं। तीर्थ क्षेत्रों की यात्रायें तो ठण्ड के दिनों में की जाती है। पर सोनगढ़ तो प्रतिदिन शताधिक यात्री आते ही रहते हैं। इस दृष्टि में सोनगढ़ का महत्व एक तीर्थघाम से कम नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यहाँ शनाधिक परिवार अपने-२ बंगले बनाकर स्थायी रूप से रहते हैं और धर्म साधन करते हुए स्वामी जी के प्रवचनों का लाभ लेते हुए सुख शान्ति पूर्वक जीवन यापन कर रहे है। यहां प्रतिदिन मेला सा रहता है।

सोनगढ़ के सन्त कानजी स्वामी सोनगढ़ के ही सन्त नहीं, अपितु भारत देश के आध्यात्मिक सन्त है। यहां तो केवल एक ही चर्चा है वह है "शुद्धात्मा" की। "शुद्धोऽसिद्धोऽसि" की अलख जगाने में स्वामी जी का जबरदस्त हाथ है सोनगढ़ की घरा के अणु-२ में यही अलख गूँज रही है।

सन्त वह है जो अधिक से अधिक समाज को देता है और कम से कम समाज से लेता है। सन्त का स्वभाव सूर्य की तरह होता है जो सार पदार्थ को ग्रहण कर असार को छोड़ देता है। सन्त पुरुष निन्दा और प्रशंसा से बहुत ऊँचे उठा होता

है। कान जी स्वामी का विरोध कम नहीं हुआ और वह आज भी हो रहा है। पर स्वामी जी की इस ओर अणुमान भी दृष्टि नहीं गयी। वे अपनी धुन के पक्के हैं, उन्होंने जो अनुष्ठान प्रारम्भ किया है उसकी पूर्णाहुति की प्रतीक्षा में रहते हैं। समय की पाबन्दी यहां की प्रमुख विशेषता है।

सोवगढ़ में क्या नहीं हैं? सभी कुछ हैं सभी प्रकार की सुविधा सम्पन्न एक सुन्दर कस्बा है। रेलवे स्टेशन, बसों की सुविधायें, पोस्ट तार फोन ऑफिस, बैंक, हाई स्कूल चिकित्साला, धर्मशाला, बिजली, नल, जैन विद्यार्थी गृह, महिलाश्रम, पत्र, प्रेस, प्रकाशन, मानस्तंभ सीमधर जिनालय, महावीर परमागम मन्दिर, स्वाध्याय मंदिर, बाजार, शुद्ध जलवायु, शांत वातावरण आदि सभी कुछ तो है।

रेलवे स्टेशन के सिवाय ये सारी व्यवस्थायें एवं नवीन निर्माण कार्य कानजी स्वामी के आगमन के कारण ही क्रमशः होते रहे हैं। भगवान महावीर की रजतशती निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में आगम पथ मासिक पत्रिका दिल्ली की ओर से परम आध्यात्मिक सन्त कान जी स्वामी के लिए “पत्रं पुष्पं फलं तोयं” के रूप में अभिनन्दनाञ्जलि समर्पित करने का जो प्रयास किया गया है वह सुन्दर है। संतों का सम्मान करना भी आवश्यक है। □

कौन जानता था कि उमरालानगर में श्री मोती चंद भाई की धर्मपत्नि श्री उजम बाई की कोख से सं० १९४६ बैसाख सुदी २ रविवार को ऐसा महान होनहार बालक का जन्म होगा? तत् समय एक ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक महापुरुष होगा। जिस प्रकार सूर्य प्रभात में खिल कर सारे विश्व में अपनी जग-मगाहट द्वारा प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार पूज्य कानजी स्वामी बाल अवस्था से सूर्य की किरणों की भांति दिन दूनी रात चौगुनी के अनुसार सारे देश में अध्यात्म क्यति फैला रही है।

सम्यक्दर्शन के बिना जीवन व धर्म नहीं है ऐसा अकाट्य सिद्धांत जो लोग भूल रहे थे उन्हें शास्वत किया।

आप इतने शांत हैं कि जिसका वर्णन करना असम्भव है। प्रथम बार इन्दौर सर सेठ हुकम चन्द जी सा० के समय जब पूज्य स्वामी जी इन्दौर पधारे तब मूहू, उसके बाद मोनगढ़, इन्दौर गवसी, भोपाल, प्रतापगढ़, रतलाम में दो बार साक्षात्कार हुआ, परन्तु ऐसा अध्यात्मवेत्ता, महान् शांतमूर्ति कि जिनके मुखमंडल पर परम शांति देखी जो कि किसी पर देखने में नहीं आई।

अंत में पूज्य श्री कानजी स्वामी को अत्यंत विनम्र भाव से हृदयाञ्जलि अर्पण करते हुए भावना करता हूँ कि ऐसा महान पुरुष चिरायु हों।

मोहन लाल छाबड़ा, रतलाम

एक दृढ़ व्यक्तित्वः श्री कानजी स्वामी हेमचन्द्र जैन 'चेतन' जयपुर



'हम जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए हम जैन हैं' ऐसा मानने वाले को तथा 'यह शास्त्र में लिखा है और शास्त्र जिनदेव की वाणी है, यदि हम इसमें शंका करेंगे तो हमारे निःशक्ति ग्रंथ नहीं पलेगा' इस भय से प्रयोजनभूततत्त्वों में हेय उपादेय की और हितहित की परीक्षा किये बिना ही जिनवाणी की आज्ञा मानते हैं उन्हें महापंडित टोडरमलजी ने मिथ्यादृष्टि कहा है । वह जैन बहलाने का पात्र नहीं है ।

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी श्वेताम्बर कुल में जन्मे, पले-पुसे और उसी संप्रदाय में दीक्षित होकर बड़े आचार्य पदपर भी आसीन हुए । पुष्य तो जोरदार था ही साथ में ज्ञान का क्षयोपशमभी अतः बहुत शीघ्र ही विद्वान् आचार्य के रूप में क्ख्याति अर्जित कर ली । इतना सब होते हुए भी उनका मन इस ओर रमा नहीं, जमा नहीं । वे जिस सत्य को पाना चाहते थे वह सत्य वहाँ मिल नहीं ।

वे सत्य की खोज में थे ही कि इसी बीच सौभाग्य से उन्हें 'समयसार' परमाणम पढ़ने को मिला, उसे पाकर वह इतने प्रसन्न हुए कि मानो कोई बड़ी भारी निधि मिल गई हो । इसके कुछ दिनों बाद 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह ग्रन्थ तो उन्हें इतना प्रिय लगा कि उसका सातवां अध्याय उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया जिसे सदा अपने पास रखते थे । बस, क्या था, ये दोनों ग्रन्थ अन्धे को दो आँखों जैसा काम कर गये । अब वे उन्हीं के अध्ययन-मनन में डूबने लगे । एकान्त में आकर समयसार का अध्ययन करते ।

धीरे-धीरे उन्हें उस सत्य की प्राप्ति होने लगी जिसे वे चाहते थे । और इसी

के साथ जिस अस्तम का चोला धारण कर रखा था प्रति उसके विद्रोह जाग्रत होने लगा और वह दिन भी शीघ्र आ पहुँचा जबकि उन्होंने अपने आपको दिगम्बर जैन घोषित कर दिया। वह तो अनुमान सहज किया जा सकता है कि इस परिवर्तन में उन्हें कितने प्रलोभनों का और कितनी धमकियों का सामना करना पड़ा होगा, परन्तु सत्य के अन्वेषी उस महापुरुष के चरणों में वे सब प्रलोभनों और धमकियों भरे तोप के गोले ठण्डे पड़-पड़ गये। उन पर कोई असर न कर सका, असर करता भी कैसे उन्होंने यह निर्णय किसी के दबाव में आकर या बहकावों में थोड़ी ही लिया था यह निर्णय तो उनकी अन्तरात्मा का दृढ़ निश्चय था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चे अर्थों में स्वामी जी ही जैन हैं।

हृष की बात तो यह है कि मात्र वे ही जैन नहीं बने, उनके उपदेश से, उनकी प्रेरणा से हजारों लोगों को नई दृष्टि मिली और वे दिगम्बर जैन बने। स्वामीजी ने दिगम्बर साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धि कुशाग्र, दृष्टि पैनी और अन्वेषणी तो थी ही फलतः जिस ग्रन्थ को पढ़ा उसका मर्म भी शीघ्र समझ में आ गया। उन्होंने जो पाया; उसे बाँटा भी दिल खोलकर। आज उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप घर-घर में आर्ष प्रणीत ग्रन्थों का पठन-पाठन होता है। सौराष्ट्र व गुजरात में ही नहीं बल्कि बम्बई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बंगलोर आदि में तथा माइरोबी (दक्षिण अफ्रीका) और अमेरिका में भी जिन जिन स्थानों पर जिन मन्दिर नहीं थे, परन्तु आवश्यकता थी; वहाँ पर मन्दिर बनवाये, जिनबिम्बों की स्थापना कराई, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई, मुमुक्षु मण्डलों व पाठशालाओं की स्थापना हुई, सामूहिक नियमित स्वाध्याय की प्रवृत्ति जाग्रत हुई, यात्रासंघ निकाले, पूजा-पाठ-भक्ति आदि में स्वयं सम्मिलित होकर उत्साहित किया।

स्वामीजी के ऊपर अक्सर यह आक्षेप किया जाता है कि स्वामीजी व्यवहार का लोप करते हैं और निश्चय पर विशेष जोर देते हैं परन्तु आक्षेपक यह भूल जाते हैं कि उन्होंने निश्चय व्यवहारनय को यथावत् समझा है तदनुसार वे विवेचना भी करते हैं, फिर भी जिस पूजा-पाठ-भक्ति, व्रत-उपवास आदि को वे व्यवहार कहते हैं उस व्यवहार का पालन स्वामीजी और उनमें श्रद्धा रखने वालों में पाया जाता है उतना सम्भवतः उन आक्षेपकों में भी नहीं पाया जाता हो। इसका परिचय स्वयं सोनगढ़ जाकर पाया जा सकता है तथा उसका प्रारूप यत्र-तत्र मुमुक्षु बन्धुओं में दिखा जा सकता है।

‘भगवान् आत्मा ……।’ गुरुदेव के मुँह से प्रवचन में बार-बार यह शब्द

दुहराया जाता है, इसे सुनकर भी कुछ लोगों को इसमें दिखावटी या बनावटीपन की गन्ध आती है ! वे किसी पंथ ध्यामोह के वश यह भूल जाते हैं कि यह बनावटी डंग नहीं यह तो अन्तरात्मा की आवाज है । उन्होंने स्वभाव से सभी आत्माओं को भगवानवत् देखा है और अनुभव किया है । अतः उनके मुँह से आत्मा के प्रभावोत्पादक शब्द निकलते हैं तो क्या आश्चर्य ।

वर्तमान में भगवान आत्मा की प्रभावना का पूर्णतयाः श्रेय पूज्य गुरुदेव की ही है, नहीं तो इस भौतिक और कर्तावाद के युग में आत्मा लुप्त प्रायः हो गया था जिसका उद्घाटन कर पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर महान-महान उपकार किये हैं । वास्तव में हमने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझा ही नहीं है, यदि समझा होता तो हम इस तथ्य से अपरिचित नहीं रहते कि जिस आत्मा की बात गुरुदेव कहते हैं तथा शास्त्रों में जिस आत्मा का उल्लेख है वह चेतन तत्व में ही है, वह ज्ञानानन्द स्वभावी, अजर-अमर अविनाशी, उत्पाद व्यय रहित ध्रुवतत्व, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा में ही है ।

निश्चय-व्यवहारनय, निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग, निमित्त-उपादान पुण्य-पाप की एकता, क्रमबद्ध पर्याय, समस्त द्रव्यों की स्वतन्त्रता की उद्घोषणा गुरुदेव की वाणी में निरन्तर हुआ करती है ।

इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग अज्ञान से भ्रम उत्पन्न करते हैं । वे कथन का अभिप्राय तो समझते नहीं अथवा समझते भी है तो अपनी रूढ़ मान्यताओं को चोट लगती जानकर भ्रमित हो जाते हैं और पंथ ध्यामोह में पड़कर अन्य अल्पज्ञों को नय कहते हैं । वाणी इतनी समर्थ नहीं है कि वह एक साथ ही वस्तु के अनेकान्त स्वरूप का कथन कर ले एक बार में वस्तु के एक अंग या गुण का ही कथन हो सकता है । वक्ता जब एक पक्ष को मुख्य करता है तब दूसरा पक्ष गौण होता है; अभाव नहीं । उदाहरणार्थ-मोक्षमार्ग के प्रकरण में पुण्य पाप को संसार का कारण होने से समान है, ऐसा कहने में सांसारिक अवस्था में पुण्य की अपेक्षा पाप हेय है, पुण्य उपादेय; यह स्वतः गौण हो जाता है । परन्तु लोग कुतर्क दे-देकर स्वयं पथभ्रष्ट होते हैं और दूसरों को करते हैं । कुछ लोगों को तो कानजी स्वामी, सोनगढ़, सोनगढ़ के विद्वान (जिसे वे सोनगढ़ी कहने हैं) सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित और प्रचारित साहित्य से इतनी चिढ़ होती है कि वे उस नाम का स्वयं प्रयोग तो दूर रहा, दूसरों के द्वारा सुनने पर भी मुँह फेर लेते हैं उनके अपने प्रवचनों, भाषणों में, प्रचार का मात्र एक ही विषय है और वह है सोनगढ़ का विरोध । वे ना समझ जनता को इस

प्रकार भ्रमित कर देते हैं कि उन्हें हेय-उपादेय का, हिताहित का निर्णय करने तक का अवसर नहीं देते हैं। अंध श्रद्धालु जनता नेभी उनके द्वारा दी हुई एकान्त पक्ष की पट्टी को ऐसी दृढ़ता से बांध रखी है कि आसानी से खुलना संभव नहीं है। उन्हें कोई सदुपयोग देकर वस्तुस्वरूप का यथार्थ विवेचन करके उनकी वह पट्टी खोलना चाहें तो वे तैयार नहीं क्योंकि उन्हें यह भय लगता है कि यदि हमें सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया और समयदर्शन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें जबर्दस्ती मोक्ष ले गया तो इस संसार में बचेगा कौन ?

कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तत्वों के व द्रव्यों के नाम तक नहीं जानते हैं और कहते हैं कि तुम सोनगढ़ी हो, यह सोनगढ़ का शास्त्र है, ये सोनगढ़ी विद्वान है— इत्यादि। अब हमारी समझ में यह नहीं आता उन्हें सोनगढ़, सोनगढ़ी विद्वान, और सोनगढ़ी शास्त्रों में ऐसी क्या दुर्गन्ध आती है, जो उन्हें असह्य हो जाती है।

पूज्यवर आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों का मात्र प्रकाशन, उनपर प्रवचन और उनका प्रचार-प्रसार सोनगढ़ से हो रहा है इसलिए वे सोनगढ़ी शास्त्र कहलाने लगे ? इसीलिए वे बहिष्कार के पात्र हो गये !! उनमें आग लगवाते हैं, मंदिर से बाहर फिकवाते हैं इत्यादि प्रकार से उपद्रव करते हैं। उन उपद्रवियों ने कभी उन शास्त्रों को आचार्य प्रणीत मूलग्रंथों से मिलाने की कोशिश ही नहीं की। यदि कोशिश की होती तो उनका यह भ्रम कभी का दूर हो जाता और वे सही रास्ते पर आ गये होते, क्योंकि उनमें कहीं एक अक्षर का भी फेर-बदल नहीं हुआ है।

हमें विरोध की जगह इसका श्रेय गुरुदेव को देना चाहिए कि जिनके प्रताप से आज सर्वत्र उन पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों समयसार, नियमसार, गोम्मतसार आदि तथा श्रावकाचार्यों का पठन-पाठन, मनन-चिन्तन प्रारंभ हुआ है। उन्हें घर-घर में पहुंचाया है, स्वाध्याय की प्रेरणा दी है, पाठशालाओं और स्वाध्याय शालाओं के माध्यम से उन शास्त्रों के मर्म समझने की योग्यता प्रदान की है; ऐसे महान उपकारी गुरुदेव का बहुत-बहुत आभार करना चाहिए, जिनके हम चिर ऋणी रहेंगे।

विरोध करने वालों के पास विरोध करने का कोई ठोस आधार तो है नहीं और न कोई तथ्य या प्रमाण ही है। वे कहते हैं कि इन शास्त्रों को मत पढ़ाना, इन बालबोध पाठमालाओं, अतिराग विज्ञान पाठमालाओं को बच्चों को मत पढ़ना, इनकी पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ने मत भेजना क्योंकि इन पुस्तकों में और इन शास्त्रों में विष भरा है; ऐसा सुनते-सुनते अब प्रबुद्ध पाठकों को, वह विष क्या है ? यह जानने की इच्छा होती ही तो उसका उत्तर वे उन भटकाने वालों से नहीं पा-पाते

हैं, तब फिर पाठकों को स्वयं ही वह विष निकालने को मजबूर हो जाना पड़ता है और वे प्रयत्न करके भी उन शास्त्रों को और उन पाठमालाओं (जिनमें विरोधी-श्रीम विष बताते हैं) को पढ़ते हैं, समझते हैं। तब उनको पता लगता है कि ओहो ! इन शास्त्रों और पाठमालाओं में तो कहीं भी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कोई कथन है ही नहीं। इनमें तो वह परम औषधि परम अमृत भरा है जिसका एक बार पान करने पर अनन्त भव भ्रमण का अन्त आ जाता है और यह भी समझ में आ जाता है कि उन भड़काने वालों की वाणी में विष अवश्य भरा है जो ऐसे जन्म मरण के नाशक परम अमृत के पान करने से वंचित करा रही है। मैं अब भी दुढ़ता के साथ कहूँ कि कोई निष्पक्षभाव से उन्हें पढ़ें और निष्पक्षभाव से स्वामीजी के प्रवचन सुनें तथा निष्पक्ष भाव से समझें तो वे कहीं भी कोई वस्तुस्वरूप का विरोध नहीं पायेंगे।

विरोध तो तब हो जब उन्हें किसी का विरोध करने का उद्देश्य हो, परन्तु उन्हें तो किसी का विरोध करना ही नहीं; मात्र अपना अविरोध ही उनकी वाणी में प्रकट होता है।

स्वामीजी के प्रत्यक्ष या परोक्ष में जो भी संपर्क में आया वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, चाहे वह कितना ही छोटा-बड़ा व्यक्तित्व क्यों न रहा हो। परन्तु स्वामीजी की यह विशेषता रही है कि वे उन सबसे अप्रभावित ही रहे। उनका लोभ कितना विरोध करते हैं किन्तु उन्होंने किसी विरोध का प्रतीकार नहीं किया; इसी प्रकार प्रशंसक भी उनके कम नहीं हैं परन्तु अपने प्रशंसकों को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया; बल्कि विरोधियों का मुकाबला करने वाले प्रशंसक भी उनकी दृष्टि में अच्छे नहीं हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी क्षताधिक जीवन की कामना करते हैं।



श्री गुरुदेव पधारे.....

—साल चन्द्र जैन 'राकेश' रामसेन (म० प्र०)

[राजस्थान के कोटा नगर में दि० २४-५-७५ से २-६-७५ तक "जैन दर्शन शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर" का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के मध्य १-६-७५ को श्री गुरुदेव कानजी स्वामी भी पधारे थे। प्रस्तुत गीत उस अवसर पर स्वागत-गान के रूप में रचा गया था।]

धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हैं भाग्य हमारे ।
आज श्री गुरुदेव पधारे, कोटा नगर हमारे ॥

[१]

"बाहर भोगों के अंगारे, भीतर रगों की ज्वाला ।
पीकर मिथ्यात्विक मदिरा, ये सारा जग है मतवाला ॥
भूल रहा है निज वैभव को, दर्शन-ज्ञान बिसारे ।"
उसे आत्म-रस पान कराने, श्री गुरुदेव पधारे ॥ धन्य.....हमारे ॥

[२]

स्वर्णपुरी में बैठ आपने, शिवपुर मार्ग बताया ।
पर दुर्भाग्यवशात् सकल जग, लाभ न लेने पाया ॥
अतः लिये जिनवाणी गंगा, देने जगत किनारे ।
नगर-ग्राम में अलख जगाते, कोटा नगर पधारे ॥ धन्य.....हमारे ॥

[३]

अगम, अपार, गूढ़ अर्थों को, रखती है जिनवाणी ।
राही रूप में तुम ही समझे, महावीर की वाणी ॥
"यह आतम है शुद्ध सदा ही" जग-हित वचन उचारे ।
"कर्त्ता-धर्त्ता स्वयं आपका, किसको कौन उबारे ॥ धन्य.....हमारे ॥

[४]

भटक रहा जग पर परिणति में, निज आतम को भूला ।
घन-दौलत को पाकर ऐंठा, फिरता फूला-फूला ॥
कहा इसे सत्य दशाति, "ये कुछ भी नहीं हमारे ।"
"करें परम उपकार जगत् का, जब तक रवि-क्षशि तारे ॥ धन्य.....हमारे ॥



जैन जगत के अद्वितीय सूर्य

□ उपसैन बण्डी, उदयपुर

आध्यात्म सन्त, समयसार मर्मज्ञ, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव काठियावाड़ में श्री मोती चन्द भाई की सहस्रमिणी माता उजम बाई के गर्भ से वि० सम्बत् १९४६ को वैशाख शुक्ला २ को अवतरित हुए। आपका कौटुम्बिक धर्म स्थानकवासी श्वेताम्बर सम्प्रदाय था। बाल्यकाल में ही आप विवेकी एवं तीक्ष्ण बुद्धि के थे। व्यवसाय काल में भी वैराग्यमयी साहित्य का अध्ययन करना आपका लक्ष्य था। पिता श्री को आपने स्पष्ट व्यक्त किया था कि यह मनुष्य पयाय पंच इन्द्रियों का भोग भोगने को नहीं बरन् जन्म मरण का अन्त करने को है। ब्रह्मचर्य को अपना भूषण बना स्वामी जी सदैव विकथाओं से विरक्त एवं सतसंग में अनुरक्त रहे।

वैराग्य रंग लाया और परिणाम स्वरूप आपने श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय के साधु पद की दीक्षा ग्रहण की। आपकी पावन, प्रखरबुद्धि एवं अद्वितीय प्रवचन शैली ने हजारों श्रावक-श्राविकाओं को प्रभावित किया। आचारित एवं संश्रित जीवन बिनाते हुए आपने सम्प्रदाय के साधुओं में गरिमा भरा पद प्राप्त किया। परन्तु वीतरागता, के अनुमन्धान में रत स्वामी जी को सन्तोष नहीं हुआ।

आखिर “जिन जिजा तिन पाइयां” का मुहावरा चरितार्थ हुआ और आपको आचार्य कुंद कुंद द्वारा प्रणीत परमं आध्यात्म ग्रन्थ “समयसार” प्राप्त हुआ। आपने इस ग्रन्थ का अध्ययन वन, गुफाओं में गुप्त रह ऋत ऋत्य हो किया। समयसार की प्रत्येक पंक्ति को आप हृदयागम करते रहे और इस ग्रन्थ को मनन, चिन्तन एवं आराधना का केन्द्र बना लिया। मनन, साधना में रत स्वामीजी को आचार्य कल्प पंडित टोडर मल जी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ भी मिला, उसका गंभीरता से अध्ययन करने पर आपका निर्णय रहा कि अब निजात्मा

से धोखा नहीं किया जा सकता। सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकते हुए सत्य को ही वे अपना जीवन समर्पण करना चाहते थे। अतः आपने स्वकाल कहे या काललम्बि, माथ्म का उदय कहे या पुरुषार्थ की प्रबलता से सं० १९६१ चैत्र सुदी १३ भगवान महावीर के जयन्ती दिवस पर दृढ़ विश्वास एवं अडिग श्रद्धा पूर्वक जर्जरित चोला छोड़कर अनादि सनातन दिगम्बर जैन धर्म को अन्तरत्तम से स्वीकार किया।

इस अद्वितीय परिवर्तन से समाज भीचबका हो, बौखला उठा। आपकी दोनों ही पक्षों में निन्दा, स्तुति होने लगी। नाना प्रकार के भय उत्पन्न करने पर भी आप सुमेरू पर्वत की तरह निश्चल, मौन अपने द्वारा प्रणीत विश्वास की साधना में अनु-रक्त रहे। दिगम्बर समाज के जन्मजात त्यागी, वृत्ति, पंडित एवं समाज के ठेकेदारों ने भी आपकी भरसक आलोचना की। परन्तु आपने अपने द्वारा गम्य मर्म का ५० वर्षों से धाराप्रवाही चहुंमुखी वाणी से देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले अज्ञान अंधकार को नष्ट किया। आत्म हित की वाणी ज्ञान गंगा की तरह तरंगित हो मुमुक्षुओं के उपकार का कारण बनी। आप स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक ग्रन्थों का मर्म निकाल कर मुमुक्षुओं को परोसने लगे और उसके परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में ग्रन्थ छप कर जिज्ञासुओं को उपलब्ध होने लगे। पंडितों व साधुओं की घरोहर अब श्रावकों की घरोहर बन गई। पठन पाठन प्रारम्भ हुआ और बहती हुई ज्ञान गंगा से जड़ चेतन मन्दिर प्रक्षालित हुवे।

स्याद्वाद अनेकान्त, निमित्त-उपादान, निश्चय-व्यवहार, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, स्वपर, द्रव्य-गुण-पर्याय की स्वतन्त्रता आदि बिन्दुओं को आपने युक्ति, प्रमाण एवं अनूठे ढंग से स्पष्ट करते हुए सम्यग्दर्शन की महिमा बतलाई। आपके प्रवचनों के प्रभाव से नगर-नगर में नवीन भव्य जिनालय, स्वाध्याय भवन आदि निर्मित हुए, स्वाध्याय मण्डलों की स्थापना के साथ पंच कल्याणक एवं शिक्षण, प्रशिक्षण, शिविरों की व्यवस्थाएँ हुईं। जिससे हजारों की संख्या में समाज के वृद्ध, स्त्री, पुरुष एवं बालक-बालिकाओं ने प्राप्त किया। मानो आध्यात्मिक चेतना का घर-घर में जागरण हुआ जिससे क्रिया काण्ड व राग की कर्तृत्व बुद्धि की जड़ें खोलली हुईं।

पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी से पंचम काल भी धर्मकाल सा प्रतीत होने लगा है।

आपके सतत् सोनगढ़ विराजने से आप सोनगढ़ के क्रांतिकारी सन्त के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आपके सानिध्य से सोनगढ़ का कण-कण पवित्र हो गया है। जिना-कहान-गुरुदेव विशेषांक

अथ, स्वाध्याय भवन, मान स्तम्भ एवं परमायम मन्दिर की रचना ने सोनगढ़ को पावन, प्रसिद्ध तीर्थ बना दिया है। इन भवनों की कला कृतियाँ बहुत अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ साक्षात् समोशरण लगा हो। ज्ञानार्जन की दृष्टि से वर्ष भर में शैक्षणिक कक्षाएँ भी आयोजित की जाती हैं जिसमें सँकड़ों मुमुक्षु भोजन, निवास आदि की सुविधा सहित कुशल शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

गुरुदेव की अंतरंग एवं बाह्य लक्ष्मी का स्पष्ट दिग्दर्शन इन नगरी में दृष्टिगत है। बाह्य लक्ष्मी तो सबको नजर आती है पर अंतरंग लक्ष्मी का सानिध्य भाग्यशाली, बीतराग मार्गी विरले ही भव्य जीवों को प्रतीत हाती है।

अलौकिक बात तो यह है कि यहाँ ६० प्रतिशत सशक्ति गौतम गणधर जैसे जीवों की शंका का समाधान युक्ति, न्याय एवं तर्क द्वारा होता है। जिससे वे विरोधी न रहकर आत्म रस के रसिया के ज्योतिर्मयी प्रभावशाली वाणी में लाभान्वित हो अपने आपको कृत कृत्य मानते हैं।

स्वामी जी स्व-पर कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त हो, दिगम्बर शासन एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता में चार चांद लगा रहे हैं।

ऐसे महान सन् पुरुष स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध में मुझ अल्पज्ञ द्वारा जो भक्ति के बशीभूत श्रद्धामुमन समर्पित है, वे पाठकों के हृदय का हार बनें। ★

चारित्र्यमय मुनिदशा की अचिंत्य महिमा—

गुरुदेव अपने प्रवचन में अनेक बार दिगम्बर सन्त मुनिवरों के प्रति भक्तिपूर्ण उद्गार निकलते हैं। “णमो लोए सव्वसाहूण” पद का जब आप विवेचन करते हैं तब श्रोतागण मुनिवरों की भक्ति से गद्गद् होकर रोमान्वित हो उठते हैं। भगवाद् कुन्दकुन्दाचार्य देव, अमृतचन्द्राचार्य देव, धरसेनाचार्य देव, पद्मनन्दी आचार्य देव, वीरसेनाचार्य देव, समन्तभद्राचार्य देव, नेमिचन्द्राचार्य देव इत्यादि दिगम्बर सन्तों का स्मरण करके जब आप भक्ति से कहते हैं कि अहो ! छट्टे सातवें गुणस्थान में आत्मा के आनन्द में झूलने वाले और वन जंगल में बसने वाले उन बीतरागी सन्त मुनिवरों को क्या बात करें ! ! हम तो उनके दासानुदास हैं। अभी हमारी मुनिदशा नहीं अभी तो उसकी भावना भाते हैं। उस मुनिदशा की क्या बात ! ! उनका दर्शन होना भी बड़ा धन्यभाग्य है।

श्री कानजी स्वामी—एक आध्यात्मिक पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी

जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैठ
मैं बोरी ढूँढ़न गई रहीं किनारे बँठ ॥'

दशरथ लाल जैन रिटा० हे० भा०, सिचनौ, ब० प्र०

अद्यावधि मेरी धारणा यही बद्ध भूल रही कि रोज सबेरे मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजा करना, सूत्र जी भक्ताभर का पाठ करना, व्रत नियम लेना आदि पुण्य कार्य धर्म है और ऐसा करते-करते परम्परा से आत्म कल्याण हो जायेगा। यह रूढ़ी प्रायः आज भी सर्वत्र मान्य चली आ रही है परन्तु वर्णी द्वय और कुछ प्रसिद्ध विद्वानों को छोड़कर हमारे किन्हीं विद्वानों के मुख से आज तक प्रवचन न सुना कि मात्र पुण्य की दृष्टि से किया कार्य संसार भोग कामना की दृष्टि है मोक्ष की नहीं मोक्ष तो आत्म दृष्टि से प्राप्त है छः द्रव्यों का सामान्य और विशेष गुण क्या होते हैं और उन की क्या उपयोगिता है सात तत्त्वों में भूल कैसी और किस तरह होती है निश्चय और व्यवहार किसका नाम है और उसको बिना जाने धर्म में कैसा अन्ध विश्वास चलता है तथा अगृहीत मिथ्यात्व किस तरह जैनियों में चिपका रहता है कथन शैली को किस तरह समझ कर किसका क्या भाव लेना आज तक समझ नहीं पा रहे थे वाचना-पुच्छना-आगम-आम्नाय-धर्मोपदेश का क्या क्रम है, शब्दार्थ-नयार्थ-मतार्थ-आगमार्थ के बाद भावार्थ कैसे ग्रहण किया जाता है व्यप्य व्यापक भाव निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रत सम्यक मिथ्या, अनेकान्त आदि अनेक इस मनुष्य भव दुर्लभ तत्त्व ज्ञान और उसके निर्णय की आवश्यकता आदि सबका गूढ़तम आगम मंधन जिस सत् पुरुष के अलौकिक दिव्य ज्ञान से जन साधारण के लिये सुलभ हुआ वह उनकी अनुपम सुझ की देन है।

हम नास्ति रूप से जो कहते हैं और आचार्य ने भी व्यवहार से उपदेश में कहा है कि क्रोध भाव माया लोभ मत करो, राग द्वेष मत करो, पाँचों इन्द्रियों के विषय में रत मत होओ, पर इससे और ऐसे हजारों उपदेशों से कुछ हुआ नहीं और कुछ हो सकता नहीं। कारण ऊपर से नियम लेकर अन्तर में नियत साफ नहीं होने से भाव शून्य क्रिया व्यर्थ ठहरती है क्योंकि जैन धर्म में भावों से पुण्य पाप का बंध माना गया है। स्वामी जी ने सच्चे धार्मिक बनने की युक्ति सुझाई कि भाई अस्ति रूप से अपनी आत्मा की शुद्ध बीतरागी परिणति-अरागी अकषायी स्वभाव की प्रतीति श्रद्धा करो, उसके सन्मुख होओ, उसे पकड़ो तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति-धर्म में प्रवृत्ति चर्चा हो तो विषय कषाय स्वयं छूट जायेगे। उसे ही व्यवहार में विषय कषाय छोड़ा कहा जावेगा। बलात् छुड़ाना न पड़ेगा और वह कार्यकारी भी नहीं है। जैसे प्रकाश करने से अन्धकार स्वयं भाग जाता है अन्यथा अन्धकार के पीछे कितना भी लठ लेकर पीछे पड़ो वह भागेगा नहीं। धर्म के क्षेत्र में हमारी पुरानी रूढ़ीवादी समाज के नगर नगर और जन जन में यह रहस्य कर्णगोचर होते जा रहा है, यह उनके उत्कृष्ट पुण्य का निमित्त ही मानना चाहिये। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक लाने में जिस तरह ईथर (Eather) माध्यम है उसी तरह उस आध्यात्मिक पुण्यशाली पुरुष का आध्यात्मिक कल्याणकारी पुण्य माध्यम (medium) है।

हमारे धर्म के मृत शरीर में आचार्य कुन्द कुन्द के वचनानुसार आत्मा धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा कर धर्म में स्थितिकरण किया जा रहा है वर्तमान में प्रचलित धर्म क्रिया और रूढ़ी से त्रस्त हो आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग कहने लगा है कि मंदिर जाने में क्या रखा है। इसलिये मंदिर जाना वे लोग बंद करते जाते हैं क्या यह भयावह (Alarming) स्थिति समाज को सचेत करने के लिये पर्याप्त नहीं है? क्या किसी कवि के शब्दों में हमारी यह स्थिति नहीं है?

आत्म की चिन्ता नहीं किसी को,
तन पर चन्दन मला जा रहा।
अर्थ हीन सरगम के बल पर,
भावुकता को छला जा रहा ॥ इसे क्या कहूँ ?
भूखी है भावना भोग,
दुनियाँ मंदिर को लगा रही है।
टूटे हुए स्वप्न की काया,

पर रेशम जगमगा रहा है ॥ इसे क्या कहूँ ?
 मेरे युग के पहरेदारों,
 पूँछ रहा तुम से उत्तर दो ।
 लुप्त कर दिया आत्म धर्म को,
 और व्यवहार अमर कर दिया ॥ इसे क्या कहूँ ?
 जो उज्याले के विरुद्ध है,
 उनसे बात कोई क्या कहे ?
 जब वे अंधकार के स्वागत,
 में अभिनन्दन पत्र पढ़ रहे ॥ इसे क्या कहूँ ?

पुरानी परिपाटी के स्थिति पालक लोग उन्हें बदनाम करने को टिके है कि ये व्यवहार धर्म को नहीं मानते । क्या यह गुजरात के सँकड़ों मंदिरों के निर्माण से आज झूठ सिद्ध नहीं हो रहा है ? पर क्या करें फूटी आँख विवेक की कहा करे जगदीश । दूसरे यह कहना कि ये चारित्र्य पालने का उपदेश नहीं देते तो कोई इनसे पूछे कि ये तुम से चारित्र्य में कितने भ्रष्ट है और तुम चारित्र्य की बात करने वाले चारित्र्य के किस शिखर तक पहुँच गये मंदिर में गा बजा कर पूजा कर लेने मात्र से अपने को श्रेष्ठ मान बैठना तो अपने चांटे गोरे बनने जैसा है मंदिर के बाहर आज भी हम अधर्मी जैसी प्रवृत्ति गं है उनसे किस बात में श्रेष्ठ है कभी अपने आस्तीन में मुँह डालकर देखा ये तो हमारी घोर आत्म वंचना है दूसरों और खुद को बड़ा धोखा है समाज को धोखे में रखकर उसे वैसे ही गुमराह करना है जैसा कि किसी कवि ने कहा है, "कुछ अंध असुझन की आखियाँ में झौंकते हैं रज राम दुहाई ।"

धन्य है स्वामी जी को और उनके सहयोगी व्योवृद्ध श्रीराम जी भाई, खेमजी भाई, बाबू भाई, नेम चंद भाई, चिमन भाई, जिनके सहयोग से वर्ष में ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु में धर्म शिक्षण शिविर का सफल आयोजन होते रहता है । पं० हुकम चन्द जी, पं० नेमी चन्द जी, श्री युगल जी, पं० धन्ना लाल जी आदि जयपुर टोडरमल स्मारक भवन के कर्णधारों के सहयोग से मिशिनरी स्प्रिट से निष्पृह प्रध्यात्म का अच्छा खासा ठोस प्रचार हो रहा है । हमारे आज के नाटकीय ढंग पर होने वाले गजरथ और पंचकल्याणकों को देखते हुए और सोनगढ़ और जयपुर से आयोजित धर्म-शिक्षण शिविरों में आत्महितकारी तत्वज्ञान का प्रचार और प्रसार देखकर कहना पड़ता है कि हमारे और इनके धार्मिक क्रिया में कितना अन्तर है ; इन शिविरों में जीवित इंसानों में कैसे धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और हमारे यहां हजारों

प्रतिमाओं के रहते निर्जीव प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा कर धर्म की इति श्री मान ली जाती है। हमारे और इनके कार्यों में कितना जमीन आसमान का अन्तर है? हमें कुछ है कि पुरानी परिपाटी के कतिपय विद्वान और समाज के कुछ कर्णधार अध्यात्म की इस श्री बुद्धि को न देख सकने और न समझ पाने के कारण इस प्रवाह को रोकने का असफल और हास्यास्पद प्रयत्न कर रहे हैं। अनेकान्त दृष्टि और अमितगति आचार्य के “माध्यस्थ्य भावं विपरीतवृक्षों” को भुला कर यदातदा हिंसक तरीके तक अपनाने से नहीं चूकते स्वयं रूढ़ी को धर्म मानकर एकान्ती व्यवहाराभासी हैं पर दूसरों को निश्चयाभासी एकान्ती कहकर घृणा और कलह के बीज बो रहे हैं और हर तरह से आध्यात्मिक प्रचार के आड़े आ रहे हैं यह तो अब ऐसा ही प्रयत्न है जैसे एक बुढ़िया झाड़ू से समुद्र की पीछे ढकेलने का प्रयत्न करे आध्यात्मका यह प्रबल प्रवाह तो रुकने वाला नहीं है कुछ काल तक ये संघर्ष यत्र तत्र भले ही चलें पर अंत में शान्त होना पड़ेगा दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से समाज ने इस प्रवाह को आत्मसात करने की क्षमता न दिखाई तो व्यवहाराभासी रूढ़ीवादी स्थितिपालक दल और अध्यात्मवादी दल इन विरोधियों की कृपा से निश्चित बन जावेगे। समाज नीति में और राजनीति में बहुमत का सिद्धान्त भले ही मान्य हो पर धर्म क्षेत्र में यह सिद्धान्त अमान्य ही रहेगा। इसे लोगों को खूब समझ लेना चाहिये। हम तो कहते हैं :—

तुम भी रहो रहेंगे हम भी,

नहीं हमें तुम हटा सकोगे।

तुम आये बनकर तूफान,

यहां बिछाने को अवसान।

बैठ गये हम पृथ्वी तल पर,

अचल अटल बनकर चट्टान।

निकल गये तुम कैचुल अपना छोड़,

अपनी ही कुछ सुन्दर प्रकृति मरोड़।

क्या जीवन आयाम हमारा,

थोड़ा भी नहीं पटा सकोगे।

तुम आये बनकर भूडोल,

हिले हिलाते अखिल खगोल।

लेट गये हम मृतवत् क्षण को,
 निकल गये तुम हृदय टटोल ।
 हिले डूले तुम भय से अपने आप,
 चले गये तुम वन अपने अभिशाप ।

तोड़ फोड़ अपनी सीगाएँ,
 क्या तुम हमसे बढ़ा सकोगे ।
 हम है चेतन तुम निष्प्राण,
 कुन्ठित सभी तुम्हारे बाण ।
 गये सदा तुम कर कितना उत्पात,
 गये हिला तुम अपने ही तरुपात ।
 रह न सकोगे तुम भी जो तुम,
 बात न हमसे पटा सकोगे ।

“दिव्य”

कोई माने या न माने स्वामी जी का अखिल जैन-संसार पर आत्म-जाग्रति का अभूतपूर्व उपकार है । उनकी कीर्ति दिग्दिगत व्यपनी अक्षुण्ण और चिरस्मरणीय है । यह कानजी युग के नाम से इतिहास के पृष्ठों में अमिट छाप बनके रहेगा ।

आत्म-दर्शन

दानियों को देखना तो तीर्थों पर जाइये,
 संगमर्मर पर खुदे हैं नाम खुद पढ़ जाइये,
 धर्म और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जायेंगे,
 आत्मा को देखना तो सोनगढ़ में जाइये,

—हजारी लाल 'काका'

संस्मरण

उदासीन ब्रह्मचारी

डॉ० राजेन्द्रकुमार बंसल, शाहबोल (म० प्र०)

घटना उस समय की है जब कि मैं सन् 1957 में श्री दिगम्बर जैन छात्रावास जबरीबाग नसिया इन्दौर में रहकर बी० काम० अध्ययन कर रहा था। श्री कानजी स्वामी अपने संघ सहित इन्दौर में एक सप्ताह हेतु आ रहे हैं इस समाचार ने वहाँ के जैन समाज में खलबली मचा दी। कुछ तत्व प्रेमी बन्धु जहाँ उनके निवास, भोजन एवं प्रवचन हेतु पंडाल आदि की व्यवस्था कर रहे थे तो कुछ विरोधी विद्वान उनका संगठित विरोध करने हेतु योजनायें बनाने में तत्पर थे। पक्ष-विपक्ष वालों ने अपने-अपने समर्थन में ऐसा बुझाचार प्रचार किया जैसा कि चुनाव के समय भी दृष्टिगोचर नहीं होता। दोनों पक्षों के स्थानीय एवं बाहरी मूर्धन्य विद्वान भी वहाँ यथा समय पहुंच गये। इस वातावरण के बीच में अन्ततः श्री कान जी स्वामी अपने संघ सहित इन्दौर पहुंचे और उन्हें जबरीबाग में ही ठहराया गया।

प्रारम्भ से ही घर्ष भीरू होने के कारण मेरी भी रुचि श्री कानजी स्वामी के पक्ष एवं विपक्ष वालों के विचारों को जानने में हुई। विद्वानों से भी सम्पर्क किया। चर्चा के मध्य विरोध के कारणों से अबगत हुआ। वहाँ पर यह बात फैला दी गयी थी कि श्री कान जी स्वामी किसी से चर्चा नहीं करते, और न किसी की शंका आदि का समाधान ही करते हैं। व्यर्थ के विवाद से अपनी शक्ति को बचाये रखने का यह तरीका भी अपने में अनूठा है। मेरा मन उद्वेलित हो उठा और यह निश्चय किया कि अवश्य ही एक बार स्वामी जी से चर्चा करूँगा। यह विचार आते ही मैंने एक प्रश्न सूची बना डाली। जिसका प्रथम प्रश्न यह था कि साधक की दृष्टि से आपकी भूमिका क्या है? इसी प्रकार से उनके व्यक्तिगत तथ्यों से सम्बन्धित 8-10 प्रश्न और थे। तत्वज्ञान न पहले था और न अब है अतः उस सम्बन्ध में शंका उठने का प्रश्न ही नहीं था।

मैंने स्वामी जी की निजी परिचर्या करने वाले महानुभाव (जिनका नाम स्मरण नहीं है) से सम्पर्क स्थापित किया और प्रश्न सूची दिखाकर उनसे निवेदन किया कि वह 5 मिनट के लिये स्वामी जी से भेंट करवा दें। कुछ संयोग की बात थी कि उनके प्रयास से दूसरे दिन प्रातः काल मेरा स्वामी जी से मिलने का समय निर्दिष्ट कर दिया गया। छात्रावास में यह बात द्रुतगति से फैल गयी कि मुझे स्वामी जी ने मिलने हेतु समय दिया है। मेरे अनुमान से वहाँ मैं ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसे अबसर मिला। मैं इसमें बड़प्पन महसूस कर रहा था। रात्रि का समय काटना मेरे लिये दुष्कर हो रहा था। करवटों बदलते अंततः सुबह हुआ और मिलने का समय निकट पहुंचा।

बड़ी ही अद्भुतभाव से मैंने स्वामी जी की चरण रज अपने मस्तिष्क पर लगायी और उनसे पूछा कि धार्मिक भूमिका में आपका क्या पद है? उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि मैं उदासीन ब्रह्मचारी हूँ। लोग अज्ञान में ही मुनि के सादृश्य मेरी तुलना करते हैं। मैं तो अन्नती सम्यक्त्वी हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न था कि आप लोगों की शंकाओं का समाधान क्यों नहीं करते इससे भ्रम एवं विरोध बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यदि शंका ही तो उसका समाधान किया जा सकता है। तुम भी अपनी शंका का निराकरण कर रहे हो न। जब चर्चा का उद्देश्य टीका टिप्पणी, एवं कीचड़ उछालना ही हो तो उसमें समय एवं शक्ति बर्बाद करने में क्या लाभ यह उनका अज्ञान भाव है। एक के बाद एक मेरी सम्पूर्ण शंकाओं का समाधान हो चका था। बड़ी की सुई भी पाँच मिनट पूर्ण होने का संकेत दे रही थी। मैंने कृतार्थ भाव से उनके पुनः चरण छुये तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझे सोनगढ़ आने का निमन्त्रण दिया। मैं अपने को गौरन्वित अनुभव करता हुआ उनके सानिध्य से दूर होता हुआ किञ्चित् दुःख महसूस करता रहा। बाद में ज्ञात हुआ कि उन्होंने जैन समाज के मूर्धन्य विद्वानों से चर्चा करने हेतु एक घंटे का समय इस शर्त पर दिया है कि वह टीका टिप्पणी रहित अपनी समुचित शंकाओं का समाधान सहृदयभाव से करेंगे। इस बात की व्यतीत हुए 18-19 वर्ष हो गये किन्तु उनसे मिलने का जो अपूर्व आनन्द था एकान्त क्षणों में स्मृति-पटल का विषय बन कर आह्लादित करता रहता है। दुर्भाग्य का विषय है कि मैं अभी तक उनके निमन्त्रण को साकार नहीं कर सका, यद्यपि उनके उपदेशों का लाभ अप्रत्यक्षरूप से ले रहा हूँ।

ऐसे हैं श्री कानजी स्वामी जी तत्वज्ञान एवं प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच कर भी व्यक्तिगत व्यवहार में सरल, स्पष्ट, निर्मल निर्हंकारी, विनम्र, निस्पृही एवं

सहृदय हैं और शुद्धोपयोगरूप उच्च चारित्रिक भूमिका सम्बन्धित अपनी अशक्यता को स्वीकारने में किंचित भी संकोच नहीं करते और विरोधियों के कटु वाक् प्रहारों की चिन्ता किये बिना आत्म साधना में लीन रहते हैं। आधुनिक जैन जगत के अध्यात्मिक आन्दोलन के प्रणेता भूक आत्म योगी स्वामी जी को यदि कोई अपनी अज्ञानता से उनके पद एवं भूमिका को अन्यथा समझकर उन्हें अपनी दुर्भावनापूर्ण एकान्तिक आलोचना का विषय बनाये तो इसमें किसकी बुद्धि का दोष ? प्रत्येक विवेकवान् व्यक्ति को पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह छोड़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है।



सन् १९६८ में मैं बुरानपुर में सिविल जज था। गिरनार जी की यात्रा के लिये गया था। रास्ते में सोनगढ़ ठहरने का प्रोग्राम बना। प्रथम ही अवसर पर परमपूज्य स्वामी जी के दर्शन हुए। उनका प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य के अध्ययन का अवसर मिलता रहा।

आपके प्रवचनों में सदैव भेद-ज्ञान कराने की मुख्यता से निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान, कारण-कार्य की स्वतंत्रता का विशद विवेचन रहता है। इनके प्रवचन से तथा उनके समागम से मेरा सारा जीवन बदल गया। वस्तु की स्वतंत्रता का भान हुआ। मुझे सच्ची शांति इनके चरणों में ही मिली। आपका मुझ पर महान् उपकार है। मैं कभी भी उन्हें नहीं भूल सकता।

— फूल चन्द जैन,
अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र-वायावीश

समयसार एवं कहान गुरुदेव

मधुभाई जीन, जलगांव

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥

जो स्वरूप समझे बिना, पाये दुःख अनंत ।

समझाया वह पद, नमूँ श्री सद्गुरु भगवंत ॥

‘समयसार’ अर्थात् द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म से रहितचेतनागुणरूप शुद्ध आत्मा कि जो अपनी ही अनुभवनरूप क्रिया से सदा प्रकाशमान है, शुद्ध सत्तास्वरूप है और स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र, काल, संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जाननेवाला है; उसे मेरा त्रिकाल नमस्कार हो ।

ऐसे अतिशय महिमावान्त आत्मस्वभावको समझे बिना हे प्रभु ! मैंने अनंत दुःख पाये हैं । परन्तु हे परमकृपालु गुरुदेव आपने ऐसे अचित्त आत्मस्वभावको समझाकर इस दासपर अकारण करुणा की है । अतः हे कहान गुरुदेव ! आपके पुनीत चरणों में बारम्बार नमस्कार हों ।

आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी पूज्य स्वामीजी के द्वारा वीतराग धर्मकी महती धर्म प्रभावना हो रही है । अफ्रीका, आदि देशों में भी आज मुमुक्षु मंडल है और जहाँ नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय—तत्त्वचर्चा आदि विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और वीतराग वाणी का प्रचार...प्रसार होता है; जिसका सारा श्रेय पू० गुरुदेव को ही है ।

पूज्य गुरुदेव के जीवन में उथल-पुथल मचा देने वाली महान क्रांति तब हुई जब उन्हें सं० १९७८ में श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य विरचित श्री समयसार नामक महान आध्यात्मिक एवम् अलौकिक ग्रंथ की प्राप्ति हुई थी । समयसार पढ़ते समय उनके आनंदकी कोई सीमा नहीं थी । जिनकी खोज में आप थे वह आप को समयसार में मिल गया । श्री समयसार जी में लहराते हुए अमृत सरोवर को स्वामीजी के अंत-

बसुने देखा। एक के बाद एक गाथा पढ़ते समय महाराज श्री ने उस अमृत के अनेक बूँट पिबे और उनकी आत्मा मानों तृप्त तृप्त हुयी।

ब्रह्माधिराज श्री "समयसार जी" ने स्वामीजी के ऊपर अपूर्व और अनुपम उपकार किया है। महाराजश्री के अन्तरंग जीवन में परम पवित्र परिवर्तन हुआ। झुकी हुयी परिणति ने निज घर देखा, स्वस्ता में स्वस्वामीपना आया, निज आत्म ब्रह्म का दावा (बच्चा) लेकर पर्याय की पामरताको सदा सदा के लिये मिटा दिया। मिथ्यात्व-अज्ञानका घोर अंधेरा 'सम्यक्त्व सूर्य' के उदय होते ही दूर हुआ। उपयोगरूपी शरने में अब शीतल अमृत का मीठा प्रवाह बहने लगा।

पूज्य स्वामीजी को श्री 'समयसारजी' के प्रति उत्कृष्ट दृष्टि है और क्या न हों? जबकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के भाव समाये हुए हैं। जिस समयसार के पठन मात्र से मिथ्यात्वके रुज्जुत बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, अनादिकालीन मूर्च्छा शीघ्र ही दूर हो जाती है और निज परिणति विभावों से रुक कर स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है। जो समयसार राग और ज्ञान की अतिसूक्ष्म संघी को छेदने के लिये प्रजाईजी है, जो साधक संतो का साथी है, जगत का सूर्य है, भगवान महावीर और सीमंधर परमात्मा का साक्षात् संदेश है; भवभ्रमण से थकित जीवों का जो विश्रामघान है उसके प्रति इतनी निष्ठा, भक्ति, विनय और बहुमान का होना स्वाभाविक ही है।

इस परम पावन समयसार शास्त्र को स्वामी जी ने सैंकड़ों बार पढ़ा है और प्रतिदिन ही पढ़ते रहते हैं। पूज्य स्वामी जी 'समयसार' शास्त्र को उत्तमोत्तम शास्त्र मानते हैं। सं० १९९४ में स्वाध्याय मंदिर में श्री 'समयसारजी' की मंगल प्रतिष्ठा करने में आयी। तब से आजतक जाहीर प्रवचन सभा में एक समय श्री समयसारजी पर प्रवचन नियम प्रतिदिन होता ही है और अब १७ वीं बार सामुदायिक सभा में स्वामी जी द्वारा समयसारजी का विशद प्रवचन हो रहा है।

'समयसार' पर प्रवचन करते समय स्वामीजी को अतिशय उल्लास आ जाता है। पढ़ते-पढ़ते क्षण भर के लिये तो आप स्वमें स्थिर हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि आप शास्त्र प्रवचन नहीं, परन्तु अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। अभी क्षणभर पहिले...आपके अनुभव में क्या आया...उसी को आप वचनों द्वारा प्रगट करते हैं। आपका कहना है कि समयसारजी की प्रत्येक गाथा मोक्ष की प्राप्ति करा दे ऐसी है। 'समयसार' में तो ज्ञानियों का हृदय खोलकर रख दिया गया है। जिसे एक बार 'स्व समयसार' की रचि हो जाये उसे फिर जगत के किसी भी पदार्थ में रचि नहीं रहती है।

विषय शुद्धात्म तत्त्व ही स्वीकार है, सुंदर है, अलौकिक है, महा महिमायुक्त पदार्थ है। अतिसय अद्भुत आश्चर्यवन्त पदार्थ यदि कोई है तो वह निष शुद्धात्म तत्त्व ही है। उसकी तुलना में जगत के सारे पदार्थ तुच्छ है, हेय है।

श्री 'समयसार' शास्त्र आत्म-स्वभाव का अद्वितीय ढंग से सम्पादन करता है। देखिये.....

अहमिकको खलु सुद्धो दंसणणामइओ सदाह्वी ।

णवि अत्थि मज्झ किच्चि वि अण्णं परमाणुमिंसिपि ।।

तथा

जो पस्सदि अप्पाण अबद्धपुट्टं घणणमविसेत्तं ।

अपदे स सन्तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ।।

जो पुरुष अपनी आत्मा को अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त देखता है वह सर्व जिनशासन को देखता है। अर्थात् जो अपनी आत्मा को इन पाँचों विशेषणों सहित अनंत गुण युक्त, अभेद रूप से जानता है और अनुभव करता है उसने जिनशासन के सारे रहस्य को समझ लिया। हाँ भाई! करना भी तो यही है... अपनी आत्मा में... अपनी अनुभूति... यह जिसने कर ली उसने जिनवाणी के भर्म को पा लिया।

'समयसार' शास्त्र में ६ तत्त्वों का वर्णन करने के साथ-साथ कर्ताकर्म का वर्णन करके तो कुन्द-कुन्दाचार्यदेवने कमाल ही कर दिया। मिथ्यादृष्टि जीव की पर पदार्थ के साथ की एकत्वबुद्धि है उसपर तो कर्ताकर्म अधिकार ने कुठाराघात करने जैसा काम किया है। वास्तव में जब तक पर पदार्थ के साथ की एकत्वबुद्धि और कर्तृत्वबुद्धि टूट नहीं जाती तब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता और सम्यक्त्व का अविर्भाव नहीं होता है। इस अधिकार के द्वारा कुंदकुंदस्वाधी ने तो हमें नई दृष्टि प्रदान कर सम्यक् ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है। "आत्मा" शरीर, मन, वाणी की क्रिया का कर्ता तो है ही नहीं क्योंकि उसके साथ तो अत्यन्त अभाव है। परन्तु अज्ञान दशा में होने वाले रागादिक परिणामों का भी कर्ता नहीं है। इतना ही नहीं आत्मा को शुद्ध परिणामों का कर्ता भी उपचार से कहा गया है। पर्याय का कर्ता पर्याय है द्रव्य नहीं; पर्याय की तत्समय की योग्यता ही उस पर्याय की उत्पादक है। इतनी परम निरपेक्षता की, स्वतंत्रता की ओर स्वाधीनता की बात कुंदकुदाचार्यदेवने की है।

भगवान् अमृतचंद्राचार्यदेवने भी आत्मध्याति टीका के अन्त में परिशिष्ट लिखकर आत्माकी अनंत शक्तियों में से ४७ असाधारण शक्तियों का अद्भुत विवेचन

कर आत्मा की व्याप्ति एवं महिमा को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। यदि भगवत्कुंदकुंदाचार्यदेव ने समयसाररूप भव्य प्रासाद का निर्माण किया है तो अमृत-चंद्राचार्यने भी उस पर कलश चढ़ाकर ध्वजा फहराने का कार्य किया है। ४७ शक्तियों पर प्रवचन करते समय तो स्वामी जी का अतःकरण गद्-गद् हो जाता है; आत्मा के अतींद्रिय आनन्द के अनुभव का रंग ऐसा चढ़ जाता है कि बस देखते ही ब्रनता है। अपने साथ-साथ श्रोताओं को भी वे मंत्रमुग्ध कर आत्मा की मस्ती में डूबो देते हैं।

श्री कुंदकुंदाचार्यदेव, अमृत चंद्राचार्यदेव, समन्तभद्राचार्य, उमास्वामी, योगीन्दुदेव आदि अनेक आचार्यों के रचे हुए सहस्रों शास्त्र आपने पढ़े हैं, चारों अनुयोगों के ग्रन्थ भी पढ़े हैं और उन्हीं ग्रन्थों में से आपने हजारों न्याय निकाले हैं। जिन भावों से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है वह भाव भी हेय है। शरीर के रोम रोम में तीव्र रोग होना वह दुःख ही नहीं है; दुःख का स्वरूप तो अलग ही है। मेरे प्रवचनों को बहुत से जीव समझें तो मुझ लाभ हो ऐसा मानने वाला मिथ्यादृष्टि उपदेशक हैं। इस दुःख को समता पूर्वक सहन नहीं करूँगा तो नवीन कर्म बंधें हम अभिप्राय से समता रखना वह भी सच्ची समता नहीं है। पंचमहाव्रत के पालन का जो शुभ विकल्प है वह पुण्य बंध का कारण है।

प्रत्येक प्रवचन में स्वामी जी सम्यक् दर्शन पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर की चमड़ी निकालकर उस पर नमक छीटने वाले पर भी क्रोध नहीं किया, इस प्रकार का व्यवहार चरित्र इस जीव ने अनंत बार पालन किया है। परंतु सम्यग्दर्शन एक बार भी पाया नहीं। लाखों जीवों को हिंसा से मिथ्यात्वका पाप अनंत गुणा अधिक है। लाखों करोड़ों जीवों में सम्यग्दृष्टि जीव बिरले ही होते हैं। सम्यग्दर्शन इतना सरल नहीं है जितना कि अज्ञानी समझता है।

मोक्ष अर्थात् परम सुख का कारण सम्यक् चरित्र है, सम्यक् चरित्र का कारण सम्यग्दर्शन है, सम्यग्दर्शन का कारण तत्त्वज्ञान व तत्त्वविचार है और तत्त्वज्ञान का कारण सर्वज्ञ बीतराग कथित आगम का अभ्यास है। इसीलिये मोक्षमार्ग में पहला उपाय आगम का अभ्यास है। इसीलिये मोक्षमार्ग में पहला उपाय आगम-अभ्यास कहा है; अतः यथार्थ बुद्धिद्वारा निर्णय सहित आगम का अभ्यास करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं और "गम पढया बिना आगम पण अनर्थकारक थइ पडे"। आगम के आर्ष वचन तो हैं परंतु उनका रहस्य तो ज्ञानियों के हृदय में होता है शास्त्रों के अर्थ करने की प्रवृत्ति का सही ज्ञान न हो तो अज्ञानी जीव शास्त्र को भी शास्त्र बना लेता है और स्वच्छंदी बन आत्मघात करता रहता है। आज के

समय में स्वामीजी सही मायने में “आगमपथ प्रदर्शक” है; मोक्षमार्ग के प्रणेता एवम् तत्पथानुयायि भी है।

पूज्य स्वामीजी को वीतरागी जैनधर्म पर अनन्य श्रद्धा है। अपने भानुभव के बल पर निकलती हुई उनकी न्याय से भरपूर वाणी अच्छे-अच्छे नास्तिकों को भी विचार करने पर मजबूर कर देती है। आपका कहना है “जैनधर्म कोई संप्रदाय नहीं है, यह तो विश्वधर्म है। वस्तुस्वरूप का सच्चा दिग्दर्शक तो केवल जैनधर्म ही है। सनातन दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा जैन धर्म है। तथा अंतरंग और बहिरंग दिगंबरता (अपरिग्रहता) के बिना कोई भी जीव मोक्ष नहीं पा सकता” यह उनकी बृह्द मान्यता है।

स्वामीजी कहते हैं “मुझपर भगवान श्री कृंदकृदाचार्यदेवका और उनके रचे हुए समयसारादि शास्त्रों का महान उपकार है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ।” ऐसा तो वे भक्तिभरे हृदय से अनेक बार कहते हैं। स्वामीजी सच्ची समझ पर भी बहुत भर देते हैं, प्रथम समझो, यथार्थ ज्ञान बिना व्रत, नियम, संयम, आदि निष्फल हैं।

गुरुदेव को ‘समयसार’ अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अजी क्या कहूँ समयसार ही स्वामीजी का जीवन है। उनकी वाणी में समयसार है, श्वासोच्छ्वास में समयसार है। उनकी हृदय बीणा के तार २४ घंटे समयसार के सुर सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं। उनके रोम रोम में समयसार समाया हुआ है। समयसार उनकी अंतरात्मा है। उन्हें निशदिन धुन रहती है तो वह समयसार की ही। उनकी दृष्टि सदा ‘समय-सार’ पर ही रहती है। ‘समयसार’ तो उनका जीवन साथी है। अहो! ‘समयसार’ तो मोक्षधाम में चलने के लिये एक रोशनी है। यही ‘समयसार’ आपको शीघ्र ही ‘समयसार’ (द्रव्यकर्म, नो कर्म, भावकर्म से रहित शुद्ध आत्मा तीर्थंकर पदवी सहित परमात्मा) बना देगा इसमें दो राय नहीं है।

पूज्य कानजी स्वामी भारत की महान प्रतिभाशाली विभूति है। बालब्रह्म-चारी कहान गुरुदेव एक अघ्यात्ममस्त आत्मानुभवी पुरुष है। आत्मानुभव उनके प्रत्येक शब्द में प्रतिबिंबित होता है। स्वामीजी भारत के अद्वितीय नर रत्न है। अधिक क्या कहे भारत भूमि के आंगन में शीतल छायायुक्त बाँधित फलदाता कल्प-वृक्ष फलित हुआ है।

अंत में “हमारा जीवन भी स्वामीजी के जीवन सद्ग ही ‘समयसारमय’ बन जावे ऐसी भावना सहित ‘समयसार स्वरूप’ कहान गुरुदेव को.....सविनय प्रणाम।

□

‘दिव्य प्रकाश रश्मि’

डा० राजेन्द्र कुमार बंसल,

धर्म जब भावहीन शरीरादि क्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है तो उसके द्वारा आत्म कल्याण की आशा करना तो दूर रहा वह स्वयं रुढ़ि एवं परम्परा के जाल में उलझकर इतना विकृत हो जाता है कि कालान्तर में वह अपना स्वरूपात्मक अस्तित्व खो बैठने की स्थिति में पहुँच जाता है। ‘धर्म’ यदि वह सच्चे अर्थ में ‘धर्म’ अर्थात् ‘स्वभाव’ रूप है तो वह कदापि विभाव रूप विकृतिर्यों में अपने को परिणत नहीं होने देगा। ऐसी स्थिति में धर्म के बाह्य क्रियात्मक रूप जितने भी होंगे वह सब स्वरूप प्राप्ति के साधक एवं सहयोगी होंगे न कि बाधक। जब हम मुक्ति, कल्याण या मोक्ष की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पर्य सदैव आत्मा के सम्बन्ध में होता है न कि शरीर के जिन शासन में आत्म कल्याण के शाश्वत् पथ को वीतराग विज्ञान या आत्म-विज्ञान के रूप में सम्बोधित किया गया है। जिस प्रकार जड़ पदार्थों का विश्लेषण एवं व्याख्या आदि का कार्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति आदि अन्य विज्ञान करते हैं। उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि का विश्लेषण एवं व्याख्या आत्म-विज्ञान या वीतराग-विज्ञान करता है। विज्ञान शब्द विशिष्ट, क्रमबद्ध एवं कार्य-कारण सहित अध्ययन एवं अन्वेषण का सूचक है। वीतराग-विज्ञान आत्मा का धर्म अर्थात् स्वरूप को बताकर उसकी वर्तमान अशुद्ध अवस्था का अनुसंधान करता है, अशुद्धता का कारण खोजता है, और शुद्धता हेतु मार्ग दर्शाता है। यह अनुसंधान एवं आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया एक साधक की दृष्टि से तब तक चलती है जब तक कि वीतरागता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता।

वीतरागता का लक्ष्य सम्यक् दर्शन-विज्ञान-चरित्र रूप मुक्ति पथ के अवलम्बन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि प्रथम आत्म कल्याण का है अतः संक्षेप में आत्म के धर्म एवं गुणों के प्रति आस्था एवं श्रद्धा, आत्म का ज्ञान तथा आत्मलीनता यही मोक्षमार्ग है। यह बात बहुत सीधी एवं सरल है। जब हमारी रुचि धनोपार्जन की होती है तो हम धन प्राप्ति के साधनों का ज्ञान करते हैं और फिर उनका उपयोग

कर धनार्जन करते हैं। इसी प्रकार आत्म बुद्धि की उत्कृष्ट इच्छा होने पर सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जाने कि आत्मा क्या है? और किसकी हम बुद्धि करना चाहते हैं? आत्मा का साक्षात्कार किये बिना हम उसके प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकते। आत्मा का साक्षात्कार शारीरिक व बाह्य अङ्ग क्रियाओं के माध्यम से सम्भव नहीं है क्योंकि वह अतिइन्द्रिय है। शारीरिक स्वयं अचेतन होने के कारण चेतन के ज्ञान का कारण कैसे बन सकते हैं? इसके लिये तो हमें अपने प्रकट सम्पूर्ण ज्ञान शक्ति को बाह्य ज्ञेय पदार्थों की ओर से लीचकर अंतर्मुखी करना होगा और इस प्रकार उसे आत्म केन्द्रित कर आत्म साक्षात्कार करना होगा। जब आत्मा से एक बार साक्षात्कार हो जाता है तभी हमारी आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। यह आत्म श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। यही प्रक्रिया प्राथमिक आत्म अनुसंधान की है वहाँ से धर्म प्रारम्भ होता है।

आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुसंधान की यह प्रक्रिया अनेक स्तरों से पार होती है। इसमें तीर्थंकरों के माध्यम से आत्मा के अनंत ज्ञान, आनन्द, सुख एवं शक्ति के प्रति श्रद्धा-भक्ति, आत्मा साक्षात्कार युक्त सच्चे गुरुओं का सानिध्य, आत्म बुद्धि परक शास्त्रों का पठन, तत्व अभ्यास एवं आत्मचिन्तन आदि ऐसे प्रमुख चरण हैं जिन का अवलम्बन लेकर आत्म साधक आत्म साक्षात्कार करता है। आत्मा साक्षात्कार करने के पश्चात् जो हमारा ज्ञान होता है वही ज्ञान सच्चा ज्ञान बन जाता है जिसे सम्यकज्ञान कहा जाता है। इसके उपरान्त ज्यों-ज्यों साधक आत्म साक्षात्कार रूप शुद्धोपयोग में लीन होता हुआ आत्म शुद्धि में वृद्धि करता जाता है, आत्मविकारों से उसकी मुक्ति होती जाती है और वह क्रमिक रूप से समस्त विकार-विभाव रूप कर्म-मल से अपने को पृथक् करता हुआ अपने अनंत ज्ञान-आनन्द आदि दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेता है। यह शुद्धोपयोग रूप आत्मलीनता ही सम्यक् चारित्र्य है। इस प्रकार आत्मा अपनी शुद्धता के चरम लक्ष्य, मुक्ति या परमात्मा पद को उक्त पद्धति द्वारा प्राप्त करता है।

आत्म शुद्धि की प्रक्रिया में संलग्न आत्म साधक मुख्यतः गृहस्थ एवं श्रमण मुनि के रूप में पाये जाते हैं। यह दोनों साधक आत्म श्रद्धान एवं ज्ञान की दृष्टि से समान स्तर के होते हैं किन्तु आत्मलीनता या चारित्र्य की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। गृहस्थ श्रावक को आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव विशेष-विशेष काल के अन्तर से कभी-कभी ही होता है किन्तु श्रमण मुनि को ऐसा आत्मानुभव अल्पकाल के अन्तर से बार-बार होता है। मुनि दशा के अस्तित्व के लिये तो यह अनिवार्य है कि उन्हें प्रत्येक अंतर्मुहूर्त अर्थात् प्रति ४८ मिनट के अन्तराल पर एक बार आत्मानुभव

निश्चित ही हो। यदि ऐसा सम्भव नहीं होता तो भावदृष्टि से मुनि दशा ही संज्ञित हो जाती है यद्यपि बाह्य भेष मुनि रूप ही दिखता है। आत्मानुभवहीन ऐसे मुनि भेष से अबती सम्बन्धिता गृहस्थ निश्चित ही उत्कृष्ट होंगे जो मिथ्यात्व एवं अज्ञान से अपने को बचाये हुये हैं। गृहस्थ एवं श्रमण मुनि के मध्य बाह्य आचार में भी अन्तर है जो व्रत एवं क्रियाओं पर आधारित है। गृहस्थ मद्य-मांस-मधु के त्यागी एवं पांच अणुव्रत के धारिणी होते हैं। जबकि मुनि पांच महाव्रत युक्त २८ मूल गुणों का पालन करते हैं। यह है वीतराग विज्ञान या आत्म-विज्ञान का पथ एवं पाथिक का संक्षेपसार जो अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से प्रतिपादित एवं अनुभव गम्य है।

आधुनिक संदर्भ में जब हम आत्म साधकों का विश्लेषण या अवलोकन करते हैं तो हम अपने को निराशा के गहन गहर में पाते हैं। कितने ऐसे गृहस्थ साधक हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार करके आत्मा के प्रति श्रद्धा जिया है? या इसकी वास्तविकता को समझकर उसका प्रयास कर रहे हैं? एवं कौन ऐसे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्रमण मुनि हैं जो हर अंतर्भूत में आत्मानुभव करते हुए शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर के प्रत्येक कथित अनुयायी या आत्म साधक को अपने वर्तमान पद एवं भूमिका के संदर्भ में देना है। आत्मा, आत्मानुभव एवं शुद्धोपयोग की चर्चा करते ही जिनका मन उद्धिग्न हो जाता है एवं मानसिक संतुलन अंग हो जाता है। वह किम सीमा तक अपने को छल रहें हैं (समाज को तो भ्रमित कर ही रहे हैं) और अपना भव-भ्रमण बढ़ा रहे हैं, यह प्रश्न विचारणीय है। इनकी नाह्य व्रतादिक क्रियाओं का भी रूप कम विकृत नहीं है। गृहस्थ जीवन त्यागने वाले उत्कृष्ट आत्म साधकों की दैनिक चर्चा लौकिक पत्र-पत्रिकाओं के गठन से प्रारम्भ हो, भवन-मन्दिरों के निर्माण, स्व साहित्य प्रकाशन एवं यशकीर्ति के कार्यों में जिनका अधिकांश समय व्यतीत हो, गृहस्थावस्था के त्याग परिग्रह से अधिक परिग्रह जिनके बाहर काल में साथ चले तथा वीतरागी महापुरुषों के कथानकों में अवीतरागता के पोषक साहित्य के प्रति जिनका अनुराग एवं समर्थन हो, ऐसे आत्म साधक कहाँ तक निज कल्याण एवं समाज का पथ प्रदर्शन करेंगे यह भी कम विचारणीय नहीं है। गृहस्थ साधकों का बाह्यआचार भी कम विकृत नहीं है। असत्याचरण, अनीति, शोषण एवं कानून उल्लंघन की भ्रष्ट क्रियाओं से घनोपार्जन, असंयमित एवं अमर्यादित जीवन, भोग-यश कीर्ति एवं बाह्य प्रदर्शन की उत्कृष्ट लालसा, मिथ्या मान्यता युक्त पाप-पुण्य के भावों में झूलता हुआ हिंस-परिग्रही आचरण आदि विकृतियाँ उनके जीवन में सहज ही दृष्टव्य हैं, जो व्यक्ति के साथ समाज व्यवस्था को भी कलुषित कर रही हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि काल के प्रवाह में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की परम्परा एवं प्रथाओं में जड़ता आती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जड़ता इस सीमा तक पहुंच जाये कि वह संख्या अपना अस्तित्व ही गवां बैठे। आत्म कल्याण परक धर्म के ऊपर शरीरादिक जड़ क्रिया का बर्चस्व हो जावे; आत्म शुद्धि का लक्ष्य मन, पुत्र वैभव एवं शरीरादिक भोगों में परिणत हो जावे; प्रवृत्ति मूलक आत्मोन्मुखी शुद्धि की प्रक्रिया निवृत्ति मूलक शरीरोन्मुखी जड़ हो जावे; अज्ञान, राग द्वेष मोह तथा असंयम को दूर करने वाला धर्म इनके भी बाहुपाश में जावे तथा विश्व-कल्याण परक कल्याण मार्ग जन्मजात कुछ व्यक्तियों द्वारा केंद्र कर पंगु एवं प्राणहीन कर दिया जावे? यह कौसी विडम्बना है। दुर्भाग्य से, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित आत्म-विज्ञान की वर्तमान अवस्था कुछ इसी प्रकार प्रतीत हो रही है।

आत्म विज्ञान के परामर्श के ऐसे काल में अंधकार में प्रकाश की एक किरण तब प्रस्फुटित हुई जब आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 1920 में स्थानकवासी आचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री कान जी स्वामी को जब "समयसार" नामक ग्रन्थ की एक प्रति संयोग से प्राप्त हुई। यह ग्रन्थ लगभग दो हजार वर्ष पूर्व श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य देव द्वारा लिखा गया और जिसकी आत्म ख्याति नामक संस्कृत टीका लगभग एक हजार वर्ष पूर्व श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य देव ने की थी। इस ग्रन्थ ने उनके मन की पूर्ण आस्थाओं को हिला दिया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह अश्रद्धान एवं अज्ञान के ऐसे समुद्र में गोते लगा रहे हैं जिसका कोई किनारा ही नहीं है। उनका निष्कपट दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह रहित मन व्यथित हो उठा जिसकी चरम परिणति अनेक साधियों सहित उनकी दिगम्बर जैन दीक्षा के रूप में हुई। अब तक वह अह-निश्च अघ्यात्म शास्त्रों के पठन, मनन, आत्म चिंतन तथा आत्म साक्षात्कार के कार्य में लीन रहते हुये वीतराग-विज्ञान का उपदेश देकर पामर-अज्ञानियों को मुक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं। उन्होंने श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य देव द्वारा रचित अन्य ग्रन्थों सहित "समयसार" ग्रन्थ पर 17 बार प्रवचन किये। इस प्रकार श्री स्वामी ने एक हजार वर्ष के अन्तराल से अपनी प्रवचनरूपी ध्वजा का आरोहण श्रीअमृतचन्द्राचार्य कृत आत्मख्याति नामक समयसार की संस्कृत टीका एवं समयसार कलषा रूप उस कलषा-बद्ध शिखर पर किया जिसका निर्माण "समयसार" ग्रन्थ रूप परमागम भवन पर किया गया था। हजार वर्षों के क्रमिक व्यवधान के उपरान्त भी आत्म तत्व का स्वरूप एवं उसके निरूपण में भावनात्मक एवं तथ्यात्मक समानता अद्वितीय, एवं अद्भुत हैं, जो इन तीन महान पुरुषों की, भूमिका में भेद होते हुए भी, एक कड़ी में पिरोकर सम्बद्ध करता है। ठीक भी है सत्य काल के प्रवाह से अप्रभावित, कालातीत तथा त्रैकालिक होता है। यही उसकी विशेषता है।

श्री कानजी स्वामी के तत्व चिंतन की गहराई, सरलता, निष्कलसा, आत्मोन्मुखी दृष्टि तथा तत्व प्रेमी बन्धुओं के प्रति प्रगाढ़ स्नेह का परिणाम है कि सद्गुरु जैन-जैनचर दृष्टि तथा तत्व प्रेमी बन्धुओं ने आत्म-विज्ञान को सश्रद्धा, ज्ञान, श्रद्धाद किया और उसका अनुसरण कर रहे हैं, जब कि भावहीन शरीर किया परक बुद्धि के धनी महानुभावों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वह अपनी संतति से, तत्व ज्ञान तो दूर, कथित धार्मिक क्रियाओं का अनुसरण करवा पाने में अपने को असह्य पा रहे हैं। अध्यात्मिक पथ प्रदर्शक श्री कानजी स्वामी ने आत्मा के गूढ़ रहस्य को जन-जन के मन का विषय बनाकर जैनधर्म को "जैनधर्म" के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। उन्होंने जन्मजात पैत्रिकता में कँद धर्म को प्रचार परक स्वरूप प्रदान किया है। उनके सदप्रयास एवं सतत् साधना से तत्व प्रचार की अद्भुत तरंगें जन-मानव को आविभूत किये जा रही हैं जिनमें अज्ञान, अश्रद्धा, अंधविश्वास असंयम एवं अमर्यादित आचार तिरोभूत हो रहा। इसे एक महान धार्मिक क्रान्ति के रूप में प्रकृषित किया जा सकता है जिसका सम्पूर्ण श्रेय श्री कानजी स्वामी के निष्ठावान दुः, निर्मल अनेकान्तिक तथा पुरुषार्थी आत्मस्वभावोन्मुखी व्यक्ति को है, जो विरोधों के झंझावतों में भी अकंप-निश्चल एवं अडिग रहा। आवश्यकता है समय रहते हम उनके कर्तृत्व के महत्त्व को समझें, प्रेरणा लें और आत्मविज्ञान के प्रचार-प्रसार में उनका सहयोग करें। यदि हमने अपने दृष्टिकोण को विशाल नहीं बनाया तो निश्चित ही इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। अध्यात्मवाद के ऐसे निर्मोही महान आत्मसाधक को मेरा कोटिशः प्रणाम जिसके सद्प्रभाव के कारण मुझमें उक्त पक्तियाँ लिपिबद्ध करने की सामर्थ्य हुई।



मोक्ष-पथ के राही

—पं० ज्ञान चंद जीव जयलपुर (अ० प्र०)

अध्यात्म मनुष्य जीवन की आवश्यकता है, सहजता है, शान्ति है, सुख है और संतोष है। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अबोल और अक्रम्य बना रह सकता है तो केवल अध्यात्म की वृत्ति द्वारा, आत्मा की चिरन्तन प्राराधना द्वारा धर्म का मूल तत्व यानी अध्यात्म अर्थात् आत्म तत्त्व की यथार्थ जानकारी कुछ दिनों से जैनियों में भी विस्मृत हो चली थी और केवल धर्म के नाम पर कुछ रूढ़ियों का पालन ही शेष रह गया था। परन्तु धर्म के मूल भूत तत्त्व और रहस्य के अनुभव का जो वातावरण आध्यात्मिक सन्त प्रवर कानजी स्वामी ने कुछ दिनों से पुनः उद्घाटित किया है वह अत्यन्त संतोष और हर्ष की बात है। लोगों को सहज धर्म के स्वरूप का सहजतया वर्णन और अवधारण करा देने के यशःकार्य में स्वामी जी का जो बहुमान किया जाय वह थोड़ा है। स्वामीजी ने, मनुष्यों को अपने जीवन में धर्म का धारण करना कठिन है, धर्म का पालन करना कठिन है इत्यादि भ्रान्त धारणाओं को जड़ मूल से उखाड़ दिया है। उनका प्रचण्ड उद्बोध है कि आत्मा का धर्म आत्मा धारण न कर सके यह सर्वथा असंभव है। सीधे-सादे नये तुले शब्दों में वे तत्व की बात कहते हैं कि भाई यदि हलुवा बनाना हो तो पहले आटे को घी में सेंकना पड़ेगा और बाद में उसमें शक्कर का पानी डालना पड़ेगा ऐसे तो हलुवा बन सकता है, परन्तु कोई पहले शक्कर का पानी आटे में डाल दें और बाद में घी डाले क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पहले घी आटे में डालने से दिखता तो है नहीं और खर्च ज्यादा हो जाता है यदि बाद में डाला जावे तो खर्च कम होगा और दिखेगा अधिक, परन्तु ऐसा करने से हलुवा बनना तो दूर रहा कूपरी भी अच्छी तैयार नहीं हो सकेगी इसी प्रकार आत्मा में धर्म का स्वरूप प्राप्त करने को पहले सम्यग्दर्शन रूप घी डालना पड़ेगा। बाल सुलभ भाषा में वे नारियल का भी उदाहरण देते हैं कि आत्मा का स्वरूप तो नारियल के साथ शुक्कोश के समान अन्त में सुरक्षित है। बाहर के जटा जूट नरेटी और शुक्कता के ऊपर लालिमा की परत वह नारियल नहीं नारियल के साथ पाने जाने वाले नारियल से पृथक बिकार है शरीर आत्मा नहीं, ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा नहीं और रामद्वेषादि भाव भी आत्मा नहीं। इतना ही नहीं आत्मा में उत्पन्न होने वाली आत्मा का शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं क्योंकि वह क्षणिक है और

वैकालिक । अनादिकालीन भ्रम और भ्रान्त धारणाओं को समूल उन्मूलन करने में सकल कानजी स्वामी की इस वाली का हमारी परंपरा के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जाना कहीं तक संगत और उचित है हमारी समझ में न आ सकने योग्य बात है परन्तु ऐसे समय और प्रसंग में हम सबको ध्यान देकर विचारना है कि कानजी स्वामी के विरोध के प्रोत्से में हम बीतराग भगवान के तत्व दर्शन की ही विरासत तो नहीं करते लग गये हैं । मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठाने के लिए लौकिक दृष्टि से भी उसमें अविद्यमान ऊँचाइयों और अच्छाडयों का गुणगान किया जाता है जिससे कि वह प्रगतिशील कदम उठा सके । फिर कानजी स्वामी तो हमेशा ही आत्मा में विद्यमान गुणों की महिमा का ही मंगलमयगान करते हैं उनसे हमारा विरोध क्यों और कैसे उचित हो सकता है ।

कानजी स्वामी ने तो अपनी कुल परम्परा से प्राप्त कुसंस्कारों को और विपरीतताओं की तिलांजलि दी है । हम अन्ध विश्वास की कारा से निकलें यद्यार्थ को पहिचानें तो कानजी स्वामी के संबंध में जो विपरीत धारणायें मन में विद्यमान हैं वे समाप्त हो जावेगी । हम अपनी अपने धर्म की ही बात कानजी स्वामी के मुख से सुनते हैं कोई निराला और बेहूदा सत्य नहीं । धर्म की नींव पर आधारित वस्तु तत्त्व का प्रखर विश्लेषण करने वाले महापुरुष श्री कानजी स्वामी चिरायु हों ।



मंगल कामना

“आत्म धरम जिन ज्योति जगा शुभ
मिध्या तम हर, दे उपदेश ।
बीतराग दर्शन फौलाया प्रवचन-मंदिर
बता जिनेश ॥
सोन सुगढ़ सौराष्ट्र केसरी
बाल-ब्रह्मचारी विद्वान्—
समयसार के कुशल प्रवक्ता,
चिरजीवी हो श्री मद् कहान”

सौभाग्य बल बोसी, अजमेर (राज०)

महान् सन्त श्री कानजी स्वामी

—बसन्तलाल नरसिंहपुरा (बम्बई)

भारतीय संविधान की २६ वीं धारा के अनुसार किसी भी नागरिक विधि के अनुसार किसी भी तरह से धार्मिक उपासना कर सकता है। उसी के अनुसार कानजी स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार हो रहा है। जैन समाज में, विशेषतः सौराष्ट्र में, आज घर-घर की बात हो गया है। कहा जा रहा है—“सोनगढ़ से चला एक जैन संत। अहिंसा का व्रतधारी, आइये हम सब उनके सत् मार्ग का अध्ययन करें।”

संत श्री कानजी महाराज का जन्म सौराष्ट्र के ऊमराला ग्राम में वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीय को संवत् १९४६ में हुआ था। साधु-सन्तों के समागम और कौटुम्बिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप में बचपन से ही धर्म के प्रति श्रद्धा जाग्रत हुई और आपका समय सांसारिक विषय में न लगकर पाप, पुण्य, कर्त्ता कर्म और उपादान को समझने में ही लगा रहता था। इतने से ही आपको संतोष नहीं हुआ। श्रद्धा और जिज्ञासा का अविरत 'युद्ध' आपके मनमें हमेशा रहा। इस तरह इस महान् आत्मशोधक का चित्त सांसारिक विषयों से बिल्कुल दूर रहने लगा। अन्त में २४ वर्ष की आयु में ज्ञान—उपासना के लिये गृहत्याग कर, दीक्षा ग्रहण की और स्था० साधु बने।

दीक्षा के बाद

आपने साधु-दीक्षा अवश्य धारण की, परन्तु मन की कशमकश अर्थात् श्रद्धा और जिज्ञासा के भावों की लड़ाई ने आपको अनेकानेक शास्त्रों के पठन-पाठन में ही लीन रखा और इस तरह इनका आत्मशोधन कार्य निरन्तर चालू रहा। जैन धर्मावलम्बी संत होने के नाते आपका शरीररूपी इस पुद्गलको ईंधन देने में बाधा महसूस नहीं हुई, परन्तु मन की शांति प्राप्त करने के लिए, जितने भी शास्त्र आपके हाथों में आये, पढ़ ढाले। फिर भी पुण्य, पाप, कर्त्ता, कर्म और उपादान का अगड़ा मन में बैसा का बैसा ही बना रहा। अन्त में श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुम्भकुंदाचार्य द्वारा कहान-गुणदेव विशेषांक

लिखित श्री समयसार पंथ आपके हाथों पढ़ा और मनन के बाद श्रद्धा और जिज्ञासा की नैनी हुई अर्थात् समाधान होने पर वास्तविक मार्गदर्शन मिला ।

संवत् १९९१ में आपके दिगम्बर जैन धर्म के संप्रदाय को अपनाया । दिगम्बर जैन पंथ का साधु होना आसान नहीं है । इस पंथ को अपनाने के लिए एक साधु को ११ प्रतिमाएँ धारण करनी पड़ती हैं और भ्रन्त में शाश्वत निरंजन निराकार का रूप धारण कर नग्न दिगम्बर होना होता है । बाइस परिषद् और बत्तीस भंतराय का पालन करना पड़ता है । जैन धर्म में ही नहीं विद्व के सभी धर्मों में त्यागी या व्रती का स्थान हमेशा श्रावक या गृहस्थ से ऊँचा होता है और हम सहज कह सकते हैं कि कानजी स्वामी दिगम्बर जैन समाज के ही नहीं बल्कि समस्त जैन समाज के वयोवृद्ध विद्वान त्यागी महापुरुष हैं ।

उपदेश की विशेषता

श्री कानजी महाराज के गहरे अध्ययन, पठन-पाठन, विषय-प्रतिपादन, भाषा की सरलता, वाक्पटुता, मुस्मरण शक्ति और गहरे अनुभव की झलक उनके उपदेशों में मिलती है । यही कारण है कि आप समाज में महान बने और आपके दर्शन से जनसाधारण को अलौकिक शांति की प्रेरणा मिलती है । आत्म स्वभाव में अवस्थित परमात्म शक्ति को प्रकट करने की कुन्जी आपके उपदेश से प्राप्त हो सकती है । आत्म-माधना और उसका सत्य उपदेश यही आपके जीवन का मुख्य कार्य है । इनके इस आत्म सन्देश को राष्ट्रपिता गांधी, कस्तूरबा और महादेव भाई देसाई ने भी सूना था । श्री डेवर और श्री मुरारजी भाई देसाई भी आपके उपदेश का श्रवण कर चुके हैं और श्री लालबहादुर शास्त्री भी बम्बई में इनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे ।

आपके उपदेशका यही सार है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप समझो, जड़ चेतन की अत्यंत भिन्न को समझकर तत्त्व सम्बन्धी होने वाली भूलों को दूर करो और साक्षात् सत्समागम से अत्यधिक प्रयत्न से, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र को प्राप्त करो । मोक्षमार्ग का द्वार सम्यग्दर्शन से ही खुलता है ।

सोनगढ़

आज सोनगढ़ (सौराष्ट्र) जैनियों का हरिद्वार अथवा ऋषीकेश बन गया है । आपने तीर्थभक्ति की उपासना के हेतु सारे देश का भ्रमण किया । जिस, "गुजरात और सौराष्ट्र में दिगम्बर जैन मन्दिर" नही के बराबर थे आपके प्रभाव से गाँवों और शहर में नये दिगम्बर जैन मन्दिर बन रहे हैं । आज सारे सौराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सारे भारत में आपकी इस धार्मिक लहरने नया रूप लिया है । अन्य धर्माबलम्बी भी

आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि भक्त भगवान् को बम्बई में भी पांचवीं बार सन् १९५६, १९६४, १९६६, १९७२, १९७४, में खींच लाये। श्रीर यहाँ भी आपके प्रभाव से चार नये मन्दिर बने। आपके मानने वाले एक संगठन में सूत्र में बंधकर स्थान-स्थान पर हाजसिंग कालोनी, व्यापार व्यवसाय के साधनों का सदुपयोग करके बन्धुत्व, मातृत्व भावना, मेल-जोल, विद्योन्नति आदि का कार्य कर रहे हैं। आपके उपदेशों का साहित्य गुजराती, हिन्दी और अन्य भाषाओं में मिलता है। इनकी पहुँच अपने देश में ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक है।

संसार के सभी धर्मों में उतार-चढ़ाव आये हैं और सम्प्रदाय बने हैं, जैसे कथोलिक, प्रोटेस्ट और प्युरिटन, शीया और सुन्नी, महायान् और हीनयान, द्वैतवाद अद्वैतवाद और तांत्रिकवाद आदि जैनधर्म में भी सर्वप्रथम दिगम्बर, बाद में श्वेतांबर और स्थानकवासी आदि सम्प्रदायों का प्राहुँभाव हुआ और आज इस देश में सबको विधि के अनुसार बिना भेद भाव के अपने इच्छानुसार पूजा और अर्चना करने का पूजा अधिकार है।

उद्धार की पुकार

आज आर्थिक विषमता के कारण, श्रद्धा और विश्वास के स्तम्भ टूट गये हैं। सर्वत्र लौकिक और भौतिक शिक्षा के कारण परमात्मा के डर का लोप हो रहा है। मन्दिरों, मस्जिदों में भी चोरियां शुरू हो गयी हैं। मूर्तियों की अविनय, शिरोच्छेद आदि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ आये दिन घट रही हैं। प्राचीन जैन संस्कृति की रक्षा नहीं हो पा रही है जयपुर के मन्दिरों, पपौरा (बुन्देलखण्ड), उदयगिरि और खण्डगिरि (उड़ीसा) आजनेरी (महाराष्ट्र) श्रवणबेलगोला मुडबद्री (मैसूर कर्नाटक) की जैन कला और संस्कृति मैसूर, कर्नाटक, आंध्र बस्ती और तमिलनाडू व केरल की कला और संस्कृति श्री कानजी स्वामी के समान सभी साधुओं और श्रेष्ठ बर्गकी और पुकार कर वह रही है कि 'हे स्वामिन नई मूर्तियों न विराजमान करें हम अपूजनीय अवस्था में है, हमारा उद्धार करें, नये मन्दिरों में हमें विराजमान करें।

आशा ही नहीं विश्वास है कि श्री कानजी स्वामी इस जैन संस्कृति की कला और परम्पराओं की रक्षा का भार अपने ऊपर लेंगे।

महान् तत्त्ववेत्ता

● धन्नालास जैन, ग्वालियर

उठ जाग मुसाफिर मोर हुआ सीमघर सूर्य उदय आया ।
जिस ज्योति ने श्री कुन्द कुन्द श्री अमृतचन्द्र को प्रगटाया ॥१॥
जिस किरणावलि ने अध्यात्म श्री कहानं गुरु को समझाया ।
जिनकी अमृत वाणी ने भव्य जीवों को स्वानुभव प्रगटाया ॥२॥
तीर्थंकर का है विरहपड़ हमें दिव्य संदेश न मिल पाया ।
वह विरह भुलाकर तीर्थंकर के तुल्य है अमृत पिला दिया ॥३॥
श्री समयसार श्री प्रवचनसार है नियमसार परमागम हैं ।
पंचास्तिकाय श्री अष्टपाहुड़ का मर्म हृदय में सजा दिया ॥४॥
चेतन जड़ सभी भिन्न-भिन्न हैं अपने ही चतुष्टय ।
ध्रुव स्थाई अविनाशी हैं क्रम बद्ध पर्याय बदलते हैं ॥५॥
निज शक्ति वही है उपादान जो कर्मरूप में परणति हों ।
हे सभी निमित्तों उदासीन पर योग रूप में बने रहें ॥६॥
कोई न किसी को करै धरै स्वयमेव परणमन होता है ।
धस्तु स्वतंत्र सत् मर्म धन्य ज्ञानी धर्मी ने समझाया ॥७॥
निज आत्म तत्त्वती अलिंगन ग्राह्य अनुपम ज्ञान तत्त्व ध्रुवशास्वत ।
रागादि जुद्धा पर ज्ञेय तत्त्वधन कहान गुरु ने समझाया ॥८॥

इतने वर्ष जिओ जितने हैं अम्बर में तारे !

शर्मन लाल 'सरस'

जाने क्या रहस्य है सचमुच, सद्गुरु की वाणी में ।
स्वयं आत्मा खिच आती है, जिनकी अगवानी में,
श्रीमद्राय चन्द्र, बापू की यह धरती कहती है—
चमत्कार होता आया है गुजराती पानी में ॥
जहाँ जहाँ गये, आपने ऐसा जादू डाला ।
जड़ तक को जिसने चेतन के, चिर रंग में रंग डाला,
देख सोनगढ़ महावीर मन्दिर को दर्शक कहता—
मन्दिर की दीवारों को भी, समयसार कर डाला ॥
युग युग पाते रहें पार पाने को, वचन तुम्हारे ।
यत्र तत्र सर्वत्र सभी मन से कर रहे इशारे—
'सरस' ८७ वर्ष आपके, सचमुच में थोड़े हैं ।
इतने वर्ष जिओ जितने हैं, अम्बर में तारे ॥

अध्यात्म उपदेष्टा

पूज्य श्री कानजी स्वामी

□ शान्ति कुमार जैन, जी (भिण्ड)

भारत वर्ष में अध्यात्म की धारा अविच्छिन्न रूप से सदा से प्रवाहित होती रही है। इस अध्यात्म धारा को प्रवाहित बनाये रखने के लिए समय-समय पर महा-मनीषियों का सद्भाव भी रहा है। विक्रम की पहिली शताब्दि में श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने सीमंघर स्वामी से अध्यात्म का अमर संदेश प्राप्त कर अध्यात्म ग्रन्थों की रचना कर और अमृताचन्द्राचार्य ने टीकायें बनाकर आत्म विस्मृत प्राणियों पर महान् उपकार किया है। इन्हीं अध्यात्म ग्रन्थों से प्रेरित बहुत सा अध्यात्म साहित्य प्राकृत संस्कृत और हिन्दी आदि भाषाओं एवं उपभाषाओं में आज तक उपलब्ध है। पिछली कुछ शताब्दियों में ये बनारसीदास जी, दीपचन्द जी शाह, जयचन्द्र जी, दौलतराम जी पण्डित प्रवर टोडरमल जी, श्रीभद्र रायचन्द जी आदि के द्वारा अध्यात्मिक ग्रन्थों के आधार पर तत्कालीन-सरल, सुगम्य, भाषा में साहित्य-सृजित होकर अध्यात्म धारा आज तक प्रवाहित रही है।

गुजरात प्रान्त में सोनगढ़ के सुप्रसिद्ध अध्यात्म योगी श्री कानजी स्वामी के अध्यात्म जगत में महत् उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से इस भौतकीय युग की अंधकार मय जगती पर बिलुप्त प्रायः अध्यात्म धारा को पुनः प्रवाहित बनाये रखने का अदम्य कार्य किया है।

पूज्य श्री कानजी स्वामी ने सत्यार्थ वस्तु स्वरूप बताकर जीवों को सम्पूर्ण प्रदर्शित किया है। वर्तमान युग के न्याय, ध्याकरण, सिद्धान्तादि विषयों के किञ्चित ज्ञान से मदोन्मत्त-विद्वान् भी स्वामी जी द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण-सुनकर दाँतों तले उंगुली दबा कर अपने सात मद चूर २ होता पाते हैं। वास्तव में बिना-भेद विज्ञान के ग्यारह अङ्गों और नौ पूर्वों तक का ज्ञान भी कल्याणकारी नहीं है। जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवन्तों की बाणी का भावलिगी सन्तों ने अभाव नहीं खटकने दिया उसी प्रकार पूज्य श्री कानजी स्वामी ने अपने परम अमृतमयी अध्यात्म प्रवचनों से कुंदाकुंदादि आचार्यों के वियोग को अखरने दिया है। अपने आनाल-मूढ़ के हृदय

पटल पर अध्यात्म बीज बंदस कर अध्यात्म रस सिंचित किया है। आपके द्वारा दिगम्बर धर्म के मूल तत्त्वों का उसी प्रकार सम्यक् प्ररखण हो रहा है जैसा कि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में झलका है।

पूज्य श्री कानजी स्वामी आत्मानुभावी मेधावी जन हैं। आपने जैन शासन की जो प्रभावना की है वह भूतकालीन १००० वर्षों में भी नहीं हुई है। आत्म-विज्ञान रस के पिपासुजनों की व्यास ज्ञानरूपी अमृत से आपके द्वारा सहज ही में शान्त हो रही है। आपके प्रवचनों को सुनकर मुमुक्षु भी आत्म रस में विभोर होकर मोक्षपुरी की सैर करने का अनुभव करने लगते हैं। आगम का वास्तविक अभिप्राय क्या है? इसे पूज्य श्री ने ही समझा व समझाया है। आगम के अन्तररहस्य को इस समय के ब्रती महाश्रती तथा अन्य विद्वान स्पष्ट नहीं कर पाये हैं, उसका रहस्य श्री कानजी स्वामी ने चारों अनुयोगों के शास्त्रों का निचोड़ एक मात्र वीतरागता प्राप्त करना बताया है, और वीतरागता दो द्रव्यों के भेदज्ञान अथवा आत्म द्रव्य को जाने बिना प्राप्त नहीं हो सकती पूज्य गुरुदेव मुक्ति पथ में स्वयं प्रमाण कर रहे हैं और जगत के अन्य भव्य जीवों को भी आत्म शुद्धि रूप मंगलमय परम मुक्ति मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं।

जगत के सब द्रव्य उनके अनन्त गुण, उनकी पर्यायें प्रति समय की परिणति स्वतंत्र या निस्पेक्ष है। उनके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य भी पूर्ण निरपेक्ष है। इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन जगत के जीवों को कराकर वस्तु स्वातन्त्र्य की उद्घोषणा कर रहे हैं। पर द्रव्य और परभाव में एकत्व बुद्धि संसार परिभ्रमण कर कारण और स्वद्रव्य, स्वभाव का आश्रय मुक्ति कारण बताकर आप सदा निज शुद्ध चैतन्य में रमण करते हैं। आपके अध्यात्म उपदेश द्वारा भगवान महावीर के परम-जीवों को आत्म हितकारी मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

वर्तमान काल में साक्षात् तीर्थंकर या केवली श्रुत केवली भगवन्तों, निबि-वाद भावलिगीं सन्तों का सद्भाव नहीं है तथा धर्मात्मा जीवों का ही समागम अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि सम्यक्त्वधारी जीव इस क्षेत्र में पैदा नहीं होते हैं बल्कि आत्म विचारक या मिथ्या दृष्टि ही इस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और मिथ्यात्व की बाहुल्यता से मिथ्यात्व के उपदेष्टाओं का सहज संयोग होने से मिथ्यात्व की ही पुष्टि हो रही है। अतः मिथ्या मान्यता के परित्यागी, सन्मार्गी बहुत अल्प दिखाई देते हैं। बल्कि सन्मार्ग के निषेधको की ही बाहुल्यता है। अनादि से मिथ्यात्व दशा को छोड़ने और सम्यक्त्व प्राप्ति का पुरुषार्थ अति दुर्लभ हो रहा है। ऐसे कठिन काल में पूज्य श्री कानजी स्वामी ने यथार्थ मोक्षमार्ग का दृढ़ता के साथ आगम युक्ति, अनुमान एवं अनुभव से स्पष्ट सक्त सुगम्य भाषा में निरूपण कर मुमुक्षुओं पर अति उपकार किया है। आपके एक

एक शब्द आत्मानुभव के रस में भिगा हुआ भरता हुआ सा प्रतीत होता है। देव, शास्त्र, गुरु का पर्याय स्वरूप की श्रद्धा और उनके प्रति अपार अनन्य भक्ति आपकी आत्म पवित्रता का द्योतक है। अरहन्त स्वरूप में निज आत्मा की महिमा बतलाते समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानों उनकी आत्मा अरहन्त बनने में संलग्न है। आपकी वाणी के वाक्य “तू श्रद्धा में अरहन्त बन” अरहन्त जो कर सकते हैं वह तू भी कर सकता है अर्थात् अरहन्त भी ज्ञाता दृष्टा ही है और तू भी ज्ञाता दृष्टा ही रहकर अरहन्त बनने का पुरुषार्थ कर।

पूज्य श्री गुरुदेव ने अपने चारों ओर विपरीत वातावरण की कभी परवाह न नहीं की और सत्य की खोज कर अपने जीवन में उतारा तथा अर्थों को भी जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। श्री स्वामी जी ने जैन सिद्धान्त तथा प्रागम का गहन अध्ययन किया है और जीवन का सबसे बड़ा भाग अध्ययन मनन चिन्तन में ही व्यतीत किया है। ऐसे महान् आध्यात्मिक क्रान्तिकारी की प्रेरणा से जैन समाज की प्रचलित विचार धाराओं में आमूल परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन बहुत से कुलागत जैनों को वास्तविक जैन बनाए रखने में सफल हुआ है तथा जैनेतरों को भी जैन सैद्धान्तिक परम्प, राओं से परिचित कराने में महान् योग रहा है।

जैन दर्शन के स्वतन्त्र उद्घोषक पूज्य श्री कानजी स्वामी बार-बार कहते हैं कि धर्म धारण के पूर्व सच्ची श्रद्धा होनी चाहिये। यही सम्यक् दर्शन का सम्यक् उपाय है और सम्यक् दर्शन से ही सर्वज्ञ की सच्ची पहचान हो सकती है। इस तरह सर्वज्ञ की श्रद्धा और सम्यक् दर्शन एक दूसरे के सहभागी हैं। इसीलिए “दंसण मूलों धम्मो” या धर्म का मूल सर्वज्ञ एक ही बात है। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव बार-बार प्रवचन सार की ८०-८२ वीं गाथा दुहराते हुए कहते हैं कि जिसने द्रव्य-गुण-पर्याय से अरहन्त को पहिचाना है उसने अपनी आत्मा को भी अवश्य पहिचाना है और उसका मोह (दर्शन मोह) या मिथ्यात्व क्षय लेकर सम्यक् दर्शन की उपलब्धि हुई है। इसके पश्चात् आत्मोन्मुखी वृत्ति से शुद्धोपयोग की वृद्धि से राग द्वेष का क्षय होकर या चारित्र्य मोह का क्षय होकर अरहन्त दशा प्रकट करने का पुरुषार्थ चालू होने से अपने में सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है।

जगता के सर्व पदार्थों को व उनकी त्रिकाली पर्यायों सहित सर्वज्ञ एक साथ जानते हैं और वैसे ही पदार्थों में परिणमन होने का स्वरूप हैं। इसमें कुछ फेर फार या परिवर्तन कर अपने अनुकूल करने की जिसकी वृद्धि है उसके सर्वज्ञ की सर्वज्ञता और वस्तु स्वरूप के निर्णय का पुरुषार्थ ही नहीं। सर्वज्ञ की श्रद्धा और वस्तु स्वरूप के निर्णय में आपकी आत्मा का पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ के बिना सर्वज्ञ का या क्रम बद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय कभी नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञ की श्रद्धा में ही काहन-गुरुदेव विशेषांक

क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है और इसे ही भोक्षमार्ग का सच्चा उपाय कहते हैं। इस विषय पर पुन्य गुरुदेव ने नवीन खोज करके पर्याय की क्रम बद्धता बताकर सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की सिद्धि की है। आप कहते हैं कि इकाई तुने सर्वज्ञ का निर्णय किया है। क्या इस जपस में सर्वज्ञ है—जिसको भव नहीं राग द्वेष नहीं ऐसे सर्वज्ञ के निर्णय करने में रागादि से भिन्न त्रिकाली शुद्ध परमात्म तत्व या ज्ञान स्वभाव के निर्णय का पुरुषार्थ होता है। इसलिए सर्वज्ञ का निर्णय कर जिसमें क्रम बद्ध पर्याय का निर्णय होते होत तुम्हें अपने पुरुषार्थ का सहज भान हो जायेगा।

वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता के सामर्थ्य से होते समय साक्षी पूर्वक निमित्त की उपस्थिति निश्चित रूप से होते हुए भी उसके परिणमन में निमित्त का अकिञ्चित्पना है। उपादान और निमित्त दोनों का परिणमन अपने २ में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस पूज्य श्री ने अनेक दृष्टान्त युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणों से अच्छी प्रकार से समझाया है। जब यह जीव निमित्ताधीन, पराश्रित बुद्धि का परिणाम छोड़ कर अपने स्वाधीन स्वाभाव के सम्मुख परिणमन करता है तब ही उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। निमित्त नैमित्तक सम्बन्ध है पर कर्ता कर्म सम्बन्धकारी है। निमित्त कर्ता और नैमित्तक उसका कार्य यह कदापि सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य दो क्रियायें नहीं करता और दो द्रव्य मिल कर एक क्रिया नहीं करते यदि ये हो जायें तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतन्त्रता नष्ट होकर द्रव्य का भी नाश हो जायेगा। यद्यपि जब नैमित्तक दशा होती है तो उसी समय निमित्त भी मौजूब है। किन्तु वह उस रूप न तो परिणमित्त हुआ और न परिणमित्त कराने में सहयोगी ही हुआ है। दोनों का सम-काल होने से पराश्रित बुद्धि जीव ऐसा मान लेता है कि इसके कारण ऐसा हुआ जगत के सभी पदार्थों में प्रति समय नैमित्तिक पर्यायें हो रही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि निमित्त के बिना ही सबका परिणमन हो रहा है। ऐसा एक भी समय नहीं जब कि जगत के पदार्थों में नैमित्तिक दशा या पर्यायें न होती हैं। नैमित्तिक दशा के समय निमित्त न हो ऐसा नहीं होता। अतः नैमित्तिक कार्य होता है तो निमित्त की योग्यता वाले पदार्थ होते ही हैं। नैमित्तिक से ही निमित्त की सिद्धि होती है। बिना नैमित्तिक के निमित्त का ज्ञान नहीं होता। जब निमित्त है तब उसी समय नैमित्तिक कार्य का भी अस्तित्व है। यदि नैमित्तिक है तो पर वस्तु को उसका निमित्त भी कहा जाता है। नैमित्तिक कार्य के बिना पर वस्तु को निमित्त भी नहीं कहा जाता है। क्योंकि नैमित्तिक के बिना निमित्त किसका ? इससे सिद्ध है कि निमित्त तब ही कहलाता है जब नैमित्तिक कार्य होता है। निमित्त को प्रकट करने वाला नैमित्तिक कार्य भी विद्यमानता है। जहाँ ऐसा कहा जाता है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता वहाँ ऐसा कबन ऐसे अज्ञानी (निश्चयाभाषी) को उचित निमित्त का ज्ञान कराने के

लिए है जो छह द्रव्यों को नहीं मानकर आत्मा के सिवा पर वस्तु का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता है उसे ऐसा कह कर निमित्त का अस्तित्व भी बरसाया जाता है । किन्तु जगत के छह द्रव्यों को स्वीकार करने वाले निमित्त नैमित्तिक दोनों की स्वतंत्रता स्वीकार करते हैं उन्हें वस्तु स्वतंत्रता का उपदेश दिया गया है ।

निश्चय-व्यवहार के बारे में भी आपकी विवेचन शैली झूठी है । निश्चय-व्यवहार का स्वरूप आप जिस ढंग से समझाते हैं उसे समझ कर सारे जैन सिद्धांत का रहस्य स्वमेव ही समझ में आ जाता है । व्यवहार करते-करते उसके प्रबल-मन से निश्चय हो जायेगा ऐसी मान्यता को जैन सिद्धान्त में व्यवहार गूढ़ कहा है । आप कहते हैं कि निश्चय स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति मार्ग है । व्यवहार के शुभराग के आश्रय से कदापि मुक्ति नहीं हो सकती है और ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति में पहिले व्यवहार और पीछे निश्चय अपितु बिना निश्चय के सच्चा व्यवहार ही नहीं सकता । निश्चय-व्यवहार के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को जितनी स्पष्टता से आपने समझाया है उतना आज तक कोई नहीं समझा पाया है । आप बार-बार कहते हैं कि निश्चय-व्यवहार को समझना जैन धर्म की मुख्य चीज है । इसमें जिसकी भूल रही वही वह जैन धर्म के मर्म को कभी नहीं समझ सकता है । निश्चय के आश्रय के बिना कभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती है ।

विज्ञान के इस युग में जहाँ कि प्रत्येक बात की सिद्धि तर्क और अनुभव के आधार पर की जाने लगी है ऐसे । समय में पूज्य श्री कानजी स्वामी ने जो चमत्कार दिखाया है वह महान चमत्कार है क्योंकि किसी भौतिक पदार्थ का नहीं अपितु अपनी आत्मानुभूति का है । स्वानुभूति के इस पवित्र आदर्श से प्रेरित होकर अनेक आत्मायें सम्यक् पथ प्रदर्शन से अपने जीवन को धन्य मान रही हैं । आपकी लोकोपकार कारणी अपूर्व वृत्ति से स्वाभाविक (सहज) दर्शन ज्ञान परिलक्षित होता है ।

सर्वज्ञ भावन्तों, भाव लिङ्गी सन्तों की बाणी के रसोस्वदन से भौतिक पदार्थों की रुचि का स्वयं ही अभाव आपके जीवन में दिखाई देता है । भव्योपकारी रचनात्मक कार्यों में आपके समय का सदुपयोग होता है जिसके प्रतिकूल (परिणाम) है कि लाखों पुस्तकों एवं ग्रन्थों का सरल सुगम्य भाषाओं में प्रकाशन होकर नाममात्र मूल्य में उपलब्ध, परमावश्यक स्थानों पर जहाँ-जहाँ अधिक उपयोगिता और जैन दर्शन के प्रचार की महत्ता प्रतीत हुई है वहाँ-वहाँ पंच कल्याणक, वेदी प्रतिष्ठायें शिक्षण प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन (आज के युग की अपूर्व देन) आश्रय एवं सिद्धान्त के प्रतिपादानुसार सम्पन्न हो रहे हैं । अनेक जिन भवनों (जिसमें सोनगढ़ का श्री परमागम मंदिर भी विश्व की एक अद्वितीय कृति है) का निर्माण हुआ है । हजारों

नबीन जैसेतर बन्धुओं ने समीचीन (दिगम्बर) धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। अनेकों भाई बहिनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर आत्महित का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रशंसा-या निन्दा से सदैव दूर रह कर आप आत्मा धर्म या वीतराग धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अपनी शारीरिक अवस्था का भी ध्यान न रख कर सतत रह सकते हैं।

अस्तु वस्तु स्वरूप के सम्यक् ज्ञाता चेतन्यानुभवी, निज शुद्धात्म के उपासक अध्यात्मक परम्परा को प्रवाहित रखने वाले इस युग के महान् आध्यात्मिक संत पूज्य कानजी स्वामी जी की आसन अविरुद्ध अनेकान्त स्याद्वाद अनुरचित वाणी और पवित्र व्यक्तित्व से अध्यात्म प्रेमी अधिकाधिक सम्बन्धित होकर जीवन सफल करें यही मेरी कामना है।



महान् उपकारी सन्त

—रविचन्द्र जैन, दिल्ली

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी इस युग की महान् विभूति हैं। वे एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके रोम रोम में अध्यात्म क्या है।

मुझे कई बार दिल्ली में व सोनगढ़ में स्वामी जी को सुनने का योग हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुदेव प्रति समाज वे जो भ्रंतिर्या फेलाई हुई है वे निर्मूल हैं, मिथ्या हैं। स्वामी जी के खान

पान के विषय में भी कई गलत धारणाएँ हैं। लेकिन वे सब निराधार हैं। स्वामी जी का आहार अत्यन्त शुद्ध व सूक्ष्म होता है। स्वयं मेरे घर पर स्वामी जी ने एक बार आहार किया है।

स्वामी जी ने दिगम्बर जैन धर्म का बहुत उपकार किया है। आपने दिगम्बर धर्म अंगीकार किया व लाखों बन्धु स्वधर्मी बने, यह इस युग की सबसे क्रान्तिकारी घटना है।

मैं स्वामी जी प्रति लक्ष-लक्ष विनयाजालि अर्पित करता हूँ।

समयसार के विमोचक

—परमात्म प्रकाश भारित्वा,
जयपुर (राज०)

महान् आचार्य कुंडकुंद, जिन्हें दि० जैन परम्परा में भगवान् महावीर और उनके गणधर गौतम के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है ने तो समयसार जैसे परम आध्यात्म ग्रन्थ रचना करके भव्य जीवों का परम उपकार किया ही है परन्तु वर्तमान समय में जबकि इस महान् ग्रन्थराज को केवल साधुओं के अध्ययन की ही वस्तु मान लिया गया था जन साधारण के लिये समयसार का विमोचन करने वाले आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी का भी भव्य जीवों पर कम उपकार नहीं है।

पूज्य स्वामी जी ने समयसार के ऊपर ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे समयसार में ऐसे रम गये कि उन्होंने अपना त्रिकाली नाम समयसार (शुद्धात्मा) पा लिया। आज समयसार का नाम लेते ही सब लोगों के नेत्र पटल पर उस महान् संत का एक रेखाचित्र अंकित हो जाता है।

पूज्य स्वामी जी ने अपनी स्वसम्पत्ति को भूलकर भटकने वाले प्राणियों को आत्म वैभव का ज्ञान कराकर उन्हें वैभवशाली बना दिया है।

आज के समय में जब लोगों की समय सारिणी (Time-Table) में समयसार के लिये कोई स्थान नहीं है वहीं इस महापुरुष की समय-सारिणी (Time-Table) समयसार (शुद्धात्मा) के ऊपर ही समर्पित है।

उन्होंने मनुष्य भव का सार समय पाकर समयसार का चितवन करके अपना समय-सार शब्द (सार्थक) कर लिया है।

महान् समयसार का अबलम्बन लेने वाले इस जीवित समयसार को मेरा कोटिशः प्रणाम।

चैतन्य की मस्ती में भ्रूमते हुये कई बार गुरुदेव के श्री मुख से निकलता है—

ज्याँ चैतन त्याँ आत्मा, केवली बोले ऐम
प्रगट अनुभव आत्मा, निर्मल को सप्रेम
चैतन्य प्रभु ! प्रमृता तुम्हारी चैतन्य धाम माँ
जिनवर प्रभु ! पधारया समोसरण धाम माँ

सौराष्ट्र का सन्त

□ अखिल संसल

भरा पूरा बदन, गीर वर्ण उच्च ललाट तथा भोजस्वी मुख मुद्रा वाले पूज्य श्री कहानजी स्वामी को सर्वप्रथम देखने का सौभाग्य मुझे जयपुर में श्रीराम विज्ञान प्रशिक्षण विविर के अक्सर पर हुआ। उनके प्रवचनों को सुनकर मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं आज दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रवचनों ने मुझे नई दिशा दी है।

जैन धर्म के महान् प्रभावक आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कहानजी स्वामी का जन्म सौराष्ट्र प्रान्त के उमराला नामक ग्राम में सम्बत् १९४६ वैशाख शुक्ला दूज के दिन हुआ था। बचपन से ही स्वामी जी की रुचि अध्यात्म की ओर थी। २४ वर्ष के कुमार काल में आपने स्थानकवासी सम्प्रदाय में जिन दीक्षा ले ली। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण आपने श्रीधर ही श्वेताम्बर धर्म ग्रन्थों का गूढ अध्ययन कर समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। आपकी वक्ताशैली काफी प्रभावशील रही है, आपके प्रवचनों को जो सुन लेता है वही मन्त्रमुग्ध हो जाता है।

सम्बत् १९७८ की बात है आपको दिगम्बर जैन आचार्य पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी का समयसार नामक अपूर्व ग्रन्थ पढ़ने को मिला। इस समय-सार ने कहानजी स्वामी के अन्तःस्थल को झकझोर दिया, जिसकी उन्हें खोज थी वह स्वयमेव ही उन्हें प्राप्त हो गया। आपने समयसार का गहरा अध्ययन और मनन किया, आपके विचारों ने पलटा खाया और सोनगढ़ जाकर सं० १९९१ में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन स्थानकवासी सम्प्रदाय का त्यागकर दिगम्बर जैन धर्म की मान्यता स्वीकार कर ली। तब से आप निरन्तर आत्म साधना के अनुसंधान में लगे हुए हैं। सोनगढ़ की तो कहें क्या वहाँ तो स्वर्णपुरी जैसा आनन्द आता है। पूज्य स्वामी जी के कारण आज सोनगढ़ तीर्थधाम बना हुआ है।


धर्म प्रभावना :—पूज्य गुरुदेव के इस परिवर्तन से सौराष्ट्र प्रान्त में क्रन्दन सा मच गया। अपने चारों ओर विरोधपूर्ण वातावरण की परवाह न करते हुए वे अपने विचारों पर सुमेरू के समान अडिग रहे। ठीक ही है “जिसका जितना अधिक विरोध होता है उसका उतना ही अधिक प्रचार होता है।”

भाबे सौराष्ट्र में ही तथा सम्पूर्ण भारत में दिगम्बर जैन धर्म की प्रभावना पूज्य गुरुदेव के द्वारा हो रही है। जिस सौराष्ट्र प्रान्त में दिगम्बर सम्प्रदाय के इसके-दुबके ही मिलते थे आज वहाँ हजारों की संख्या में दिगम्बर जैन हैं। यह सब पूज्य गुरुदेव की कृपा एवं उनकी प्रभावना का फल ही मानना होगा। सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित साहित्य के पठन-पाठन से जैन-जैनेतर सभी लाभ ले रहे हैं। पूज्य स्वामी जी ने तत्व के मर्म को बारीकी से समझ कर उसे अपने जीवन में उतारा है, अध्यात्म प्रेमी लोग तो आपके सत्संग को पाकर अपने को धन्य समझता है और अध्यात्म चर्चा का रसिक बन जाता है। कानजी स्वामी जो कुछ कहते हैं उसमें एक निष्पक्ष एवं पवित्र भावना होती है जो श्रोता को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। उनके प्रवचनों का लाभ लेने हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग सोनगढ़ जाते हैं और वहाँ अतीव आनन्द को प्राप्त कर, तथा आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। धन्य हैं वह सौराष्ट्र के संत जो प्रकाश स्तम्भ बनकर सम्पूर्ण जैन जगत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।



कोटा प्रशिक्षण शिविर १९७५ में दिए गए प्रवचन का एक अंश :—

“पाप-पुण्य की वृत्ति भी दुःख रूप ही है। दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से दुःख के कारण हैं। भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय आनन्द का भंडार है। आत्मा और पुण्य-पाप के भाव एक साथ रहते हैं जो दोनों के बीच एक संधि है। प्रज्ञा (ज्ञान) रूपी छिजा के द्वारा इस संधि को तोड़ा जा सकता है, इस संधि के टूटने पर ज्ञान रूप आत्मा व पुण्य-पाप भाव स्पष्टतः भिन्न-भिन्न प्रतिभासित होने लगते हैं इसे ही सम्यग्दर्शन, आत्मानुभूति भेद विज्ञान कहा जाता है। धर्मों को दया, दान, पूजा, एवं भक्ति के पुण्य भाव आते हैं वे जानने लायक हैं। आश्रम करने लायक एक मात्र ज्ञान रूपी आत्मा है। अभिप्राय में राग के छूटे बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता। सम्यग्दर्शन होने पर कर्म बन्ध रुक जाता है। ज्ञान से पुण्य पाप की निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति नहीं। जिसका ज्ञान राग में प्रवृत्त वह ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी को राग आता है पर वह उसका स्वामी नहीं होता; मात्र उसका जानने वाला होता है।”



हे भाई, तू आत्मा है, तेरा लक्षण ज्ञातापन है। तू सदा अकपी (अमूर्त) है। और वह शरीर जड़ है, कपी (मूर्त) है। तेरे से भिन्न ही है। आत्मा अपनी अवस्था में कार्य कर सकता है पर शरीररवि पर पदार्थों की अवस्था में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा समझ कर यदि जीव अपने स्वभाव में रहे तो विकारी कार्य टल सके और सुख-शांति रूप शुभ हो सके।

विशिष्ट लेख



मुक्ति पथ

३० कुमारी 'कोकिल' जी

छोटे-छोटे बच्चों को साँप और सीढ़ी का खेल खेलते देखा होगा, या आपने भी साँप सीढ़ी खेली होगी। हर स्थान पर साँप भी है और सीढ़ी भी है। प्रथम स्थान पर ही लम्बी यात्रा करके कठिन परिश्रम के पश्चात् मुक्ति के निकट पहुँचकर भी साँप का भय है, वहाँ से ठीक नीचे आ सकता है जहाँ से चला था। जीवन भी ऐसे ही साँप सीढ़ी का खेल है। जहाँ खड़े हो, वहाँ से जानो—सम्मोहन को तोड़ो, हृदय की आँखों से देखो तो पाओगे मुक्ति के कहीं रास्ते नहीं—मुक्ति अभी है और यहीं है। अथवा बहुत चल कर भी थककर भी अज्ञानी साधक पा सकता है कि वह अभी वहाँ खड़ा है, जहाँ से चला था। नींद में पानी पीने से प्यास बुझ नहीं सकती अपितु स्वप्न के कारण निद्रा काल दीर्घ हो सकता है। सोने में थोड़ी सुविधा हो सकती है।

मुझे स्मरण आता है महात्मा बुद्ध के जीवन का एक वृत्। रवीन्द्रनाथ ने यशोधरा से एक गहरा मजाक कराया है। महात्मा बुद्ध जब बोधि प्राप्ति के पश्चात् अपने गाँव को लौटे तो यशोधरा से मिले। तब यशोधरा ने व्यंग्य पूर्वक एक प्रश्न पूछा—“आपने घर छोड़कर जो पाया क्या वह घर में नहीं था।” बुद्ध निश्चर हो गए। उत्तर क्या दें बड़ी मुश्किल में पड़ गये। अगर कहें कि वह घर में था, तो फिर घर छोड़ना मूर्खता थी। अगर कहें कि वह घर में नहीं था तो वह असत्य होगा। क्योंकि वह घर में भी मौजूद हैं। उसको जाना भर। जैसे न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को जाना मात्र जो, कि पहले से मौजूद थी। सत्य सदा सत्य होता है। जो आता है और जाता है वह असत्य है। सत्य को इसीलिए बनाया नहीं जाता मात्र जाना जाता है। जिसको बनाया जा सकता है उसको मिटाया भी जा सकता है अतः वह असत्य होगा। असत्य परिवर्तनशील है और सत्य अपरिवर्तनीय, बासनाओं, क्रोध, राग, द्वेष, शुभ अशुभ चेतना रूपी आकाश पर आते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं और विदा हो जाते हैं, किन्तु आकाश अरिर्वर्तित रहा है। अतः जिस पर परिवर्तन कहान-गुरुदेव विशेषांक

के नियम लागू होते हैं, वह मात्र संसार है। जिस पर ये परिवर्तन आकर नृत्य करते हैं वह सत्य है व परिवर्तन से मुक्त है।

उस सत्य को कहा कैसे जाये ? क्योंकि चेतना का सत्य सत्वात्मक है। उसको अनुभव किया जा सकता है शब्दों में व्यक्त नहीं जैसे मैं कहूँ "आज तो कबकी प्यारी है, ठण्डी हवा है, आकाश में इन्द्र धनुष है आदि" तो इन शब्दों से आपकी ठण्डी हवाओं का आनन्द न मिलेगा और चिन्तों के आकाश प्रसीम भी नहीं हो सकते किन्तु मेरे हाव-भाव से अगर प्रभावित होकर आप सांझ में प्रवेश पाएँ तो आनन्द विभोर हो जायेंगे अतः जैन दर्शन में एक विशेष शब्द है 'श्रुत'। उसका अर्थ महत्त्व है। श्रुत का अर्थ है सुना हुआ। अर्थात् जो गुरु के चरणों में बैठकर सुना गया हो जो कहा नहीं जा सकता उसको, अकथ को। शब्दों में कुछ और कहा जाता है तथा सुना कुछ और जाता है। जैसे आप कभी बच्चे को बाजार जाने के समय जब आपको साथ ले जाना नहीं चाहते तब कहते हो ठहरो, बेटा, मैं अभी आया, तुम्हारे लिए चीज लेने जा रहा हूँ। तब बच्चा आपके चेहरे को देखता है और कहता है कि आप झूठ बहका रहे हो।" एक नन्हा बालक भी शब्द नहीं सुनता वह भी उसे सुनता है जो कहा नहीं गया। आपका अभिप्रायः नित्य ही ऐसी घटनायें जीवन में घट रही हैं। अकथ को सुनो।

स्वामीजी जी कहते हैं अगर कोई श्रोता तन्मयता से सुनता है तो उसमें वह उसे सुनता है जो अकथ है, सत्य है, अमृत है, परिवर्तनीय है। परिवर्तन के साथ एकत्व के सम्मोहन की निद्रा उसकी टूट जायेगी और पायेगा कि वह परिवर्तन से बाहर है। जन्म मृत्यु से अतीत सत्य तत्त्व है।

आत्मा में मन किस प्रकार प्रवेश करे ?

एक भाई ने पूछा—आत्मा की बात सुनते समय तो अच्छी लगती है परन्तु उसके विचार में मन रुकता नहीं, उसका क्या कारण ?

उत्तर में गुरुदेव ने कहा—कि जो वास्तव में रुचि हो तो मन क्यों नहीं लगे संसार के विचार में मन क्यों जाता है ? सुनते समय भी जो वास्तव में आत्म-स्वरूप को लक्ष्य रखकर उसका उत्साह आता है तो उपयोग उसमें लगे बिना रहता नहीं। आत्मा को जानने की वास्तव में रुचि जागे उसका उसमें बारम्बार उपयोग लगता है। इसके विचार में मन सही लगता तो अपने परिणामों में कमजोरी है। उपयोग को अवरल बलपूर्वक पर से हटा कर स्वसत्ता में, चिन्तन में लगाने का बारम्बार उद्यम (पुरुषार्थ) करना चाहिये। बार बार अन्तर के उग्र अभ्यास द्वारा अंतर्मन में उपयोग जरूर लगेगा।

वीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर

□ डा० हुकमचन्द शर्मा, बलपुर

भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त चिन्तने गूढ, गम्भीर व गहन हैं; उनका वर्तमान जीवन (भव) उतना ही साधा, सरल एवं सपाट है; जहाँ विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उनका वर्तमान जीवन घटना कुल नहीं है। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना भी व्यर्थ है।

घटना समग्र जीवन के एक खण्ड पर प्रकाश डालती है। घटनाओं में जीवन को देखना उसे खण्डों में बाँटना है। भगवान महावीर का व्यक्तित्व अखण्ड है, अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व को घटनाओं में बाँटना, उनके व्यक्तित्व को खंडित करना है। अखण्डित दर्पण में बिम्ब अखण्ड और विशाल प्रतिबिम्बित होते हैं, किन्तु काँच के टूट जाने पर प्रतिबिम्ब भी अनेक और क्षुद्र हो जाते हैं। उनकी एकता और विशालता खण्डित हो जाती है। वे अपना वास्तविक अर्थ खो देते हैं।

भगवान महावीर के आकाशवत् विशाल सागर से गम्भीर व्यक्तित्व को बालक वर्द्धमान की बाल-सुलभ क्रीड़ाओं से जोड़ने पर उनकी गरिमा बढ़ती नहीं, बरन खण्डित होती है, सन्मति शब्द का कितना भी महान अर्थ क्यों न हो, वह केवल ज्ञान की विराटता को अपने में नहीं समेट सकता। केवल ज्ञानी के लिये सन्मति नाम छोटा ही पड़ेगा, छोछा ही रहेगा। वह केवल ज्ञानी की महानता व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिनकी वाणी एवं दर्शन ने अनेकों की अकार्य समाप्त की हो, अनेकों को सन्मार्ग दिखाया हो, सत्पथ में लगाया हो, उनकी महानता को किसी एक की अंका को समाप्त करने वाली घटना कुछ विशेष व्यक्त नहीं कर सकती।

बढ़ते तो अपूर्ण हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका हों; उसे वर्द्धमान कहना कहाँ तक सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार महावीर की वीरता को साँप और हाथी वाली घटनाओं से नापना कहाँ तक संगत है, वह एक विचारने की बात है।

यद्यपि महावीर के जीवन संबंधी उक्त घटनाएँ शास्त्रों में उल्लिखित हैं तथापि वे बालक वर्द्धमान को वृद्धियत बनाती हैं, भगवान महावीर की नहीं। साँप से न

हरना बालक वर्द्धमान के लिए वीरव की बात हो सकती है, हाथी को बस-करना राजकुमार वर्द्धमान के लिए प्रशंसनीय कार्य हो सकता है, भगवान महावीर के लिए नहीं। आचार्यों ने उन्हें यथास्थान ही इंगित किया है। वन विहारी पूर्ण अभय को प्राण्य महावीर एवं वीतरागी, सर्वस्वांतर के उद्धोषक तीर्थंकर भगवान महावीर के लिए सपि से न करना, हाथी को काबू में रखना क्या महत्व रखते हैं।

जिस प्रकार बालक के जन्म के साथ इष्ट मित्र सम्बन्धी-जन वस्त्रादि लाते हैं और कभी-कभी तो सैकड़ों जोड़ी वस्त्र बालक को इकट्ठे हो जाते हैं। लाते तो सभी बालक के अनुरूप ही हैं, पर वे सब कपड़े तो बालक को पहिनाए नहीं जा सकते। बालक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वस्त्र तो बढ़ते नहीं। जब बालक २०-२५ वर्ष का हो जावे तब कोई माँ उन्हें वही वस्त्र पहिनाने की सोचे, जो जन्म के समय धाये थे और जिनका प्रयोग नहीं कर पाया है, तो क्या वे वस्त्र २०-२५ वर्षीय युवक को धा पायेंगे ? नहीं धाने पर वस्त्र लाने वालों को भला बुरा कहें तो यह उसकी ही भूलैता मानी जायेगी, वस्त्र लाने वालों की नहीं। इसी प्रकार महावीर के वर्द्धमान वीर, अतिवीर आदि नाम उन्हें उस समय दिये गये थे, जब वे नित्य बढ़ रहे थे, सन्मति (मति-ज्ञानी) थे, राजकुमार थे। उन्हीं घटनाओं और नामों को लेकर हम तीर्थंकर भगवान महावीर को समझना चाहें, समझना चाहें, तो यह हमारी बुद्धि की ही कमी होगी न कि लिखने वाले आचार्यों की। वे नाम, वे वीरता की चर्चाएँ यथा-समय सार्थक थीं।

तीर्थंकर महावीर के विराट् व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उन्हें विरागी दृष्टिकोण से देखना होगा। वे धर्मक्षेत्र के वीर, अतिवीर और महावीर थे, युद्धक्षेत्र और धर्मक्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है। युद्धक्षेत्र में शत्रु का नाश किया जाता है और धर्मक्षेत्र में शत्रुता का, युद्धक्षेत्र में पर को जीता जाता है और धर्मक्षेत्र में स्वयं को। युद्धक्षेत्र में पर को मारा जाता है और धर्मक्षेत्र में अपने विकारों को।

महावीर की वीरता में दौड़-भूप नहीं, उछलकूद नहीं, मारकाट नहीं, हाहाकार नहीं, अनन्त शान्ति है। उनके व्यक्तित्व में वैभव की नहीं, वीतराग-विज्ञान की विराटता है।

एक बात यह भी तो है कि दुर्घटनाएँ या तो पाप के उदय से घटती हैं या पाप भाव के कारण। जिसके जीवन में न पाप का उदय हो और और न पाप भाव ही, तो फिर दुर्घटनाएँ कसे घटेगीं, क्यों घटेगीं ? अनिष्ट संयोग पाप के उदय के बिना संभव नहीं है तथा वैभव और लोगों में उलझाव पाप भाव के बिना असंभव है। भोग के भावरूप पाप-भाव सद्भाव में घटने वाली घटनाओं में हाथी एक ऐसी दुर्घटना है, जिसके घट जाने पर दुर्घटनाओं का एक कभी न समाप्त होने वाला सिल-

बिना धारण्य हो जाता है। सौभाग्य से महावीर के जीवन में यह दुर्घटना न घट सकी। एक कारण यह भी है कि उनका जीवन घटना प्रधान नहीं है।

लोग कहते हैं कि बचपन में किसके साथ क्या नहीं घटता, किसके घुटने नहीं टूटते, किसके दाँत नहीं टूटते? महावीर के साथ भी निश्चित रूप से यह सब कुछ घटा ही होगा? भले ही आचार्यों ने न लिखा हो पर भाई साहब दुर्घटनाएँ बचपन से नहीं, बचपन से घटती हैं। महावीर के बचपन तो धारा था, पर बचपना उनमें नहीं था। अतः घुटने फूटने और दाँत टूटने का सवाल ही नहीं उठता। वे तो बचपन से ही सरल, शांत एवं चिन्तनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उपद्रव करना उनके स्वभाव में ही न था और बिना उपद्रव के दाँत टूटना, घुटने फूटना संभव नहीं।

कुछ का कहना यह भी है कि न सही बचपन में पर जवानी तो घटनाओं का ही काल है। जवानी में तो कुछ न कुछ घटा ही होगा। पर बन्धुवर! जवानी में दुर्घटनाएँ उनके साथ घटती हैं, जिन पर जवानी चढ़ती है, महावीर तो जवानी पर चढ़े थे, जवानी उन पर नहीं। जवानी चढ़ने का अर्थ है—प्रौढ संबंधी विकृतियाँ उत्पन्न होना और जवानी पर चढ़ना का तात्पर्य शारीरिक सौष्ठव का पूर्णता को प्राप्त होना है।

राग संबन्धी विकृति भोगों में प्रगट होती है और द्वेष सम्बन्धी विद्रोह में। न वे रागी थे, न द्वेषी। अतः न वे भोगी थे और न ही द्रोही।

महावीर ने विद्रोह नहीं, अद्रोह किया था। विद्रोह, द्रोह का ही एक भेद है। द्रोह स्वयं एक विकार है। उन्होंने न स्वयं से द्रोह किया, न दूसरों से। उन्होंने द्रोह का अभाव किया था, अतः उन्हें अद्रोही ही कहा जा सकता है विद्रोही नहीं। द्रोह, द्रोह को उत्पन्न करता है, द्रोह से अद्रोह का जन्म नहीं हो सकता। उन्होंने किसी के प्रति विद्रोह करके घर नहीं छोड़ा था। उनका त्याग विद्रोह मूलक न था। उनके त्याग और संयम के कारणों को दूसरों में खोजना महावीर के साथ अन्याय है। वे 'न काहू से दोस्ती न काहू से वैर' के रास्ते पर चले थे।

वीतरागी-पथ पर चलने वाले विरागी महावीर को समझने के लिए उनके अन्तर में झंझना होगा। उनका वैराग्य देश-काल की परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुआ था। उनके कारण उनके अन्तरंग में विद्यमान थे। उनका विराग्य परोपजीवी नहीं था। जो वैराग्य किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, वह अण-जीवी होता है। परिस्थितियों के बदलते ही उसका समाप्त हो जाना संभव है।

यदि देश-काल की परिस्थितियाँ महावीर के अनुकूल होती तो क्या वे वैराग्य धारण न करते, गृहस्थी बसाते, राज्य करते? नहीं कदापि नहीं। और परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थीं हीं कब? तीर्थंकर महान् पुण्यशाली महापुरुष होते हैं, अतः परिस्थितियों का प्रतिकूल होना संभव नहीं था।

बैरागी का विराग राम के अभाव का नाम है, बिद्रोह का नाम नहीं। बैरागी राम के अभाव के कारण बने थे, न कि बिद्रोह के कारण। महावीर बैरागी राजकुमार थे, न कि बिद्रोही। महावीर जैसे अद्रोही महामानव में बिद्रोह खोज लेना असूतपूर्व काव्य बुद्धि का परिणाम है। बालू में तेल निकाल लेने जैसा यत्न है। बन्ध्या के पुत्र के बिनाह् वर्षनयत् कल्पना की उड़ानें हैं जिनका न धोर हैं न छोर।

घर में जो कुछ घटता है, अपनी ओर से घटता है, पर वन में तो बाहर से बहुत कुछ घट जाने के प्रसंग रहते हैं क्योंकि घर में बाहर के आक्रमण से सुरक्षा का प्रबन्ध प्रयत्न रहता है। यदि कोई उत्पात हो, तो, अन्तर के विकारों के कारण ही होता देखा जाता है, पर वन में बाहर से सुरक्षा-प्रबन्ध का अभाव होने से घटनाएँ घटने की संभावना अधिक रहती हैं। माना कि महावीर का अन्तर विशुद्ध था। अतः घर में कुछ न घटा, घर वन में तो घटा ही होगा ?

हाँ ! हाँ ! अवश्य घटा था पर लोक जैसे घटने को घटना माना है, वैसा कुछ नहीं घटा था। राग-द्वेष घट गये थे, तब तो वे वन को गये ही थे। क्या राग-द्वेष का घटना कोई घटना नहीं है ? पर बहिर्मुखी दृष्टि वालों को राग द्वेष में कुछ घटना सा नहीं लगता। यदि तिजोड़ी में से लाख दो लाख रुपया घट जायें, शरीर में से कुछ खून घट जाये, आँसू, नाक, कान घट जाये, कट जाये तो इसे बहुत बड़ी घटना लगती है, पर राग-द्वेष घट जाये तो इसे घटना ही नहीं लगता, वन में ही तो महावीर रागी से वीतरागी बने थे; अल्पज्ञानी से पूर्ण ज्ञानी बने थे। सर्वज्ञता और तीर्थकरत्व वन में ही तो पाया था। क्या वह घटनायें छोटी है ? क्या कम है ? इससे बड़ी भी कोई घटना हो सकती है ? मानव से भगवान बन जाना कोई छोटी घटना है ? पर जगत को इसमें कोई घटना सी ही नहीं लगती। तोड़-फोड़ की रुचि वाले जगत को तोड़-फोड़ में ही घटना नजर आती है, अन्तर में शांति से चाहे जो कुछ घट जाय, उसे वह घटना सी नहीं लगता है। अन्तर में जो कुछ प्रतिपल घट रहा है वह तो उसे दिखाई नहीं देता। बाहर में कुछ हलचल हो तभी कुछ घटा सा लगता है।

जब तक देवागनाएँ लुभाने को न आवें और उनके लुभाने पर भी कोई महापुरुष न डिये तब तक हमें उसकी विरागता में शंका बना रहती है, तब तक कोई पत्थर न बरसाएँ, उपद्रव न करे और उपद्रव में भी कोई महात्मा शान्त न बना रहे तब तक हमें उसकी वीन-द्वेषता समझ में नहीं आती। यदि प्रबल पुण्योदय से किसी महात्मा के इस प्रकार के प्रतिकूल संयोग न मिलें तो क्या वह वीतरागी और वीतद्वेषी नहीं बन सकता, क्या वीतरागी और द्वेषी बनने के लिए देवागनाओं को डिगाना राजसों का उपद्रव आवश्यक है ? क्या वीतरागता इन काल्पनिक घटनाओं के बिना

प्राप्त और संप्रेषित नहीं की जा सकती है ? क्या मुझे क्षमाशील होने के लिए सामने वालों का गाली देना, मुझे सताना जरूरी है, क्या इसके सताए बिना मैं शान्त नहीं हो सकता ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो बाह्य घटनाओं की कमी के कारण महावीर के चरित्र में स्थापन मानने वालों और चिन्तित होने वालों को विचारणीय हैं ।

वन में जाने से पूर्व ही महावीर बहुत कुछ वीतरागी हो गये थे । रहा- सड़ा राग भी तोड़, पूर्ण वीतरागी बनने, नग्न दिग्म्बर हो वन को चल पड़े थे । उनके लिए वन और नगर में कोई भेद नहीं रहा था । सब कुछ छूट गया था, वे सब से टूट गये थे । उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, कुछ छोड़ा न था । वे साधु बने नहीं, हो गये थे । साधु बनने में वेष पलटना पड़ता है । साधु होने में स्वयं ही पलट जाता है । स्वयं के बदल जाने पर वेष भी सहज ही बदल जाता है । वेष बदल क्या जाता है, सहज वेष हो जाता है, यथा जात वेष हो जाता है, जैसा पैदा हुआ था वही रह जाता है, बाकी सब छूट जाता है ।

वस्तुतः साधु की कोई ड्रेस ही नहीं है, सब ड्रेसों का त्याग ही साधु का वेष है । ड्रेस बदलने से साधुता नहीं आती, साधुता आने पर ड्रेस छूट जाती है । यथा जातरूप (नग्न) ही सहज वेष है और सब वेष तो श्रमसाध्य हैं, धारण करने रूप हैं । वे साधु के वेष नहीं हो सकते क्योंकि उनमें गाँठ बाँधना अनिवार्य है, साधुता बंधन नहीं है । उसमें सर्वबंधनों की अस्वीकृति है । साधु कोई वेष नहीं होता, नग्नता कोई वेष नहीं । वेष-साज-शृंगार है, साधु को सजने-संवरने की फुसंत ही कहाँ है ? उसका सजने का भाव ही चला गया है । सजने में "दूसरों को कैसा लगता हू ?" का भाव प्रमुख रहता है । साधु को दूसरों से प्रयोजन ही नहीं है, वह जैसा है वैसा ही है । वह अपने में ऐसा मग्न है कि दूसरों के बारे में सोचने का काम ही नहीं । दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी उसे परवाह ही नहीं । सर्ववेष शृंगार के सूचक हैं । साधु को शृंगार की आवश्यकता ही नहीं । अतः उसका कोई वेष नहीं होता ।

दिग्म्बर कोई वेष नहीं है, सम्प्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वरूप है । पर हम वेषों को देखने के इतने आदि हो गये हैं कि वेष के बिना सोच नहीं सकते । हमारी भाषा वेषों की भाषा हो गयी है । अतः हमारे लिए दिग्म्बर भी वेष हो गया है । हो क्या गया कहा जाने लगा है । सब वेषों में कुछ उतारना पड़ता है और कुछ पहिनना होता है, पर इसमें छोड़ना ही छोड़ना है, जोड़ना कुछ भी नहीं है । छोड़ना भी क्या उचड़ना है, छूटना है । अन्दर से सब कुछ छूट गया है, देह भी छूट गयी है, पर बाहर से अभी वस्त्र भी छूटे हैं, देह छूटने में अभी कुछ समय लग सकता है, पर वह भी छूटना है, क्योंकि उसके प्रति भी जो राग था वह टूट चुका है । देह रह गयी है तो रह गयी है, जब छूटेगी तब छूट जायगी, पर उसकी भी परवाह छूट गयी है ।

महावीर मुनिराज वर्द्धमान नगर छोड़ वन में चले गये । पर वे वन में भी गये कहाँ ? वे तो अपने में चले गये हैं, उनका वन में भी अपनत्व कहाँ है ? उन्हें वनवासी कहना भी उपचार है, क्योंकि वे वन में भी कहाँ रहे ? वे तो आत्मवासी हैं । न उन्हें नगर से लगाव है, न वन से, वे तो दोनों से अलग हो गये हैं, उनका तो पर से अलगाव ही अलगाव है ।

रागी वन में जायगा तो कूटिया बनायगा, वहाँ भी घर बसायगा । ग्राम और नगर बसायगा, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, है तो वह घर ही । रागी वन में भी मंदिर के नाम महल बसायेगा, महलों में भी उपवन बसायगा । वह वन में रहकर भी महलों को छोड़ेगा नहीं, महल में रहकर भी वन को छोड़ेगा नहीं ।

उनका चित्त जगत् के प्रति सजग न होकर आत्मनिष्ठ था । देश-काल की परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं का दमन नहीं किया था । उन्हें दमन की आवश्यकता भी न थी क्योंकि वासनायें स्वयमेव अस्त हो चुकी थीं ।

उन्होंने सर्वदा मौन धारण कर लिया, था उनको बोलने का भाव भी न रहा था । वाणी पर से जोड़ती है, उन्हें पर जड़ना ही न था । वाणी विचारों की बाहक है, वह विचारों का आदान-प्रदान करने में निमित्त है, वह समझने-समझाने के काम आती है, उन्हें किसी से कुछ समझना ही न था जो समझने योग्य था उसे वे अच्छी तरह समझ चुके थे, अब तो उममें मग्न थे । उन्हें किसी को समझने का राग भी न रहा था, अतः वाणी का क्या प्रयोजन ? वाणी उन्हें प्राप्त थी, पर वाणी की उन्हें आवश्यकता ही न थी । जो उन्हें चाहिये ही नहीं, वह रहे तो रहे, उससे उन्हें क्या ? रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक । वे निरन्तर आत्म-चिन्तन में ही लगे रहते थे ।

नहाना-घोना सब कुछ छूट गया था । वे स्नान और दंत-धवन के विकल्प से भी परे थे । शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाले मुनिराज वर्द्धमान गिरिकन्दराओं में वाम करने थे । वस्तुतः न उनका कोई शत्रु ही रहा था और न कोई मित्र । मित्र और शत्रु राग-द्वेष की उपज है । जब उनके राग-द्वेष ही समाप्त प्रायः थे, तब शत्रु मित्रों के रखने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था । मित्र रागियों के होते हैं, और शत्रु द्वेषियों के, वीतरागियों का मित्र और वीर शत्रु ? कोई उनसे शत्रुता करो तो करो, मित्रता करो तो करो, उन पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है । शत्रु-मित्र के प्रति समभाव का अर्थ ही शत्रु-मित्र का अभाव है । उनके लिए उनका न कोई शत्रु था और न कोई मित्र । अन्य लोग उन्हें अपना शत्रु मानों तो मानों, अपना मित्र मानो तो मानो, अब वे किसी के कुछ भी न रह गये थे । किसी का कुछ रहने में कुछ लगाव होता है, उन्हें जगत् से कोई लगाव ही न रहा था ।

एक अष्ट घटना महावीर के जीवन में अवश्य घटी थी आज से २५०१ वर्ष

पहले दीपावली के दिन जब वे घट (देह) से झलक हो गये, अघट हो गये थे। घट-घट के वासी होकर भी घटवासी भी न रहे थे, गृहवासी और वनवासी तो बहुत दूर की बात है। अन्तिम घट (देह) को भी त्याग मुक्त हो गये थे। इससे अभूतपूर्व घटना किसी के जीवन में कोई अन्य नहीं हो सकती पर यह जगत् इसको घटना माने तब है न।

इस प्रकार जगत् से सर्वथा अलिप्त, सम्पूर्णतः आत्मनिष्ठ महावीर के जीवन को समझने के लिए उनके अन्तर में झाँकना होगा कि उनके अन्तर में क्या कुछ घटा। उन्हें बाहरी घटनाओं से नापना, बाहरी घटनाओं में बाँधना संभव नहीं है। यदि हमने उनके ऊपर अघट-घटनाओं को थोपने की कोशिश की तो वास्तविक महावीर तिरोहित हो जायेंगे, वे हमारी पकड़ से बाहर हो जायेंगे और जो महावीर हमारे हाथ लयेंगे, वे वास्तविक महावीर न होंगे, तेरी मेरी कल्पना के महावीर होंगे। यदि हमें वास्तविक महावीर चाहिये हो तो उन्हें कल्पनाओं के घेरों में न घेरिये। उन्हें समझने का यत्न कीजिए, अपनी विकृत कल्पनाओं को उन पर थोपने की अनाधिकार चेष्टा मत दीजिए।



चैतन्य के एकत्व में परम सुख

अनुभव की मस्ती उसके चित्त को अन्य किसी भी स्थान पर नहीं लगते देती। स्वानुभव के शांत रस से तृप्त-तृप्त है। चैतन्य के आनन्द के रस में ऐसा मस्त है कि अब अन्य कुछ भी करने का रहा नहीं। भेद-ज्ञान के द्वारा अभेद अंतः तत्त्व को मुख्य करके—

मैं ही ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही सुख हूँ, मेरा स्वभाव वृद्धि को प्राप्त करता हूँ पर भाव का मेरे में प्रवेश नहीं। मैं अपने चैतन्य यिलास-स्वरूप हूँ। चैतन्य में अन्य किसी की चिन्ता नहीं है—इस प्रकार धर्मी जीव 'पर' से भिन्न अपने एकत्व स्वरूप का चिन्तन करता है। चैतन्य के एकत्व चिन्तन में परम सुख है।

आत्म मूल्यांकन करना सीखें

—श्रीमती स्वयंती 'किरण'

जैन दर्शन का केन्द्र बिन्दु एकमात्र आत्मा है। द्वादशांग वाणी का सार भी आत्मा की उपलब्धि ही है। पूर्वाचार्यों ने आधि-व्याधि-उपाधियों से संतप्तजनों को स्वानुभव के आधार पर सबकी अपेक्षा त्याग स्वतंत्रता से पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। सब-संसारी प्राणी स्वयं की भूल से स्वभावच्छुत हो विकारों में तन्मय हो रहे हैं एवं दोष कर्मोदय को देकर स्वयं प्रमादी बन निर्दिष्ट हो जाते हैं। अर्थात्-कल्याण का मार्ग सबने स्वतः अवरुद्ध कर लिया है। शास्त्र स्वाध्याय करके भी हम उसका मर्म नहीं समझ सके हैं। द्रव्य से द्रव्यान्तर क्रिया में धर्म मान उसी में दत्तचित्त हो संतुष्ट होते रहे हैं। अतः सुख शांति से साक्षात्कार नहीं हो सका।

आत्म स्वीकृति होना अनिवार्य

शाताब्दियों पश्चात् जैन दर्शन के मर्मज्ञ महामुखों की वर्तमान शृंखला में श्री कानजी स्वामी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। उन्होंने अपने उपदेशामृत से शास्त्रों को समझने की कला सिखलाई। वह कला और कुछ नहीं केवल यही है कि आत्मस्वातंत्र्य को स्वीकार करो। धर्म या कर्म स्वतंत्रतया आत्मा ही करता है, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ नहीं। अतएव पर दोषारोपण वृत्ति को त्याग स्वतः की छानबीन अभीष्ट है। अपने विकारों को अपने ही अज्ञानकृत समझ कर ज्ञान से उन्हें निर्मूल करने का उपक्रम करना योग्य है। अज्ञान की खाद में कषाय-विष से विषले वृक्ष लगते हैं। जैसे भाव वैसे फल। भावों का फल ही आत्मा को प्राप्त होता है। अतएव भावों की सावधानी वांछनीय है।

धर्म की लीक एक—कानजी स्वामी ने कोई नवीन बात नहीं कही। कहते भी कैसे? प्राचीन आचार्यों की कथनी पर आपकी दृढ़तम श्रद्धा है। जो आपने अनुभव के आश्रय से प्रकट की है। लोक की लीक विभिन्न होती हैं; परन्तु धर्म की लीक एक है और एक रहेगी। अनादिकाल से जो आत्मार्थ सिद्ध हो रही हैं, वे सब एक ही पथ की पथिक रही हैं। सबका समान लक्ष्य पाथेय सदृश रहा है। वह लक्ष्य है मुक्ति का एवं पाथेय है परम पावन सम्पददर्शन-ज्ञान-चरित्र स्वरूप रत्नत्रय। जिसको लेकर मुक्ति पथ का पथिक वीतरागता के मार्ग पर समता भाव से गतिशील हो जाता है।

अमता को इकाई बनाकर अमण संस्कृति नहीं चलती। अमण के पथविद्यार्थी शब्द 'अमण' और 'अमण' भी हैं। 'अमण' शब्द स्वावलंबी बन अमपूर्वक आत्मपुनर्वास करने का सूचक है तो 'अमण' राग द्वेष अन्य इष्टानिष्ट का समन कर समता भाव को बतलाता है। एवं 'अमण' विषय कथाओं को शमन करने को प्रेरित करता है। इस संस्कृति का अर्थ एक अमण परिपूर्ण बीतरागता की प्राप्ति है। गृहस्थ आश्रम की शान्ति इसी के अंग है। अमण समान होने से गृहस्थ जीवन में ही शुद्ध श्रद्धा, विवेक, क्रिया अनिर्धार्य है।

चरित्र की आभास आत्मा

यह निर्विरोध अत्य है कि ज्ञान के अभाव में सम्यग्दर्शन नहीं होता। ज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन होता है, पर ज्ञान सम्यग्दर्शन के साथ सम्यक्ज्ञान व चरित्र सम्यक् चरित्र की संज्ञा धारण करता है। वह चरित्र साक्षात् धर्म है, जो सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही होता है। 'स्व' की विस्मृति में दिशा परिष्करण के पूर्व जो चरित्र होता है; वह अन्य पदार्थों में ग्रहण या त्याग के आश्रय से होता है। इसीलिये वह सुगतियों का लाभ कराते हुये भी उद्देश्य पूर्ति में असमर्थ होने के कारण श्रेयस्कर नहीं है। मोक्ष-मार्ग में उसका कोई मूल्य नहीं। वह निरर्थक व बंध का कारण है। निरी सहित बादास ही बहुमूल्य है, छिलका तो केवल भार है।

साक्षरत सुख का मार्ग

आत्मा का लक्ष्म बंधन मुक्त हो सुख प्राप्त करना है। जिस सुख में व्यग्रता हो, जो क्षणश्वर हो, अनेक पदार्थों से प्रतिबंधित हो; ऐसा सुख किसी भी प्राणी का अभिधेय नहीं हो सकता। सुख ब्रह्म जिसका कभी वियोग न हो, सदैव सबंध जिसका उपयोग किया सके। वह परम सुख इन्द्रिय विषयों की उपेक्षा कर पापपुण्यमय राग द्वेषादि कृति को अतिक्रान्त कर आत्मस्वभाव के आश्रय से स्वद्वेष्य में स्थित होने पर ही उपलब्ध होता है। समस्त द्रव्यों से दृष्टि को मुक्त करके प्राणी मुक्ति पथ का पथिक बनकर मुक्त होता है। अन्य मार्ग नहीं है।

कतिपय सदाचरण अपनाकर नियम संयम ग्रहण कर जगतजन धर्मात्मा हो जाने की कल्पनाकर अभिमान करता है अथवा धर्म कर रहा हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है। जितने अधिक कठोर नियम उतना ही श्रेष्ठ धर्मात्मा धर्म क्रियाकांड के कठिन नियंत्रण में बंदी हो गया। आत्मधर्म का माप शारीरिक क्रियायें बन बैठें। कायकलेश को भी धर्म का अंग मान बैठे। विषय भोग के त्याग से अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ। अहंकार की भूल यश, सम्मान, प्रतिष्ठा की आहुति पाकर अधिकाधिक ज्वलन शील होती गई। कदाचित् यथादि की उपलब्धि न हुई तो जागीं क्रोधादित् कथायें, जो उपार्जित पुण्य को भी भस्म कर गईं। यथार्थतः द्रव्य की द्रव्यांतर क्रिया

भावकर महत् भूल हो रही है। देह की क्रिया से आत्मा की क्रिया कैसे हो सकती है? आत्मानुभूति की इकाई के साथ शून्यवत् व्रतादि क्रियायें कई शुनी भूल्यवान् कहलाने लगती हैं। शून्य मिटाने की नहीं, अपितु इकाई जगाने की आवश्यकता है।

धर्म के मर्म से अनभिज्ञ प्राणी अज्ञान के कारण पाप छिपकर करते हैं और पुण्य उजागर। स्पष्ट है कि वह पाप को हेय एवं पुण्य को उपादेय मानते हैं। जब कि दोनों एक ही जाति के आत्मस्वरूप से विरुद्ध हैं। पाप पुण्य रूप भाव आत्मा में होते हैं तथा क्रिया पुदगल में। यह नियम नहीं है कि भावानुसार क्रिया हो ही। हो भी न भी हो। अतएव मोक्षाभिलाषी जीव आत्मा की अनन्त सामर्थ्य का अटल आश्रय कर भेद ज्ञान के द्वारा प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता ज्ञात कर अन्य द्रव्य के कर्त्तव्य से दृष्टि हटाकर पुरातन मान्यताओं से निर्मूल कर देता है पौद्गालिक क्रिया का स्वामित्व छोड़ देने के साथ ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है।

अग्नि व जल एक साथ नहीं रह सकते। अग्नि दाहक है, जल शामक। राग दाहक है वीतरागता शामक। वीतराग की ओर दृष्टि होते ही राग की रचि दूट जाती है। फिर राग को सहेजने का नहीं बरन उससे हटने का प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में राग और विराग दोनों एक साथ पाये जाते हैं; तथापि दोनों की रचि एक साथ नहीं रहती। जैसे किसी कक्ष में बहुत दिनों से कूड़ा कचरा भरा हुआ हो। कोई व्यक्ति उसको अपना निवास स्थान बनाना चाहे तो वह उसे स्वच्छ करने का संकल्प बिना विकल्प के कर लेगा; पर संकल्प करते ही स्वच्छता नहीं प्रायगी। वह शनैःशनैः स्वच्छ संकल्प के अनुसार स्वच्छता की क्रिया करेगा। जितने हिस्से से कचड़ा बुहर जायगा वह स्वच्छ, शेष अस्वच्छ रहेगा। इसी प्रकार राग की रचि न होते हुए भी राग व विराग एक साथ पाये जाते हैं।

‘स्व’ की ओर आये

अनादि काल से जीवन की अपूर्ण ऊर्जा ‘पर’ की ओर प्रवाहित हो रही है। जैन दर्शन का अध्ययन का सत् देव शास्त्र गुरु की, शरण पाकर व्रत संयम धारण करके भी यदि संमरण की प्रक्रिया चलती रही तो फिर कल्याण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पाप पुण्य रूप शुभ अशुभ उपयोग से प्राणी की स्थिति समुद्र में डूबे हुए मनुष्य जैसी होती है। वह कभी पाप में डूबता है तो कभी पुण्य की सतह पर भी आ जाता है; किन्तु किनारे नहीं लगता। ऊर्जा को अपनी ओर मोड़े बिना मुक्ति का संकल्प पूर्ण नहीं होता।

आचार्यों ने बतलाया है कि विकार धर्म की कोटि में नहीं आता; भले ही वह कितना ही शुभ क्यों न हो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्म स्वभाव की आघार शिला पर ही धर्म का भवन निमित्त होता है। आत्मा ही धर्म का आदि व अन्त है।

धर्म आत्मा से प्रारम्भ होकर आत्मा में समाधिस्थ होता है। वे अपना अस्मित व्यक्त करते हैं कि अत्येक द्रव्य को किया स्वयं उसी में होती है। अन्य द्रव्य में नहीं। द्रव्य स्वयं कारण स्वयं कार्य है।

जीवादि षट् द्रव्यों का तिरुपण वस्तु की अत्यन्त स्वतंत्रता की सिद्धि के प्रबन्ध ही है आचार्य श्री नियमसार में कहते हैं—

इहपक्षनिमित्त अस्तित्वेःकारणं वा ।

यत्स्वरवस्त्रिस्तावत् स्थानं शान प्रवीणम् ॥

तद्वन्तिस भवलोचनं द्रव्यं रूपेण सम्यक्

प्रविशतु निज तत्त्वं सर्वदा भव्य लोकः ॥४६॥

यहां ऐसा अभिप्राय है कि जो धर्म द्रव्य का निमित्त है, अधर्मद्रव्य स्थिति का कारण है एवं आकाश द्रव्य सर्व को स्थान देने में प्रवीण है, उन सबको सम्यक् द्रव्य रूप से भवलोचन कर भव्यजन सर्वदा निजतत्त्व में प्रवेश करो।

ध्येय में तन्वयता इष्ट है

प्राणी को सर्वप्रथम निज ज्ञानभय अस्तित्व की स्वीकृति होनी चाहिये। संसारी जन समस्त को स्वीकार करते हैं, पर स्वयं को नहीं। यह अज्ञानता छाया को स्वीकार कर छायावान् को नकार ने जैसी है। समस्त ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को ही हम अस्वीकार कर बैठे हैं। अध्यात्मशास्त्र केवल आत्मस्वभाव की ही चर्चा करता है। वह दो टुक निर्णय दे चुका है कि आत्मा का ध्येय स्वयं को पाना है, अन्य कुछ नहीं। यद्यपि आत्मा में वर्तमान में रागादि विभाव क्रोधादि कषायें हैं, तथापि मोक्षाभिलाषी ज्ञानी इन सब विकारों की उपेक्षा कर निःशंक मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, क्योंकि ये सब उसके पथ की बाधा है। अतः इनकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। यह नीति भी है कि प्रयोजक प्रतिपक्षी का विरोध न कर अपने विवक्षित प्रयोजन की सिद्धि में संलग्न रहता रहता है।

रहस्य : अनुयोगों में

चारों अनुयोगों का रहस्य भी यही है कि आत्मा स्वस्थित हो। प्रथमानुयोग कथाओं के माध्यम से पापपुण्य का फल संसार भ्रमण का दिग्दर्शन कराते हुये आत्मा को अनुमुखी बनने का उपदेश देता है। तभी वह निर्बन्ध हो सकता है। चरणानुयोग राग के साधनों के त्याग का कथन करता है। क्योंकि तिल तुम मात्र परिग्रह भी परमपद की प्राप्ति में बाधक है। अतएव त्याग मात्र से ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। त्याग का राग भी त्यागना अनिवार्य है, जो आत्म स्वभाव से परिचित हुये बिना असंभव है।

करणानुयोग

अभी तक हम 'पर' में चरण करते रहे हैं। अतः योगा का अम करके भी स्वयं से दूर रहे। विषय भोग सम्बन्धी पदार्थों से राम किया अथवा द्वेष किया, जो अशीष्ट नहीं है। अतएव त्यागपूर्वक विषयों से हटकर आत्माभिरुचि की वृद्धि करते हुए बीतराग होने का सतत अभ्यास अनिवार्य है। अस्थिर संसृष्टि अन्तः, चारित्र ही निश्चय से वर्म है। चारित्र का अर्थ सम्यक् चारित्र से ही है। सम्यक् चारित्र बहो है कि जब आत्मा स्वयं में ही चरण करे अथवा निज स्वरूप के अनु रूप आत्मा की सहज वृत्ति बन जाये। चारित्र भारस्वरूप कष्टदायक नहीं है। आचार्यों ने स्वाभाविक परिणति में सहज रमण को ही सम्यक् चारित्र स्वीकार किया है अथवा ज्ञान का ज्ञान रूप हो जाना चारित्र है।

करणानुयोग

करणानुयोग कर्म की प्रधानता से कथन कर सद्भावात्मक या आभावात्मक आत्मपरिणामों को सूचित करता है। कर्मोदय में अज्ञानी आत्मा के परिणाम तद्रूप होते हैं। यदि कर्मोदय के समय शुभाशुभ भाव न कर आत्मा निज स्वभाव में लीन रहे, तो कर्म बलात् उसे कर्म रूप परिणाम करने को बाध्य नहीं करते। ग्रह जीव पर निर्भर है कि वह अपना उपयोग जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है। यह भी देखने में आता है कि जीव सुख के उदय में दुःखी एवं दुःख के उदय में सुखी होता है। उदाहरणतः स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने सर्व सुविधा संपन्न होते हुये भी देश की परतंत्रता से दुःखी हो गृह त्याग कर राष्ट्रहित में जेल का बंदी जीवन अपना हर्ष-पूर्वक नृशंस यंत्रणायें सहन कीं। फाँसी के तख्ते पर हैंसते-हैंसते भूल गये। जब लौकिक जीवों की यह अवस्था है, तब अध्यात्मयोगियों में तो अलौकिकता होगी ही। उनके अनेक दृष्टांत पुराणों में अर्चित हैं। कुमार सुकुमार आदि को जिस क्षण आत्मबोध हुआ कि फूलों की शैया शूलों सी चुभन देने लगी है और स्थालिनी के भक्षण के भयंकर कष्ट में कष्ट का अनुभव न कर स्वरमण का अन्नन्द लेते रहे। कोई-कोई आत्मपुरुषार्थी तो ऐसे उपसर्गों में अपने शुद्धोद्योग के अवलंबन से तत्काल केवल ज्ञानी हो मुक्त हो जाते हैं।

कर्म अति सूक्ष्म हैं। उनसे भी अत्यंत सूक्ष्म आत्मा के विकार मोह रोग द्वेषादि कषायें हैं। कर्म भावों से अधिक स्थूल हैं। फिर भी हमें नहीं दिखते जब कि भाव सूक्ष्मातिसूक्ष्म होते हुये भी हमारे अनुभव में आते हैं। भावों से उस समय में आने वाले कर्मों का अनुमान हो जाता है। आत्मा की रागद्वेषमय परिणति कर्मोदय का अस्तित्व सिद्ध करती है। जैसे जैसे घूम देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार राग भावमय घूम कर्मोदय रूप अग्नि के सूचक हैं।

कुर्यानुयोग का अभिप्राय यही है कि कर्मायमित्त भाव आत्मज्ञान से नहीं अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। कर्मों का संबंध-अज्ञान से है। वे इसके भाष्यम से ही भ्रष्टा से संयोग करते हैं। अज्ञान के अभाव में संबंध टूट जाता है। यह भीण सम्बन्धी ज्ञान चाहे वह कितना भी विशद कर्मों न हो समस्त अज्ञान ही है। आत्म-ज्ञान भी जब तक आत्मज्ञान में परिणित नहीं हो जाता; तब तक वह भी अज्ञान है। अतः आत्मप्रेमी कर्मों की बलवत्ता को अस्वीकृत कर उससे भिन्न अनंत बलशाली आत्मसामर्थ्य की प्रतीतिकर उसमें तन्मय होने का प्रयत्न करता है।

द्रव्यानुयोग

द्रव्यानुयोग वस्तु के स्वभाव की चर्चाकर उसमें होने वाले वैभाविक भावों को स्पर्श नहीं करता। वस्तु का शुद्ध स्वभाव ही उसका विवेच्य विषय है। षट्द्रव्यों के मध्य रहने वाले सार द्रव्य आत्मा की विशेष रूप से कबनी कर आत्मस्वभाव में प्रविष्ट होने की प्रेरणा देता है। इस संदर्भ में अन्य द्रव्यों की भी चर्चा आती है; परन्तु उससे भी विवक्षित द्रव्य की स्वतंत्रता का ही प्रतिपादन होता है। तात्पर्य यह कि चारों अनुयोग आत्मा को केन्द्रीभूत कर आत्म लीन होने का ही उपदेश देते हैं।

आत्मसाधना एक अद्वितीय कला है। इसमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदि प्रत्ययों का आश्रय लेकर उनके सानिध्य में जीव अपनी मलिन आत्मा को दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य से माँज माँजकर चमका उनकी स्वच्छता से अपनी तुलना करता है और जब तक पूर्णतः निर्मलता नहीं आती तब तक अनवरत अभ्यास, श्रम चला करता है। यदि जीव सानिध्य प्राप्त कर उपर्युक्त क्रिया नहीं करता, उनके लिये द्रव्यानुयोग ढंके की चोट उद्घोषणा करता है कि शुभ पराश्रयों से भी मोक्ष का हेतु सिद्ध नहीं होगा, अपितु इनके सानिध्य में स्वाश्रित होने का अभ्यास कर स्वात्मस्थित होने का प्रयत्न अनिवार्य है। अंततोगत्वा समस्त आश्रयों का परित्याग कर संपूर्णतः स्वावलम्बी बन कर ही भवसागर पार किया जा सकता है।

अपने से एकाकार होने का प्रयत्न ही ग्राह्य है। शेष भटकन है। आत्मा की शरमोत्कृष्टा वीतराग हो जाने में है। परन्तु जब तक प्राणी अपने अभीष्ट को उपलब्ध नहीं होता; तब तक पुण्य फल में अभिरुचि न कर उसे पुण्य क्रिया शीघ्रि की भांति उपादेय होती है मोक्ष का हेतु न होने से ज्ञानी फल की अभिलाषा नहीं करता। अन्य द्रव के आधार से 'स्व' में निखार कैसे आ सकेगा? भावों का विकार शुद्ध भावों से ही नष्ट होता है।

सत्त्वाभ्यास आवश्यक अंग

अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त्व प्रकट करने के लिये ज्ञानपूर्वक वस्तु स्वात्म्य की महिमा को आत्मसात् करना पड़ेगा। नेद ज्ञान जामृत होते ही आत्म-

वर्तन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व के सोपान पर चढ़कर स्वाभावतः पूर्ववर्ण में सक्रियता आ जाती है। सम्यग्दृष्टि आत्मार्थे कालांतर में विविक्त ही सम्यक् चरित्र को अपना समस्त कर्मों की निर्जरा कर पूर्ण बंधनों से मुक्त होंगी। बुद्धिमुक्त ही जीवन्मुक्त हो देहमुक्त होकर है। अन्य नहीं। व्रतरूप शारीरिक क्रिया ब्रह्म में होती है, किन्तु व्रतरूप भाव आत्मा में ही होते हैं, जो आत्मा को निःश्रेयस पथ पर पहुँचाते हैं। भवज्ञान के उदयाचल पर सम्यक्त्व का सुख उद्भूत होता है। अस्तु तत्त्व अभ्यास कर बार बार मनन चिंतन करना अनिवार्य है; ताकि सम्यक्त्व के अयुक्त निर्मलता आ सके।

सम्यग्दर्शन की ऐसी अपूर्व महिमा है कि उसके साथ ही रत्नत्रय की आंशिक उपलब्धि हो जाती है। जिसने आत्मा में प्रविष्ट हो उसका आनन्द लिया है, निज स्वभाव का आस्वादन किया है, अपने में झाँककर आत्मा के अलौकिक वैभव को देख लिया है, वही चरित्रविष्ठ हो सम्यक् चरित्र की संज्ञा को सार्थक करता है। अतएव हृदय संसारियों को इच्छाओं पर नियंत्रण कर स्वभाव प्राप्ति की सतत चेष्टा करणीय है। भौतिकता से ऊपर उठकर हम आत्ममूल्यांकन करना सीखें, जिससे निःश्रेयसपद सुलभ हो सके।


हे जीव !

जो तेरे को शरीर रहित बनना हो,
कर्म का ध्वंस करना हो,
और विकारभावों का अभाव करना हो,
तो—

शरीर रहित ऐसा अशरीरी
कर्म से रहित ऐसा अबंध
और विकार रहित ज्ञान स्वभावी

ऐसे तेरे आत्मा को शुद्धनय की दृष्टि से तू देख। इस स्वभाव को अनुभव में लाने से तेरे भाव कर्म दूर हो जायेंगे, द्रव्य कर्म पृथक् हो जायेंगे और कर्म रहित ऐसे सिद्ध पद की तुझे प्राप्ति होगी।


श्री कानजी स्वामी चित्रों में :




आध्यात्मिक लक्ष्यों का आत्मिक आनन्द लेते हुए प्रथम गुरुदेव



प्रवचन करते हुये आत्म-विमोह !



बीतराम बाएरी के प्रमुख प्रबन्धता—पण्डित बाबू जाई जहेता, फतेपुर मोटा (गुजरात)




‘उमराला’ में जहाँ पर श्री कानजी स्वामी का जन्म हुआ था, उस स्थान पर यह स्मृतिक स्थापित किया गया है ।





दुप्रसिद्ध उद्योगपति साहू भी अंधांत प्रसाद जी गुरुदेव से विचार-विमर्श करते हुये ।



श्री कानजी स्वामी जी की हीरक जयन्ती (मई १९६४, बम्बई) का चित्र। बीच पर हैं—
श्री सात बहापुर शास्त्री, श्री यू० एन० डेबर, श्री मिथी सात जी बंगबाल आदि।



बम्बई में हीरक जयन्ती महोत्सव पर बुद्धदेव को अभिषेकन क्रम में डालते हुए श्री सात बहापुर सास्त्री।



सर सेठ श्री राजकुमार सिंह काश्मीरवाल हीरक जयन्ती में श्री कानजी स्वामी को भव्दोर्णलि प्रथित करते हुये ।



उपाध्याय श्री मुनि विद्यानाथ जी के साथ कानजी स्वामी



शुद्ध गुह्येव की बर्जसमा दिवम्बर जैन महासभा के प्रमुख स्तम्भ सर सेठ ज्ञानचन्द लोनी अपनी विचार प्रवृत्त करते हुए।



अन्तर्गत वादकगण (भिरपुर) के पंच काटगाएक महोत्सव पर स्वामी जी मुनि जी नेचि सागर जी महाराज के साथ,



श्री कानजी स्वामी मुनि श्री आदि सागर तथा ज्ञ० श्री पूर्ण सागर जी के साथ
प्रोएगिरि तीर्थ क्षेत्र के पहाड़ पर ।




बम्बई में ८५वीं जन्म-जयन्ती के अवसर पर देठ कस्तूर चन्द
स्वामी जी के प्रति अपने उद्गार प्रगट करते हुए ।



शुद्धात्म स्वभाव में सीन.....कानजी स्वामी



सन् १९७३ में रावर (बम्बई) में पंचकल्याणक प्रतिष्ठोत्सव के समय पं० कृष्णराज जी प्रवचन करते हुए। साथ में पं० बंशीधर जी इन्दौर, पं० कर्माक्ष चन्द्र जी, पं० नागुलाल जी आदि बैठे हैं।



पं० जेजबन्ध माई लेठ, वं० हरि लाल जी स्वामी जी के साथ चर्चा करते हुए।
(प्रसंग—बम्बई—हीरक जयन्ती महोत्सव)




श्रीतराम पन्थ के राहियों को सम्बोधित करते हुए श्री कानजी स्वामी !



हम्मई में गुरुदेव के साथ सेठ श्री नवमीत भाई सी० जजेरी,
सेठ पुरस चन्द श्री गौबिका, पं० केमचन्द भाई सेठ आदि ।



सौराष्ट्र महोत्सव की २५वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में ग्राम इण्डिया विंगम्बर जगदाद
महोत्सव २५००वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी गुजरात की धोर से धर्म-धर्म-प्रवर्तन ।




श्री जीव बसंत शिक्षण-प्रसिद्धि-सिबिर के अवसर पर कोटा में १ जून, १९७५ को
 प्रुथ्य श्री कानजी स्वामी के बिसाल पुस्तक का दृश्य । स्वामी जी के साथ हैं—
 पं० हुकम चन्द जी, श्री मेचीचन्द जी पाटनी, श्री जम्नू कुमार जी बज ।





पूज्य गुरुदेव प्रवचन मण्डप में आते हुए । साथ में हैं—लाला भगत राम जी जीन,
 श्री रवि चन्द जी भग्नी मुमुक्षु मण्डल विल्ली, धीपाल जी जीन एवं अन्य ।
 (विल्ली, १९७३)




श्री धीन-वर्धन-प्रशिक्षण शिविर समारोह के समापन पर स्वागत मन्त्री श्री 'बुनल' श्री पद्मगद् होकर समापन भाषण कर रहे हैं।




श्री पं० डीवरमल स्मारक युवा, जयपुर के उद्घाटन के मंगल अवसर पर श्री विशाल राव बाबत में स्वामी श्री कर सेठ बागचन्द सोनी अजमेर वालों के - ७ में।



दिल्ली जल सलाह द्वारा कालजी स्वामी के मठ्य स्वागत का एक निर्दिष्ट पृथक । (दिल्ली, १९७३)




श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर, जहाँ कानजी स्वामी बिराजते हैं । (सोनगड़)



परिवेक्ष्य में—श्री सीमंहर स्वामी दिगम्बर जैन मन्दिर, सोनगड़
दुर्ग द्वारा संगमरमर से निर्मित बागस्तम्भ (ऊँचाई ६३ फुट)



सोनगढ़ का श्री महावीर कुम्ह कुम्ह विष्णु-जीन परमाणु मन्दिर ।




रौल मन्दिर में विराजित जगवान् महावीर की मध्य प्रतिमा ।

परमात्म मन्दिर में विराजमान :



शतवाद् कुम्ह कुम्हाचार्य देव




आचार्यवर श्री प्रभुतचन्द्राचार्य देव



मुनिवर वसुप्रभुनन्दारि देव

दिल्ली का प्रसिद्ध
दिलाम्बर मीन मन्दिर
(आराम मन्दिर)
इस मन्दिर का
निर्माण
मुघल सुल्तान के
काद-कमलों द्वारा
संभव हुआ था ।






श्री सोमेश्वर स्वामी दिगम्बर जैन सन्धि सोनगढ़ में विराजमान
सोमेश्वर स्वामी की मध्य प्रतिमा ।



श्री दूधमल सगर ट्रस्ट भवन, जबपुर

‘चिन्हों’के माध्यम स्वभाव जातना का अनुभव कर हमें ज्ञान मार्ग पर चलने की सफल शिक्षा मिले, ऐसी परम कीदरत ज्ञानों के उपदेवता पूज्य श्री कावची स्वामी के कार्यों में विभिन्न माध्यम से अज्ञाननिवृत्ति प्रकृत करते हुए संभव कायना करते हैं कि उनकी पावन कृपा से हमारे समान भूले-भटके प्राणियों की सम्मार्ग का वर्णन कराने में समर्थ हों।

पूज्य गुरुदेव चिरायु हों !



द अमलगमेटेड इलैक्ट्रिसिटी कं० लि०

४० से भी अधिक वर्षों से राष्ट्र की सेवा में रत

अजमेर ★ दाहोद ★ जलगांव ★ भुसावल ★ मालेगांव
पालीसगांव ★ बलसाड़ ★ भीवंडी ★ बेसगांव

मैनेजिंग एजेंट्स :

एन. सी. जवेरी एन्ड कम्पनी

17 बी, हार्निमन सर्कल, फोर्ट, बम्बई-400001

दूरभाष : 255288-89

प्राप्त : अमलविजली

With Best Compliments of :

Shop : CHETAKCHAP

Telephone : 318585

FANCY UMBRELLAS...

SEMI-PAGODA UMBRELLAS

FOLDING UMBRELLAS

VINYL-PARASOL UMBRELLAS

MANUFACTURED FROM IMPORTED MATERIALS

FINISH EQUAL TO IMPORTED

JAYANT UMBRELLA MANUFACTURING COMPANY

• MAKERS OF QUALITY UMBRELLAS •

395-97, KALBADEVI ROAD, OPP. KHADI BHANDAR BOMBAY-2

JAYANT UMBRELLA MFG. CO.

395/397, KALBADEVI ROAD, RUIA BUILDING, BOMBAY-2

आप्यात्म - प्रवक्ता पूज्य श्री कानजी स्वामी जी की
८७ वीं जन्म-जयन्ती के शुभ अवसर पर
हमारी मंगल कामनाओं को जिये।



शुभ कामनाओं सहित

लुहाड़िया ब्रादर्स

प्रसिद्ध मिलों के कपड़ों के थोक बिक्रेता
पुरोहित जी का नया कटला, जयपुर-३ (राज०)

दूरभाष : कार्यालय : 72839

निवास : 73946

अन्य सहयोगी प्रतिष्ठान :

लुहाड़िया टेक्सटाइल,

बाम्बे डाइंग मिल के कपड़ों का रिटेल शो रूम

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-3

दूरभाष : 75869

लुहाड़ियाज एम्पोरियम,

जियाजी राव काटन मिल लि० के कपड़ों का रिटेल शो रूम

136, बापू बाजार, जयपुर-3

लुहाड़ियाज,

सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर-3

कहाल-गुडवेव विशेषांक

पावन, सुहावन मोता आई,

महावीर ज्यों, बढ़े, बरवान बढ़े ।

पूँज उक्त एक ही नारा बहुत दिख,

जन्मान्नाओं उठो ! 'जागो और जगानो' ॥



आज उन्हीं के शासन अनुगामी ।

सद्गुरुदेव जी काहन स्वामी ।

बरसा रहे उन्हीं के आत्म सुमन,

हर जन पर जन जन पर ॥

हमारी मनोकामना है !

तीर्थंकर महावीर की नीतराम वाली पूज्य गुरुदेव जी के भी मुस
से मुबारक होकर हम सभी का कल्याण करती रहे !!

पूनम चन्द जैन

माणक चन्द जैन

★

मोती चन्द जैन

प्रकाश चन्द जैन

★

प्रकाश मेटल कम्पनी

एवम्,

विनय मेटल ट्रेडर्स

दूरभाष :	अजमेर	दिल्ली	जोधपुर	इन्दौर
कार्यालय :	377	514214	23029	34331
निवास स्थान :	740	70863	21764	35643

आयम पप, मई १९७६

परम उपकारी सन्त, पूज्य गुरुदेव

श्री कानजी स्वामी जी

को

हमारा

शतः शतः प्रणाम !



श्रद्धा भर्पणा :

महावीर प्रसाद श्री राम बैन

भारत टिम्बर ट्रेडिंग क०

2800, सदर टिम्बर मार्केट,

दिल्ली-6

दूरभाष : 514734

26, डिप्टीगंज,

सदर बाजार, दिल्ली-6

दूरभाष : 514648

कहान-गुरुदेव विशेषांक



सुम

कामनाओं

सहित



जैना टाइम इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड
दिल्ली-६

जैना वाच कम्पनी

सदर बाजार, दिल्ली-६

जयको अलार्म, टाइमपीस, क्लॉक्स के प्रस्तुतकारक

दूरभाष : 271483

तार : जैनाटाइम



नायम-पय, आई १६७६



**With
Best
Compliments
of**



GLOBE AUTO INDUSTRIES

FACTORY :

**B-85/86, MAYAPURI
INDUSTRIAL AREA,
RING ROAD, NEW DELHI-27.**

OFFICE :

**63-64, GOKHLE MARKET,
DELHI-6.**



MANUFACTURERS OF :

AUTOMOBILE PARTS

PHONES :

Factory :

58 57 84

58 57 85

58 40 45

Resi. : 565374

Off. : 224647



कहान-गुरुदेव विशेषांक



पूज्य कान्धी स्वामी जी
वीर्यायु हों !

साध्यात्मिक सन्त

श्री कान्धी स्वामी जी की 87 वीं जन्म जयन्ती पर
हमारी मंगल कामनाओं स्वीकार करें ।



अद्धावन्त :

सेठ मंगल जी छोटे लाल

बैंकर्स, ग्रैन, सीट्स, किराना मर्चेण्डिस एण्ड कमीशन एजेंट्स
रामपुरा बाजार, कोटा-६ (राज०)

ग्राम : प्रकाश

MCK

दूरभाष : कार्यालय 19, 245

निवास : 819

नई ग्रैन मण्डी : 2145



मागम पप, नई १९७६

साश्वत सुख के मार्ग दर्शक, धर्म के यथार्थ स्वरूप के
दिग्दर्शक, परम पूज्य सत्पुरुष, माध्यात्मिक क्रांतिकारी
सन्त कानजी स्वामी जी के श्री चरणों में शतः शतः नमन ।



नत मस्तक

नन्द राम सूरज मल

कागज के थोक विक्रेता एवं स्टेशनरी निर्माता

वितरक :

वेस्ट कास्ट पेपर मिल्स लि०

★

१०१७, चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६

दूरभाष :

262608

277620

कहान-गुरुदेव विज्ञेयांक

तीर्थंकर महावीर की निर्वास रजत-सती

के उपलक्ष में प्रकाशित


पूज्य श्री कानजी स्वामी विशेषांक

सफल हो !



हमारी कामना है कि स्वामी जी चिरायु हों एवं युगों तक

हमें सत्य का प्रदर्शन कराते रहें !!



विनोद कुमार जैन

मनो विनोद पब्लिशर्स

जयपुर (राज०)

मनोरंजन पब्लिशर्स

महारानी रोड,
इन्दौर (म० प्र०)

आगम पत्र, मई १९७६

तेरी आत्मा के आश्रय से ही तेरा मोक्ष मार्ग है, तू अकेला
अकेला ही अपने से मोक्ष मार्ग की साधना कर सकता है ।


—श्री कानजी स्वामी



जिन्होंने शाश्वत सुख का मर्म बताया है ऐसे महापुरुष को
हमारा शतः शतः नमन ।



श्रद्धा के पुष्पों में एक पुष्प हमारा भी स्वीकार करें ।



रतन लाल श्री पाल जौन

सुरत, भागलपुर, मद्रास, अमृतसर, बंसलौर के कपड़ों के

थोक विक्रेता

५६८, कटरा अशफ़ी, चांदनी चौक,

दिल्ली-११०००६

दूरभाष :

दुकान : 262632

निवास : 270448

कल्याण-गुरुदेव विशेषांक

With best compliments

from



Swastik Rubber Co.

Manufacturers of :

P. V. C. COMPOUNDS & RUBBER GOODS

Representative & Wholesale Dealers in :

RUBBER & PLASTIC GOODS, RAW RUBBERS, CHEMICALS
& COLOURS ETC.



GOVERNMENT CONTRACTORS & GENERAL SUPPLIERS



**A-4, REHMAN MARKET, SADAR BAZAR,
DELHI-110006.**

TELEPHONE : 515615

जागम पत्र, अई. १६७६.



*The Symbol of quality Printing Inks introduced
by all those once in
GANGES*



TAAS PRINTING INKS PVT. LTD.

Head Office & Factory :
40, BAGHA JATIN ROAD
(B. T. ROAD & TOBIN ROAD JUNCTION)
CALCUTTA - 700036. (INDIA)

Telephone : 56-4173

Grams : TAAEINKS, CAL-7C0036



Delhi Office :
2,30, DARYAGANJ, DELHI-110006.

Telegrams : CLASSINKS,
DELHI-110006

Tele : 272009



Delhi lacson :
SIRI NAGAR, DELHI-52.

कहाल-गुरदेव विद्येवाक

“आत्मा है वह भगवान है । भले ही उसे अपने स्वरूप की छबर नहीं है, तथापि उसका भगवान पता मिल नहीं गया है । अपने को भगवान स्वरूप जाने वह भगवान होता है ।”

●

भगवान आत्मा.....हा हा.....जब गुणदेव के मुखारविंद से अरुण बिभोर हो शब्द निकलता है, सब सच्चे अज्ञानानुसुख की अनुभूति होती है ।

●

हम पर स्वामी जी का बहुत उपकार है । आपने सच्चे वीतराग धर्म का उपदेश देकर धर्म को सही समझने की दृष्टि प्रदान की है ।

हम अपने हार्दिक भ्रष्टासुम्न अर्पण करते हैं !

●

हिन्दू ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

गली बरना, बारा टूटी, सबर बाजार,

दिल्ली-६

दूरभाष : कार्यालय : 511004

निवास : 78713

भागम पय, मई १९७६

प्राध्यात्मिक सत्पुरुष, बास ब्रह्मचारी, परम पूज्य, सद्गुरुदेव,
परम कृपालु श्री कामजी स्वामी जी .



की 87 वीं जन्म जयन्ती पर
हमारी हासिक मंगल कामनायें स्वीकार करें ।

हे गुरुदेव ! प्राय दीर्घायु हों और हमें सदा धर्म उपदेश देते हुए
बीतराग मार्ग पर चलायें ।

भावना है

श्री गुरुदेव के मुबारकबिंदु से युगों युगों तक बीतरागी वाणी बिरती रहे

★

शुभ कामनाओं सहित

रथ ब्रान्ड कौन्डल रण्ड हौजरी वर्क्स

आफिस :
4361/1, गली बंहुजी,
पहाड़ी बीरज, दिल्ली-6
दूरभाष : 514078

फैक्ट्री :
ए ब्लॉक, 8/3, बजीरपुर
इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-52
दूरभाष : 225751

दूरभाष : निवास : 514513

कहानि-गुरुदेव विशेषांक



Compliments of :

PAPER CONSUMERS' SERVICES

113, DARYA GANJ, DELHI-110006.

Concessories to the Distributors of :

- BALLARPUR PAPER MILLS
- SHRI GOPAL PAPER MILLS
- J K PAPER MILLS
- MURARI PAPER MILLS
- HARYANA COATERS,



With best compliments from :



Mahaveer Roadways

BANGALORE (KARNATAK)



आवम पय, नई १९७६



“परम अद्वैत पुरुष कामधी स्वामी जी का हम पर महान उपकार है, जिन्होंने जबकि सर्व साधारण की धर्म की ओर से रुचि हटती जा रही थी, ऐसे समय में महान आध्यात्मिक बुद्धिकोण देकर महान धर्मों के मगन की ओर सर्व साधारण को आकर्षक किया है।”

हमारी मंगल भावना है कि पुरुष स्वामी हमारे बीच बिरकाल तक विद्यमान रहे और जग्य जीवों का नित्य सच्चे आत्मदर्शन का स्वरूप समझाकर मोक्ष मार्ग पर सजाये।



अश्वनि कुमार छोटालाल महैता

तथा

छोटालाल भीखालाल महैता

मीरि स्ट्रीट, बम्बई-३



कहान-बुद्धि विवेक

पूज्य स्वामी जी बीघायुं हों ।



शुभ कामनाओं सहित

देसाई ट्रेडिंग कम्पनी

189, अण्णुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई-400003

भगवान महावीर का 2500 वें निर्वाण महोत्सव के सुअवर पर जिसने
यथार्थ रूप से भव्य जीवों को भगवान महावीर का तथा निर्वाण
महोत्सव का स्वरूप समझाया; जिसको समझ कर जीव
अपनी आत्मा का स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ।

ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के चरणों
में अत्यन्त भक्ति पूर्वक हम सब
बन्दन करते हैं ।

—हीरालाल भीखालाल शाह तथा कुटुम्बीजन

—दिनेशचन्द्र अम्बालाल शाह तथा कुटुम्बीजन

पूर्णिमा नावल्टी हाउस

फेन्सी जूडिग्री तथा इमिटेशन ज्वेलरी मर्चेन्ट्स

71, डा० आत्माराम मर्चेन्ट रोड, मूलेस्वर,
बम्बई-400002

सावय पत्र, अई ११७९



पूज्य गुरुदेव

सत्युष

कानजी स्वामी जी

को

हमारी विनम्र

श्रद्धांजलि !




बल्लु भाई चुनी लाल शाह

'वसंत' पेठर रोड,

बम्बई-२६



कहान-गुरुदेव विशेषांक



गुरुदेव कहते हैं—

अहिंसा और क्षमा की शक्ति प्रचार है, हिंसा और क्रोध की शक्ति
अल्प है। क्षमा का जीवन शाश्वत है, क्रोध का जीवन क्षणिक है।

आइये ! गुरुदेव कानकी स्वामी जी के विचारों पर के
राही बनें ।

अनुवादित :

माणिक लाल राम चंद गांधी



विजय मेटल कारपोरेशन

स्टेनलंस स्टील के बर्तनों के निर्माता एवं विक्रेता

दूरभाष : 334260

38-सी, सर्वोदय नगर,

पजरा पोस्ट रोड,

बम्बई-4



कहान-गुरुदेव विशेषांक

पूज्य गुरुदेव दीर्घायु हों !

★ अदाअर्पण ★

भरत कुमार इलेक्ट्रिक कम्पनी

एवम्

पूना इलेक्ट्रिक रंड रेडियो स्टोर्स

बिजली के सामान के सीधे आयातक

दूरभाष : 315809

65, लोहार बाल,

बम्बई-400002

पूज्य गुरुदेव की 87 वीं जन्म-जयन्ती पर

हमारी हार्दिक शुभकामनायें !

दली चन्द जुग राज जौन

गवर्नमेंट एण्ड रेलवे कान्ट्रैक्टर एवम् जनरल सप्लायर्स

कार्यालय :

195/197, जवेरी बाजार, बम्बई-2

ग्राम :

KATRFULA

दूरभाष :

कार्यालय { 323797
 { 327981

निवास : 369579

आगम पथ, मई १९७६



With best compliments from :



NYMPH LABORATORIES

164, TULSI PIPE ROAD, LOWER PAREL
BOMBAY-13



Manufacturers of :

- ANTIBIOTIC OINMENTS
- VITAMIN TABLETS
- SULPHA TABLETS
- HARMONE TABLETS
- COMMON TABLETS
- NYMPHAPLES SYRUP (Vitamin B Complex)
- COFJIT (Cough Syrup)
- NYMPH GRIPE (Gripe Water)



कहान-गुरुदेव विशेषांक



Gram : NECTILES

Phone { Office : 251007
{ Factory : 77160

With
Best Compliments
from

National Tiles & Industries (Pvt.) Ltd.

Manufacturers of :

**MARBLE, MOGAIE, TERRAZO, PLANE & NOWSLIPPERY
CEMENT TILES**



POPAT LAL MOHAN LAL VORA

Office :

**31, HAMAM STREET,
DENA BANK HOUSE,
BOMBAY-1.**

Factory :

**A-44, AMBE WADI,
PAREL TANK ROAD,
BOMBAY-33.**



ब्राह्मण पत्र, मई १९७६



कमनाजी स्वामी चिरायु हों

पेरेमाईट ट्रेडिंग कम्पनी

१७ ए. महाकाली बाल, पायबानी, बम्बई-४००००३

★

अधिकृत विक्रेता एवं वितरक ।

कमानी मेटल्स एण्ड एलायस् लि०

कमानी ट्यूब्स प्रा० लि०

हिन्दुस्तान कापर लि०

दूरभाष : { 320520
327723

SHERODPIPE



शुभ कामनाओं सहित

•

सर्वोत्तम ट्रेडिंग कम्पनी

स्टोव, लैंटरनस् ब्लोलैम्पस् एवं मॅन्टलस् के निर्माता

ॐ

कार्यालय :

G/65, सबौदय नगर,

212, पंजरा बोल रोड,

बम्बई-4



कहान-गुरवेव विशेषांक



मगवान कुन्द कुन्दाचार्य की वाणी के समर्थ उद्घोषक,
प्राध्यात्मिक सत्पुरुष, पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी
जी को शतशः प्रणाम !



शुभाकाशी

अनिल ट्रेडर्स



डोल्बर्स एरंड एक्सपोर्टर्स इन फ़ाण्टीकल गुड्स

प्रोप्राइटरस्—कान्ती लाल मोटाणी



दूरभाष { 317626
 { 319147

ग्राम : - KUNDKAHAN

कार्यालय 1, आनन्द भवन
प्रिन्सेस स्ट्रीट,
बम्बई 400002,



आगम पत्र, मई १९७६

‘ज्ञान जनसंसार का कारख है.

ज्ञान जनसंसार का निवारण है ।’

सुभ कामनाओं सहित

मूल चन्द कस्तूर चन्द तलाठी

११६, मल्कती गृह, बम्बई-२

फोन न० : 23613

प्रोप्राइटर्स :

द कान्टीनेन्टल ड्रग स्टोर्स

११५, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई-२

औषधियों के विक्रेता

With Best Compliments of:

Gram : "SIMANPHAR"

Tele No. 39814

R. SHANGHAVI & COMPANY

45, MANGALDAS ROAD, SHREEJI BHUVAN,
BOMBAY-2

Manufacturers, Agents, Importers & wholesalers in:
Domestic Appliances, Electric Fans, Flower Seen Pictures,
Tubes & Accessories, Lamps, Conduit Pipes, Wires,
All Kinds of Pressure Cookers, Torch Batteries, Petromax Lanterns
Stove & Tharmos Flask.

Prop : CHAMPAK LAL R. SHANGHVI

कहान-गुरुदेव विशेषांक



शुभ कारनामों सहित



रमन लाल तलक चन्द राउड क०

'LA' ब्रांड हिन्देलियम, कास, कापर एवं स्टेनलेस स्टील
बर्तनों एवं चम्मचों के विक्रेता

इन देहला, 26-ए, मुम्बावेची पोस्ट आफिस के पीछे,
बम्बई-400002
दूरभाष : 324969

★

महावीर मेटल इन्डस्ट्रीज

चम्मचों के विशेषज्ञ

६७-ए, सबौदय नगर, पंजरा पोल रोड,
बम्बई-४
दूरभाष : 334312

★

वसंत लाल बाबू लाल राउड क०

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के निर्माता एवं विक्रेता
85-जी, सबौदय नगर, पंजरा पोल रोड,
बम्बई-400004



मांगम नव, मई १९७६

राम-दूष की उत्पत्ति नहीं होना चाहि़ता है और राम-दूष की उत्पत्ति होना हि़सा है यही जिनागम का सार है ।

—अमृतचन्द्राचार्य देव



भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी

के उपलक्ष में प्रकाशित

'कहान-सुलदेव' विशेषांक सफल हो !



सुभाषाणी :

धन्नामस जैन

अग्रवाल मैटल वर्क्स (प्रा०) लि०

अग्रवाल रोड, रिवाड़ी, (हरियाणा)

दूरभाष : 213

कहान-सुलदेव विशेषांक

With Best Compliments of :



Mahaveer Hat Mfg. Co.

**PAN MANDI, SADAR BAZAR,
DELHI - 110006.**



**Tele. :
5 1 4 8 1 5**

आवक.सं. सं. १२०६

आत्म धर्म के राही, आपको हमारा
शत शत वन्दन !

★

हमारा मनोदय है कि आप श्री का अपूर्व प्रभावना योग
द्विध काल तक समस्त विश्व को उपलब्ध होता रहे ।

★

परशुरामराजी :
पद्म चन्द्र जैन सराफ

निर्देशक :

सी. एफ. बुलियन रिफायनरी प्रा० लि०

फ्लैट नं० 7, चौथा माला,
सुपर गैस बिल्डिंग्स, एल. वी. रोड,
(अप्रवास इन्डस्ट्रियल इस्टेट के समीप)
बहीसार, बम्बई-68

★

225, बाम्बे टाकीज कम्पाउण्ड, मलाड़ (पूर्व)
बम्बई-400 064.

दूरभाष : 691124 (पी. पी.)

ग्राम : नमो अरंहत

क्याम-मुद्रण विभागांक

भाष्यात्मिक सन्त श्री कानजी स्वामी

को ६० वीं जन्म-जयन्ती पर

हमारी मंगल कामनायें स्वीकारें !



जैन सैन्थेटिक्स एजेंसोज

सोल सेलिंग एजेंट्स :

जे० के० सैन्थेटिक्स लिमिटेड

3808, पहाड़ी चीरज, दिल्ली-110006.

शाखायें :


लुधियाना, बम्बई

तार : 'ज्ञानजी'

दूरभाष : { 514451 (कार्यालय)
513227 (निवास्त)

आवम पत्र, नई १९७६

‘वीतराग वासी के समर्थ उद्घोषक, प्रख्यात क्रांतिकारी
साध्यात्मिक सन्त, परम पूज्य भद्रेय सद्गुरुदेव श्री कानजी का-हम
हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हम हार्दिक श्रद्धासुमन पूज्य स्वामी जी
के शीघ्रता में अर्पित करते हुए कामना करते हैं कि सद्गुरुदेव
दीर्घायु बन कर भगवान महावीर के पवित्र शासन की चमत्कारिक
प्रभावना करते रहें।’



वित्त :—

हीरा लाल पाटोदी

मानक चन्द पाटोदी

★

कर्म :

बछराज हजारी मल पाटोदी

लोहारवा (इन्दौर) म० प्र०

आत्मा का बोध

नहीं हो सकता :

1. स्पर्शन इन्द्रिय से..... क्योंकि आत्मा में स्पर्श नहीं है ।
2. रसना इन्द्रिय से..... क्योंकि आत्मा में रस नहीं है ।
3. नासिका इन्द्रिय से..... क्योंकि आत्मा में गंध नहीं है ।
4. चक्षु इन्द्रिय से..... क्योंकि आत्मा का रूप नहीं है ।
5. शब्द से..... क्योंकि आत्मा शब्द रहित है ।
6. आकृति से..... क्योंकि आत्मा आकार रहित है ।

आत्मा अस्पर्श है, अरस है, अगंध है, अरूप है, अशब्द है, आकारहीन है । केवल चेतना में उसका अनुभव किया जा सकता है क्योंकि आत्मा चेतना स्वरूप है ।

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी (राजस्थान) द्वारा प्रसारित ।

परम कृपालु गुरुदेव की हम पर सदा से अपार कृपा रही है । उन्होंने हमें संसार से पार होने का उपाय बता कर हमारा महान उपकार किया है । इस हेतु हमारा उनके चरणों में शत-शत वन्दन । . . .

★

गोकल चन्द पहाड़या
चुन्नी लाल पहाड़या
छगन लाल पहाड़या

कर्म : रिखव चन्द गोकल चन्द

लोहारवा (इन्दौर) म. प्र.

जागम पत्र, मई १९७६

बीतराम बाणी के समर्थ उद्घोषक
परम पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी
के घरों में
हमारी विनम्र श्रद्धांजलि !

●

चिरयुग तक हमें गुरुदेव की चार्ली का समृत-पान
मिळता रहें ।

●

शुभ कामनाओं सहित

राम स्वरूप प्रवीण कुमार जैन

(कपड़े के थोक व्यापारी)

कटरा लाल, चान्दनी चौक,

दिल्ली-६

दूरभाष : 266612

कार्यालय : 3130, बहादुरगढ़ रोड दिल्ली-6.

कहाम-गुरुदेव विधेवाक

प्राप्य गुरुदेव
सत्पुरुष, आध्यात्मिक संत
श्री कान्छी स्वामी जी
के चरणों में
हमारी विनम्र
आभिनन्दनांजलि !

चुन्नी लाल फतेह चन्द जैन एण्ड को०
सिलवर बुलियन रिफायनर
किनारी बाजार, आगरा (उ० प्र०)

Gram :
NAMOARHANT

दूरभाष आगरा { 75881 (दुकान)
64131 (घर)

५४, बड़ा सराफा, इन्दौर-२ (म. प्र.)

दूरभाष : 31407 (दुकान)

लागव पत्र, नई १९०६

सुम कामचारों सहित



BUILDERS & HARDWARES

राजेन्द्र मेटल वर्क्स

२०, हरी नगर, अलीगढ़ (उ०प्र०)

RAJEN

दूरभाष :

निवास : 1378

कार्यालय : 487

हमारा जीवन

आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो

ऐसी मांगलिक कामना के साथ.....



जयपुर प्रिण्टर्स

मिर्जा इस्मायल रोड,

जयपुर-३०२००१

दूरभाष : 73822

कहान-गुरुदेव विशेषांक

राज बैंक की नई
अराबली जमा योजना

(पुनर्बिनियोजन प्लान)

जहाँ आपकी बचत पर 17.2% प्रति वर्ष
ब्याज प्राप्त करें।

₹ 10,000 की जमा रकम 84 माह में बढ़ कर
₹ 20,085 तथा 1.0 माह में ₹ 27,015
हो जाती है।

दी बैंक आफ राजस्थान लि०

पं० कार्यालय
उदयपुर

केन्द्रीय कार्यालय
जयपुर

सहायता सुखद जीवन की कुंजी है।

पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी
चिरायु हों !



गौरी लाल जैन एराउ कम्पनी

नमक के व्यापारी, कमीशन एजेंट

सती बाजार, भावनगर-364001 (गुजरात)

तार : 'चिरंजी'
टेलीफोन : 073-218

दूरभाष : { कार्यालय : 3872, 5853
निवास : 3959

आगम पथ, मई १९७६

“तीर्थंकर महावीर एवं वीतराग वारणी के समर्थ उद्बोधक,
महान् धर्म प्रचारक, आध्यात्म वेत्ता, तत्त्व चिंतक, मंगल हान मूर्ति,
परम पूज्य गुरुदेव भद्रदेव कान्तजी स्वामी जी को हमारा शव शव
अभिनन्दन !.....”



शुभ कालनामों सहित

भगवान् दास शोभा लाल जैन

बीड़ी निर्माता एवं बीड़ी पत्त के व्यापारी

चमेली चौक, सागर (म. प्र.)

बालक बीड़ी के प्रस्तुतकारक

तार :
बासक

दूरभाष :

कार्यालय : 349, 320

निवास : 311, 387, 349, 319 Extn.

बंगला : 389, गैरज : 301

राजाखेड़ी-गोदान : 295

कहान-गुरुदेव विशेषांक

शुभ कामनाओं सहित

भोला राम रंगू लाल जैन

सदर बाजार, दिल्ली-६

दूरभाष : 513859

●

वितरक :

अमरावती श्री बेन्केटिसा पेपर मिल्स लि०
शालीमार इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०
हिन्दुस्तान वायर प्रोडक्ट्स क०
चैल पार्क क० लि०
नेशनल वायर फैक्टरी
हनसम इन्डस्ट्रीयल कम्पनी
बी० आर० जे० इन्डस्ट्रीज
मंसूर एसिटेड एण्ड केमिकल्स क० लि०

सार : { दिल्ली—'कृष्णा पैन'
 { बम्बई— ,,

शाखायें—

दिल्ली :

4032, चरखेवालान, चावड़ी बाजार,
दिल्ली-6

दूरभाष : 261171

●
सदर बाना रोड, दिल्ली-6

●
बम्बई :

7, मिर्ची गली, बम्बई-2

दूरभाष : 324947

दूरभाष निवास { 517274
 { 512621

जागम पत्र, मई १९७६

वीतराग मार्ग के पथ-प्रदर्शक
भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य की वारसी के समर्थ उद्घोषक
पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी को
हमारी विनम्र विनयाञ्जलि



भार. एस. जैन राउड कम्पनी

सिले हुए वस्त्रों के निर्माता :
रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क—'जिनेन्ना'
टेलर्स एवं ड्रेपर्स
पुरुष वस्त्रों की सिलाई के विशेषज्ञ
(आधुनिक डिजायनों में कपड़ा भी मिलता है ।)
26, डिप्टी गंज, (महावीर नगर)
सबर बाजार, दिल्ली-110006
दूरभाष : 511052

कहान-गुरुदेव विशेषांक

**Know Well About the
Raw Materials
You use**

whether it be

- ★ CAUSTIC SODA
- ★ SODA ASH
- ★ CHLORO—SOLVENTS
- ★ LIQUID CHLORINE
- ★ SODA BICARB
- ★ CALCIUM CHLORIDE
- ★ UPGRADED ILIMENITE

PRODUCED BY US



*Our Technical Service Department will
help You Produce Quality Products*

Please write to :

Dhrangadhra Chemical Works Ltd.

'NIRMAL' 3rd Floor

241, Backbay Reclamation, Nariman Point,
BOMBAY—400 021.

Gram : 'SODACHEM'
Telex : 011—2362

Phones : 292407, 293294
293235, 293330

आगम पत्र, मई १९७६

Phone : 277032

Grams : "ALMIGHTY", New Delhi

With Best Compliments of :

RISHABH PERFUMES
FOR ALL PURPOSES



Selling Agents :

Amar Bharat (Pvt.) Ltd.

1152, Main Bazar Pahar Ganj,


NEW DELHI-110055.

Chairman :
SHRI CHAND JAIN

Managing Director :
SANTOSH KUMAR JAIN

कहान-गुरुदेव विशेषांक

With Best Compliments from :



M/s. Wal Chand Nagar Industries Ltd.

CONSTRUCTION HOUSE

Wal Chand Hira chand Marg,

Ballard Estate,

BOMBAY - 400038.

Factory : Walchand Nagar

Dist. — Pune.

आगम पथ, मई १९७६

With best compliments

from



P. S. Jain Co. Ltd.

**7-A, RAJPUR ROAD,
DELHI-110054.**

Authorised Dealers for :

**HARSHA T-25 TRACTORS & SPARE PARTS
FOR THE UNION TERRITORY OF DELHI**

Grams : 'PASJAN'

**Telephones [227410
223720**

Telex No. : 2781

Show Room : 1629, S. P. Mukherjee Marg,

DELHI-110006.

Telephone : 269485

क्रमानुसरेण विज्ञेयम्

With best compliments of



SOUTHERN TUBES

G. I. PIPES ● FITTINGS ● MOTOR PUMPS

OIL ENGINES ● HARDWARE

Branch :

78, Central Avenue Road.

Gandhi Bag,

NAGPUR - 18.

Phones : { Office : 22057
 { Resi. : 40457

H. O. :

7828 (5-5-8/4)

Rani Gunj

SECUNDERABAD-3 (A.P.)

Phones : { Office : 77744
 { Resi. : 77745
 75588



Sister Concern :

DOSHI TUBES

5-1-528/32, HILL STREET, SECUNDERABAD-3 (A.P.)

Phones :

Office : 77647

Resi. : 77745

आगत पत्र, मई १९७६

With
Best Compliments
from



Ravi Metal Mart

Manufacturers & Dealers in :

'RAVI' BRAND STAINLESS STEEL, COPPER, BRASS &
ALUMINIUM UTENSILS

3-2-103, GENERAL BAZAR,
SECUNDERABAD - 3 (A.P.)

Phones :

Office : 77552

Resl : 72653

महान-मुद्रणेन विज्ञेयम्

Compliments of :

★
|
|
|
★

Emco Industries

A Leading name in Pharmaceutical
raw materials, chemicals, etc.

●
4-2-306, Sultan Bazar,
(Opp. Royal Talkies)
HYDERABAD-500001 (A.P.)

Phones :

Offi. : 42709, 47306

Resi. : 47306 Extn.

With
Best
Compliments
of

★
|
|
|
★

VYAPAR SADAN

Distributors for :

SHRI GOPAL PAPER MILLS

●
63, Darya Gang, DELHI-110006.

★
Telephones : 289680
271380

सायन पत्र, नई १९७१

• जिन्होंने आत्मा का स्वरूप समझकर भवभ्रमरु
के दुःख से बचाया, ऐसे सत्पुरुष को हमारा सतः सतः
नमः !

•
थड़ा नः !

नेम चन्द मोती लाल जैन

निर्यातक, निर्याता एवं कमीशन एजेंट
२७६२, सबर टिम्बर मार्केट, दिल्ली-६

•
दिनेश एन्टरप्राइजेज

गवर्नमेन्ट मार्केट सप्लायर्स

•
आर. वी. मोटर्स

मोटर पार्ट्स डीपार

दूरधाम { काफिस : 514801
निवास : 220002



Please Contact :

Phone : 277209

N. M. PANDYA

1774, VISHNU BHAVAN
BHAGIRATH PALACE, DELHI-110006.

With best compliments of :



KRISHANA PLYWOOD CO.

Dealers in :

PLYWOOD, ALUMINIUM STRIPS, GLUE, RAXINE,
SUNMICA, HARD BOARD & TEAK PLY ETC.

1845, Basti Julshan. Idgah Road,
Sadar Bazar, DELHI-6.

माघ १५, नई १९७६

शुभ कामनाओं सहित



रेनबो स्टील्स लिमिटेड

नेरठ रोड, पोस्ट बाक्स न. ६०

मुजफ्फरनगर (उ. प्र.)

उत्तरी भारत में इस्पात का

सबसे बड़ा कारखाना-

दूरभाष : { कार्यालय : 756, 205
फैक्टरी : 1195, 341
निवास : 1296
(मैनेजिंग डाइरेक्टर)

तार
'रेनबोस्टील'

कहान-गुहदेव विशेषांक

॥ श्री बीतरामाय नमः ॥

पूरमाण : इकान : 197
निवाल : 257

तार : 'आवर्ण'

प्रातः स्मरणीय

परम पुण्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी
को हमारी विनम्र प्रद्वंभीति

शुभ कामनाओं सहित

दया चन्द राजेन्द्र कुमार जैन

इम्पोटसं एण्ड एक्सपोटसं

मिल आनर्स, बैंकर्स एण्ड पक्का आइती

जगराओं (पंजाब) N. R.

★

सम्बन्धित फर्म :

श्री महावीर आयल मिल्स

विशुद्ध तेलों एवं खली के निर्माता

जगराओ-142026 (पंजाब)

तार : 'महावीर'

★

निवेदन :

अनाज, तिलहन, रई की चालानी, एवं खली की बिकवाली के
लिये सेवा का अवसर दीजिये !

आपम पत्र, मई १९७६

‘सत्यलक्ष पूज्य श्री कानजी स्वामी चिरायु हों’

शुभ कामनाओं सहित

अशोक कुमार जैन

रविन्द्र कुमार जैन

अजीत प्लास्टिक वर्क्स

आर्डर सप्लायर्स एण्ड निर्माता

दूरभाष : 513659 (पी.पी.)

४११६, गली मन्दिर वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६

हमारे यहाँ आर्डर पर हर प्रकार का संतोषजनक कार्य किया जाता है।
जनता की सेवा में 30 वर्षों से अधिक कार्यरत, प्लास्टिक मोल्डिंग में दक्ष, कठिन
से कठिन कार्य में माहिर।

शीतराग वाली के समर्थ
उद्घोषक, मोक्ष मार्ग के
पथ प्रदर्शक, महान तत्त्व-
चिन्तक, परम पूज्य सद्-
गुरुदेव श्रद्धेय कानजी
स्वामी जी को हमारा
शतः शतः अभिनन्दन !

★

निवेदक :

हुकम चंद जैन
सरधना (उ. प्र.)

पक्कारंग चलने में टिकाऊ

सरधना

का हाथ का बुना कपड़ा

डिजाइनों में आकर्षक

मूल्य में सस्ता



आपकी छूंट का सर्वोत्तम कपड़ा

उत्पादक
श्रीवर्द्धमान स्वदेशी मैथ्यू पैक्टरी
सरधना (मेरठ)

कहान-गुरुदेव विद्योपांक

सन् 1868 "राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस" की स्थापना एक छोटी-सी रसायन शाला के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदीय औषधियों को पूर्ण शास्त्रोक्त विधि-विधान पूर्वक बनाकर जनता की सेवा करना था। वही रसायनशाला अपनी सच्ची सेवा से आज एक विशाल निर्माणशाला के रूप में कार्य कर रही है। राजवैद्य निर्माणशाला द्वारा निर्मित औषधियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रयोग की जाती हैं। भारतवर्ष के हजारों गांवों, कस्बों व शहरों में "राजवैद्य औषधियां" प्रयोग की जा रही है।

राजवैद्य निर्माणशाला में अनुभवी वैद्यों एवं कॅमिस्टों की देखरेख में रस भस्म, कूपी पक्व-रसायन, भासव-अरिष्ट, चूर्ण, तैल, घृत, गुग्गुलु, अवलेह-पाक, क्षार, सस्व, सवण, पपंटी, लौह-मण्डूर, वटी, बर्क, सवंत, आदि 2000 से अधिक आयुर्वेदीय एवं पेटेन्ट औषधियां पूर्ण शास्त्रीय विधि-विधानपूर्वक निर्मित होती हैं।

(सन् 1868 से सेवा में संलग्न)

राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस

प्रधान कार्यालय :

१३३१, चांदनी चौक, दिल्ली-६

दूरभाष : 263529

तार : 'अग्निज्वर'

तोर्धकर महावीर की निर्वाण रजत-शती

के उपलक्ष में प्रकाशित

गुरुदेव कानजी स्वामी विशेषांक

सफ़ल हो !

शुभ कामनाओं सहित

जयको हौजरी

85, माडल बस्ती, करौल बाग,

नई दिल्ली-110005.

दूरभाष : कार्यालय—567192

शाखा कार्यालय :

963, पुराना बाजार, लुधियाना (पंजाब)

दूरभाष : 23896

आंगण पक्व, मई १९७६

“न राग ही आत्मा का स्वभाव है और न द्वेष तथा मोह ही ।
ये सब आत्मा से विन्म जड़ पदार्थ हैं ।”



गुजरात के प्रख्यात आध्यात्मिक क्रान्तिकारी संत
पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी को
हमारी विनम्र आदरार्जलि



Be Hold
Masterly
Master

NEELAM

CYCLE AND RICKSHAW TYRES TUBES

अत्यधिक कार्य क्षमता के लिए नीलम टायर ट्यूब
ही प्रयोग करें ।

निर्माता :

नरेश उद्योग

दूरभाव :

कार्यालय : 25, 26, 52, 55

निवास : 212182

1. आर्य नगर इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
1. सोनी, जिला मेरठ (उ. प्र.)

१/कहान-गुरुदेव विज्ञेयांक

Compliments

of :

★

↓

↓

↓

★

**JAIN PROCESSORS &
ENGINEERS (P) LTD.**

Regd. Office :

**1374, Katra Lehswan, Mahalaxmi Market,
Chandni Chowk
DELHI - 110006.**

Telephones :

Office : 251829

Resi. : 271169

आगत पत्र, मई १९७९

With Best Compliments from :

BHARAT INDUSTRIAL WORKS

ENGINEERS & CONTRACTORS



Head Office :

61, Industrial Estate, BHILAI-I (M.P.)

Cables : 'FABRICATOR'

Phone : KHURSI PARA-58

Delhi Office :

**708, Akash Deep
26-A, Barakhamba Road,
New Delhi-1**

**Cables : BHILAIFAB
Phone : 44472**

**4-B, Little Russel Street,
Calcutta-16**

**Cables . BHILAIFAB
Phone : 44-4061**

बहान-गुरुदेव विज्ञानक

With best compliments from :

Nannu Mal Jain & Sons

JEWELLERS & MANUFACTURERS
1777, DARIBA KALAN, DELHI - 6
Phone : 276175

Branch :

1, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-6
Phone : 271288

For your Requirements in Gold & Diamond Jewellery
Latest variety in

- 22 ct. Gold Ornaments
- Kundan Sets
- Silver Wares
- Birthday Stones
- Lucky Stones
- Diamond Jewellery

ALSO UNDERTAKING
GOLD & DIAMOND REPAIRING

Best Compliments of :

JAI SHRI ENTERPRISES

G. I, C.I, S.W. Pipes & Pipe Fittings, Sanitary Goods
C.P. Bath Room Fittings, Hardware
Aluminium Fittings etc.



3339/3, Oali Peepal Mahadev,
HAUZ QUAZI DELHI-6.

Phones { H.O. : 269955
 { Resi. : 513115

आगत पत्र, मई १९७६

**With
Best
Compliments**

of
★



Nirmal Kumar Jain

AMERICAN RINGS CO.

10. NEW COLONY, MODEL BASTI,

NEW DELHI - 110005

Phone : 514048 (RESI.)



कहान-मुद्रदेव विज्ञेपांक

With Best Compliments of :

Rattan Lall Suraj Mull

RANCHI (Bihar)

**MERCHANTS, COMMISSION AGENTS
&
TRANSPORT OPERATORS**

Agents to :

Burmah-Shell O. S. & D. Co. of India Ltd.

Stockists :

**Motor Tares, Accessories, Spare Parts, Motot Spirit,
H. S. D. Oil, Motor Oil etc.**

Branches :

**Chaibasa, Noamundi, Banspani, Barajamda,
Barbil, Hatgamaria, Gua**

Grams : JAIN, RANCHI



Phones :

Ranchi : 21895 & 20878 [Off :] Residence : 23263

Chaibasa : 281, Barbil : 43, Banspani : 18

Barajamda : 41

आगम पथ, मई १९७६

With best compliments of :



ASHOK METAL INDUSTRIES LTD.

Manufacturers of :

A. M. I. BRAND

**Stainless Steel Wares for Domestic Use, Hospital Equipments
Chemical Tanks, Cutlery, Non-Ferrous Wares,
Stove Parts and Industrial Goods,
Importers & Exporters**



**157, Netaji Subhash Road (Room No. 161)
CALCUTTA-1**

Works :

**7, Janki Devi Jalan Road,
LILLOAH (HOWRAH)
Phone : 66-4477**

**Grams : ZINCLEAD
Phone : 33-4470**

**Code :
BENTLEYS 2nd PHRASE**

कहान-मुद्रदेव विश्वेर्षाक

**With Best
Compliments**

from :



Anant Ram Jain
General Manager



VRAJ LAL MANI LAL & CO.
SAUGOR • DELHI • AGRA • LUCKNOW

आवक पत्र, नई १२७६

**For All Types of PVC Insulated
Wires & Cables**

3
CONTACT

DELTON CABLE INDUSTRIES PVT. LTD.

ADDRESS :

**Delton House, 24, Darya Ganj,
DELHI-110002.**

Tel. : 27 3905.

Cable : DELWIRE

Telex : DELTONCO, ND-2367



Works :

- 1. 17/4, Mathura Road, Faridabad.**
- 2. 24, Najaf Garh Road, New Delhi.**

With best compliments of :

●

Road Rollers & Co.

ENGINEERS, GOVT. CONTRACTORS

Remember :

To Rent You Machineries :

- Road Rollers, Mixers & Other Road Making Equipments.
- Earth Moving Equipments.
- Engineers & Suppliers. Rebuilt + Brand New Construction & Road Building Machineries.


**16, SOUTH TUKO GANJ, STREET NO. 1
INDORE (M.P.)**

Phone : 7624

●

M/s. Road Constructon Co.

**8, Mahatma Gandhi Road,
INDORE (M.P.)**



आगत पत्र, नई १९७६

... relations can protect. Know this and
... life and get ride of karma,

—Bhagwan Mahavir

With Best compliments of :

RAJASTHAN PIPES PRIVATE LTD.

Government & Railway Contractors

FERROUS & NON FERROUS FOUNDERS

9 B, LORD SINHA ROAD

CALCUTTA-16

WORKS ; BACCHRAJ ROAD, NEMTA (24 PARGANAS)

Gram : "FINECAST" CALOUTTA

Telex : RA PIPE CA-7983

Phone :

Office : 44-7800, 44-3042

44-3269, 44-3260

Res : 67-2934

Specialist in :

**Ingot Moulds, Bolt plates & Heavy Castings
upto 10 tons each High Duty & Graded Castings
with desired Chemical Properties.**
